



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

Me
23/5/01

सं० 15]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14, 2001 (चैत्र 24, 1923)

No. 15]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14, 2001 (CHAITRA 24, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 12 मार्च 2001

सं. ए-19014/18/2001-प्रशा. 1--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, स्थापना अधिकारी का कार्यालय के दिनांक 13-12-2000 के का.जा सं. 31/28/2000-स्था. अधि. (एम.एम.-1) के तहत सरकार की चक्रानुक्रम नीति के अनुसरण में जल संसाधन मंत्रालय से संघ लोक सेवा आयोग में स्थानांतरण हो जाने के परिणामस्वरूप के.स.से के अधिकारी, श्री वी. के. त्रिखा को दिनांक 1 मार्च, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उप सचिव (वैयक्तिक/स्वस्थाने), संघ लोक सेवा आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है।

एम. निर्मला गव
अवर सचिव (प्रशा.)

लोक सेवा आयोग में स्थानांतरण हो जाने के परिणामस्वरूप के.स.से की अधिकारी, सुश्री रानी मखीजानी को दिनांक 5 मार्च, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अवर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 14 मार्च 2001

सं. ए-19014/20/2001-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री बी. बी. दत्ते, भा. डा. से. (86) को दिनांक 13 मार्च, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 12,000-375-16,500 रु के वेतनमान में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. निर्मला गव
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 22 मार्च 2001

सं. ए-19014/19/2001-प्रशा. 1--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, स्थापना अधिकारी का कार्यालय के दिनांक 14-11-2000 के का.जा सं. 31/17/2000-स्था. अधि. (एम.एम.-1) के तहत सरकार की चक्रानुक्रम नीति के अनुसरण में कृषि एवं सहकारिता विभाग से संघ 1--16GI/2000

(1547)

सं. ए 32013/5/96-प्रशा. 2--राजभाषा विभाग के दिनांक 08-03-2001 के का.जा सं 5/7/96-रा भा (सेवा) के अनुसरण में

महायुक्त निदेशक (रा.भा.) तथा तदर्थ आधार पर उप निदेशक (रा.भा.) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत डा. (श्रीमती) कंचन सक्सेना को दिनांक 01-03-2001 से आगामी आदेशों तक नियमित पदोन्नति आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में उप निदेशक (रा.भा.) (केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का ग्रेड-II) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 14 मार्च 2001

सं. प-35014/7/94-प्रशा-2--माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एतद्वारा संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संयर्ग के निजी सचिव (ग्रुप "क" एवं "ग" विलयित) श्री विजय कुमार शर्मा को दिनांक 02-03-2001 से 01-06-2001 तक की और पदोन्नति के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, आयोग के कार्यालय में रु. 8000-275-13,500/- के वेतनमान में तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर स्टाफ अधिकारी (ग्रुप "क" राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करने हैं।

2. तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर स्टाफ अधिकारी के रूप में नियुक्ति के दौरान, श्री विजय कुमार शर्मा का वेतन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05-01-94 के समय-समय पर यथासंशोधित का. ज्ञा. सं. 2/29/91 स्था. (वेतन-II) में निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)
कृते अध्यक्ष

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 मार्च 2001

सं. ई-31013(2)/1/2000/कार्मिक.2/भाग 2/135--वर्तमान में आई. ओ. सी. एल., हल्द्वारी रिफाइनरी में प्रतिनियुक्ति पर के. ओ. सु. बल के महायुक्त कमाण्डेंट (कार्य) श्री के. चन्द्र कुमार को के. ओ. सु. बल में दिनांक 26 फरवरी, 2001 के पृष्ठांक से उप कमाण्डेंट के रैंक में स्थानापन्न रूप में "अगले निचले नियम" के तहत एतद्वारा रुपये 10000-325-15200/- के वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

ह/अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.बल

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जम्मू व कश्मीर

श्रीनगर, दिनांक 20 फरवरी 2001

सं. प्रशासन-1/लेखापरीक्षा/1(2)/2000-01/2120-21--महालेखाकार जम्मू व कश्मीर ने निम्नवर्णित अनुभाग अधिकारियों को 6500-200-10500 रु. के वेतनमान में स्थानापन्न धारिता में तत्काल प्रभावी हेतु अर्थात् जिस तिथि से वे मुख्य कार्यालय, श्रीनगर में सहायक लेखापरीक्षा

अधिकारियों के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे, अन्य आदेशों के जारी होने तक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (वर्ग 'ख'-राजपत्रित) के रूप में सहर्ष नियुक्त किया है:--

| क्र. सं. | नाम | जन्म तिथि |
|----------|-----------------------|------------|
| 1. | श्री रतन लाल रैना | 27-04-1953 |
| 2. | श्री जीवन कुमार हण्डू | 10-03-1957 |

श्री रतन लाल रैना, जो इस समय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, ग्वालियर के कार्यालय में अस्थाई समायोजन पर हैं, के मामले में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है यदि उसका नियोक्ता उसको उच्चतर उत्तरदायित्वों के पद के विरुद्ध यथा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में का इच्छुक है।

पदोन्नत अधिकारी भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/87-स्था. वेतन-I दिनांक 09-11-1987 की शर्तों के अनुसार उनकी पदोन्नति की तिथि से एक महीने के अन्तर्गत वेतन नियत करवाने के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

मधुमिता मण्डल
उप महालेखाकार (प्र)

दिनांक 01 मार्च 2001

सं. प्रशासन-1/लेखापरीक्षा/1(2)/2000-01/2189-90--महालेखाकार जम्मू व कश्मीर ने निम्नवर्णित अनुभाग अधिकारियों को 6500-200-10500 रु. के वेतनमान में स्थानापन्न धारिता में तत्काल प्रभावी हेतु अर्थात् जिस तिथि से वे सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे, जो भी परिवर्ती हो, अन्य आदेशों के जारी होने तक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (वर्ग 'ख') के रूप में सहर्ष नियुक्त किया है। तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे:--

| क्र. सं. | नाम | जन्म तिथि |
|----------|-----------------------|------------|
| 1. | श्री चन्द्र मोहन सराफ | 28-02-1957 |
| 2. | श्री नजीर अहमद डार | 20-06-1960 |

पदोन्नत अधिकारी भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/87-स्था. वेतन-I दिनांक 09-11-1987 की शर्तों के अनुसार उनकी पदोन्नति की तिथि से एक महीने के अन्तर्गत वेतन के नियतन हेतु अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

मधुमिता मण्डल
उप महालेखाकार (प्र)

सं. प्रशासन-1/लेखापरीक्षा/1(2)/2000-01/2177-78--महालेखाकार (लेखापरीक्षा) जम्मू व कश्मीर ने निम्नलिखित सहायक

लेखापरीक्षा अधिकारियों को स्थानापन्न धारिता में 7500-250-12000 के वेतनमान में तत्काल प्रभावी हेतु अथवा जिस तिथि से वे लेखापरीक्षा अधिकारियों के रूप में कार्यभार धारण करेंगे, अन्य आदेशों के जारी होने तक लेखा परीक्षा अधिकारियों (वर्ग 'ख') के रूप में सहर्ष नियुक्त किया है :-

| क्र. सं. | नाम | जन्म तिथि |
|----------|-----------------------|------------|
| 1. | श्री अशोक कुमार मल्ला | 01-05-1948 |
| 2. | श्री शिवन कृष्ण खाबरू | 30-05-1952 |

पदोन्नत अधिकारी भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/87-स्था. वेतन-1 दिनांक 09-11-1987 की शर्तों के अनुसार उनकी पदोन्नति की तिथि से एक महीने के अन्तर्गत वेतन के नियतन हेतु अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

मधुमिता मण्डल
उप महालेखाकार (प्र)

श्रम मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

शिमला-171 004, दिनांक 30 मार्च 2001

सं. 5/1/2001-सी.पी.आई.--फरवरी, 2001 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) 2 अंक घट कर 443 (चार सौ तैंतालीस) अंक रहा।

आई.एस. नेगी
उप निदेशक

खान मंत्रालय

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 19 मार्च 2001

सं. 931/ए-32013/4-डीडीजी (डी ई)/90-19बी--राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित निदेशक (वेधन) (चयन श्रेणी) को उप महानिदेशक (वेधन) के रूप में पदोन्नति पर इसी विभाग में 18,400-500-22,400/- रु. के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावित अग्रिम आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

| क्र. सं. | नाम | कार्य ग्रहण करने की तिथि |
|----------|--------------------|--------------------------|
| 1. | श्री एस.सी. चौपड़ा | 28-02-2001(पूर्वाह्न) |
| 2. | श्री आर.सुन्दरराजन | 28-02-2001(पूर्वाह्न) |

आर.एन. दत्त
निदेशक (कार्मिक)
कृते महानिदेशक

दिनांक 27 मार्च 2001

सं. ए-32013/1-भूवै. (वरि.)/2001/19ए--राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) का पदोन्नति पर भूवैज्ञानिक (वरिष्ठ) के रूप में इसी विभाग में 10,000 325-15,200/-रु. के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से नियुक्त करते हैं।

| क्र. सं. | नाम | नियुक्ति की तिथि |
|----------|----------------------------|----------------------|
| 01. | निर्दोष कुमार पुंज | 22-2-2001(पूर्वाह्न) |
| 02. | के. वासुदेवन नारम्बियार | 22-2-2001(पूर्वाह्न) |
| 03. | कमल कुमार गंगोपाध्याय | 20-2-2001(अपराह्न) |
| 04. | चन्दर शाखेर जामवल | 22-2-2001(पूर्वाह्न) |
| 05. | ध्रुवा गांगुली | 20-2-2001 (अपराह्न) |
| 06. | श्रीमती मीता गांगुली (दास) | 22 2 2001(अपराह्न) |
| 07. | आर मधुसूदन | 20-2-2001(अपराह्न) |
| 08. | वी. श्रीनिवासमूर्ति | 20-2-2001(अपराह्न) |
| 09. | डी.के. मुखोपाध्याय | 22-2-2001(पूर्वाह्न) |
| 10. | सतीश कुमार जाडिया | 21-2-2001(पूर्वाह्न) |
| 11. | मुकुल किशोर | 20-2-2001(अपराह्न) |

आर.एन. दत्त
निदेशक (कार्मिक)
कृते महानिदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग
प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर-452 013, दिनांक 26 मार्च 2001

क्र. केट/2001-प्रशा./भ-902/415--भारत के राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को उनके सम्मुख अंकित पदक्रम एवं दिनांक की पूर्वाह्न से स्थानापन्न रूप से आगामी आदेशों तक प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में नियुक्त करते हैं।

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | पद | दिनांक |
|----------|-----------------------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री जय खरे | वैअ/सी | 1-04-1999 |
| 2. | डॉ. ए. के. श्रीवास्तव | वैअ/डी | 1-10 2000 |
| 3. | डॉ. कंबलजीत सिंह | वैअ/डी | -वही |
| 4. | डॉ. एस. गणेशा मूर्ति | वैअ/डी | -वही- |
| 5. | डॉ. गौतम सिन्हा | वैअ/डी | वही- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------------------|--------|-----------|
| 6. | श्री एम.एस. भगत | वैअ/सी | 1-10-2000 |
| 7. | श्री महेश्वर नायक | वैअ/सी | -वही- |
| 8. | श्री एस. सतापथी | वैअ/सी | -वही- |
| 9. | कु. प्रीति खरे | वैअ/सी | -वही- |
| 10. | श्री तिरुमला राव | वैअ/सी | -वही- |
| 11. | श्री एम. जे. जोशी | वैअ/सी | -वही- |

आर. कं. सैनी
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुम्बई-4000 94, दिनांक 22 मार्च 2001

सं. भापाबो/भ/1/2(38)/2001/186--राष्ट्रपति, भारी पानी संयंत्रों के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 1 अगस्त 2000 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में आगामी आदेशों तक उसी कार्यालय/संयंत्र में, नीचे कालम 4 में उल्लिखित पदों पर अस्थायी रूप से कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

| क्र. सं. | नाम | वर्तमान ग्रेड | ग्रुप जिममें पदोन्नति दी गई | यूनिट |
|----------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | सर्वश्री/श्री | | | |
| 1. | ओम प्रकाश सिंह | वैज्ञा.अधि./डी | वैज्ञा.अधि./ई | भापास (कोटा) |
| 2. | प्रशांत राय | वैज्ञा.अधि./डी | वैज्ञा.अधि./ई | भापास (कोटा) |
| 3. | राम वृक्ष प्रसाद | वैज्ञा.अधि./सी | वैज्ञा.अधि./डी | भापास (कोटा) |
| 4. | देवेन्द्र कुमार कल्कल | वैज्ञा.अधि./सी | वैज्ञा.अधि./डी | भापास (कोटा) |
| 5. | हनुमान सिंह यादव | वैज्ञा.अधि./सी | वैज्ञा.अधि./डी | भापास (कोटा) |
| 6. | चन्द्र कुमार यादव | वैज्ञा.अधि./सी | वैज्ञा.अधि./डी | भापास (कोटा) |
| 7. | मुगिल कुमार श्रीवास्तव | वैज्ञा.अधि./सी | वैज्ञा.अधि./डी | भापास (कोटा) |
| 8. | गोपाल सिंह | वैज्ञा.अधि./सी | वैज्ञा.अधि./डी | भापास (कोटा) |
| 9. | जसवंतलाल शिवलाल परमार | वैज्ञा.अधि./डी | वैज्ञा.अधि./ई | भापास (बड़ौदा) |
| 10. | पृथ्वीदेव राय | वैज्ञा.अधि./डी | वैज्ञा.अधि./ई | भापास (बड़ौदा) |
| 11. | ब्रह्म स्वरूप | वैज्ञा.अधि./डी | वैज्ञा.अधि./ई | भापास (बड़ौदा) |
| 12. | प्रेमिष्ठ कंवर | वैज्ञा.अधि./डी | वैज्ञा.अधि./ई | भापास (बड़ौदा) |
| 13. | रमेशचन्द्र फिफ्थर्ड मुरेन्द्र | वैज्ञा.अधि./डी | वैज्ञा.अधि./ई | भापास (बड़ौदा) |
| 14. | रम नागयण सिंह | वैज्ञा.अधि./डी | वैज्ञा.अधि./ई | भापास (बड़ौदा) |
| 15. | विजय कुमार भट्ट | वैज्ञा.अधि./सी | वैज्ञा.अधि./डी | भापास (बड़ौदा) |
| 16. | योगेन्द्र द्विवेदी | वैज्ञा.अधि./सी | वैज्ञा.अधि./डी | भापास (बड़ौदा) |
| 17. | एकर्ट भनाकोटी चन्दसेकरन | वैज्ञा.अधि./डी | वैज्ञा.अधि./ई | भापास (तृतीकोरिन) |
| 18. | पलानियाडी कुमारवेलु | वैज्ञा.अधि./डी | वैज्ञा.अधि./ई | भापास (तृतीकोरिन) |
| 19. | कृष्णासामि विजयगगवन | वैज्ञा.अधि./सी | वैज्ञा.अधि./डी | भापास (तृतीकोरिन) |
| 20. | अन्नामलाई मयाडगन् | वैज्ञा.अधि./डी | वैज्ञा.अधि./सी | भापास (तृतीकोरिन) |

उपरोक्त अधिकारियों ने दिनांक 1 अगस्त 2000 के पूर्वाह्न से कालम सं. 3 में उल्लिखित अपने धारित पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

वेतनमान :

| | | |
|--|----|-----------------|
| 1 वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "ई" | -- | 12000-375-16500 |
| 2 वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "डी" | -- | 10000-325-15200 |
| 3 वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड "सी" | -- | 8000-275-13500 |

सी.जी. सुकुमारन
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
कम्पनी कार्य विभाग

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कटक-753 001, दिनांक 26 मार्च 2001

सं. आर.ओ.सी.-0-एफटीएस-560/3905--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:

| क्र. सं. | कंपनी नं. | कंपनी का नाम |
|----------|-----------|--|
| 01. | 15-01545 | मै. ट्रांस उड़ीसा मिडिया प्रा. लि.। |
| 02. | 15-03522 | मै. गनपति राईस मिल्स प्रा. लि.। |
| 03. | 15-04271 | टेकमार्क कैबल्स प्रा. लि.। |
| 04. | 15-02345 | गोपाल काटबाईड प्रा. लि.। |
| 05. | 15-05672 | हायटेक कनसल्टेंट्स प्रा. लि.। |
| 06. | 15-03683 | चेरिअट एजबासट्स प्रोडक्ट्स प्रा. लि.। |
| 07. | 15-04451 | चेरिअट सिमेंट लि.। |
| 08. | 15-01151 | जजाति हैटलेट्स प्रा. लि.। |
| 09. | 15-02697 | मिडिया प्रिंट प्रा. लि.। |
| 10. | 15-02696 | मिडिया लिंक प्रा. लि.। |
| 11. | 15-03289 | भिग्रो मेनेजमेंट कोनसल्टेंस प्रा. लि.। |

वि. महान्ति
कंपनी रजिस्ट्रार, उड़ीसा

कटक-753 001, दिनांक 27 मार्च 2001

सं. आर.ओ.सी.-0-एफटीएस-560/3906--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:

| क्र. सं. | कंपनी नं. | कंपनी का नाम |
|----------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01. | 15-02406 | मै. निलाचल टेक्निकल प्रा. लि.। |
| 02. | 15-02316 | मै. शूर्बन फार्मर्स (प्रा.) लि.। |
| 03. | 15-01719 | मै. शेडारि कंस्ट्रक्शन (प्रा.) लि.। |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|----------|---|
| 04. | 15-01720 | मै. शर्मा उद्योग (प्रा.) लि.। |
| 05. | 15-01471 | मै. ईसकैयार रेबर (प्रा.) लि.। |
| 06. | 15-03431 | मै. श्री लार्ड जगन्नाथ टिक ट्रि पलाटंसन (प्रा.) लि.। |
| 07. | 15-02989 | मै. ईस्टार स्लुग इनड्राब्रिज (प्रा.) लि. |
| 08. | 15-04082 | मै. श्री मां दंदेश्वर इंटिग्रेटड पाडि कम्पलस (प्रा.) लि.। |
| 09. | 15-03998 | मै. हरिराम पाडि पार्टबलिक आंड ड्रांग ईनड्रूज (प्रा.) लि.। |
| 10. | 15-04216 | मै. साहु इक्सपोर्टस् (प्रा.) लि.। |

वि. महान्ति
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 के सम्बन्ध में और निम्नलिखित कम्पनी के सम्बन्ध में।

कलकत्ता-700 020, दिनांक 21 मार्च 2001

अधिसूचना सं.-टी.एस./प्रा./37447--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की समाप्ति तक किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने पर निम्नलिखित कम्पनी का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी। यह अधिसूचना विभाग के परिपत्र सं.-1/5/2000-सीएल. 5 दिनांक 20 सितम्बर, 2000 के अनुसरण में जारी की गई।

अनुलग्नक 'क' के अनुसार

| क्र. सं. | कंपनी सं | कंपनी का नाम एनेक्वर-"ए" |
|----------|----------|---|
| 1. | 2 | 3 |
| 01. | 41977 | मैसर्स स्टीलमैन इक्युपमेंट्स प्रा. लि. |
| 02. | 41978 | मैसर्स स्टीलमैन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. |
| 03. | 37301 | मैसर्स ग्रेससेंट वायर इन्डस्ट्रीज प्रा. लि. |
| 04. | 50390 | मैसर्स ईस्सेन फैब्रिकेटर्स प्रा. लि. |
| 05. | 44414 | मैसर्स स्टैनमोर बिल्डर्स प्रा. लि. |
| 06. | 46951 | मैसर्स क्रियेशन मार्केटिंग प्रा. लि. |
| 07. | 45304 | मैसर्स एक्वेस्ट लायजन कम्पनी प्रा. लि. |
| 08. | 53742 | मैसर्स सीता इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. |
| 09. | 32311 | मैसर्स मदन डेवेलपमेंट प्रा. लि. |
| 10. | 43900 | मैसर्स एसजीडी टेक्नो प्रा. लि. |
| 11. | 34217 | मैसर्स फ्लोरेन्स प्रा. लि. |
| 12. | 43572 | मैसर्स चारु एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. |
| 13. | 57560 | मैसर्स रत्ना सेल्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. |
| 14. | 36177 | मैसर्स सिवटेक निर्माण प्रा. लि. |
| 15. | 39077 | मैसर्स शाइनिंग प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. |
| 16. | 58168 | मैसर्स एस. के. बी. क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि. |
| 17. | 52707 | मैसर्स रिच इन्वेस्टमेंट एण्ड होलिंग प्रा. लि. |
| 18. | 46118 | मैसर्स नेहा लैण्ड डेवेलोपर्स प्रा. लि. |
| 19. | 58796 | मैसर्स बूम प्रोडक्टीव कंसल्टेंट्स प्रा. लि. |

एस. कर्मकार
कम्पनी रजिस्ट्रार, प. बंगाल

कम्पनी अधिनियम 1956 के सम्बन्ध में और निम्नलिखित कम्पनी के सम्बन्ध में।

चेन्नई, दिनांक 26 मार्च 2001

सं. 1980 से 41536/560(3)/2001--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्ट्रार से काट दिये जाएंगे और उक्त कंपनियां विघटित कर दी जाएंगी:--

| क्र. सं. | कंपनी संख्या | कंपनी का नाम |
|----------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1980 | दी प्रेसीडेंसी टाकीस प्रा. लि. |
| 2. | 11875 | स्टेफोर्ड बिस्नेस साफ्टवेट इंडिया लि. |
| 3. | 15873 | श्याम हायर पचेस अण्ड फिनान्स प्रा. लि. |
| 4. | 16487 | शेर्शाह कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि. |
| 5. | 17006 | एलमेट्रोनिक् फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि. |
| 6. | 17693 | श्याम एड्हीसिक्स और लेवलिंग प्रोडक्ट्स लि. |
| 7. | 17734 | सुर्गी लेटक्स इंदिया प्रा. लि. |
| 8. | 18233 | मलटी इंफ्रेशंस प्रा. लि. |
| 9. | 18462 | विगनेश्वरा इन्वेस्टमेंट्स और कंसलटेन्सी सर्वीसेस प्रा. लि. |
| 10. | 20372 | हाट अन म्यूसी कंटेर्स प्रा. लि. |
| 11. | 21706 | कलासविन फिनान्स और इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि. |
| 12. | 26126 | रायल एडवरटाइजिंग प्रा. लि. |
| 13. | 26813 | तारा ओरियेंटल फूड्स प्रा. लि. |
| 14. | 27615 | अलट्रान्स इम्पेक्स (मद्रास) प्रा. लि. |
| 15. | 27680 | एमरालड हिल रीसार्ड्स प्रा. लि. |
| 16. | 28211 | ममलन मिलटर्स प्रा. लि. |
| 17. | 28367 | अंकर सैक्यूरिटीज़ प्रा. लि. |
| 18. | 28990 | मीरा फिनानशियल सर्वीसेस प्रा. लि. |
| 19. | 29834 | शीरीन कार्गो एण्ड ट्रावल सर्वीसेस प्रा. लि. |
| 20. | 31401 | के. एल. एम. रायल सैक्यूरिटीस एण्ड इन्वेस्टमेंट लि. |
| 21. | 31484 | मद्रास प्रो मेग कंसलटेंट्स प्रा. लि. |
| 22. | 32243 | ग्रीन पार्क होटल्स एण्ड रिसार्ट्स लि. |
| 23. | 32176 | अग्रवाल स्टाक एण्ड कंसलटेन्सी प्रा. लि. |
| 24. | 32829 | नाईना स्टाक अण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि. |
| 25. | 32886 | अमरावती रिसार्ट्स अण्ड होटेलम् प्रा. लि. |
| 26. | 33527 | मेक्सवेलत बेनिफिट फण्ड प्रा. लि. |
| 27. | 34162 | पी. एम. एम. हाऊसींग डेवलपमेंट एण्ड फिनान्स लि. |
| 28. | 35630 | बद्रा हाऊसींग एण्ड डेवलपमेंट प्रा. लि. |
| 29. | 35775 | कला मंदिर बिल्डर्स प्रा. लि. |
| 30. | 35787 | श्री गौरी बिनायगार फिनान्स इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि. |
| 31. | 35858 | अकरै होटल्स अण्ड एन्टरप्राईसेस प्रा. लि. |
| 32. | 35892 | पी. ए. एडवरटाइजिंग प्रा. लि. |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|
| 33. | 35931 | पी. ए. चिदम्बरम् प्रा. लि. |
| 34. | 35953 | विश्वनाथ ब्रास इंपेक्स प्रा. लि. |
| 35. | 36155 | विगनेश कार्तिक कंसलटेंट्स एण्ड ट्रेडिंग (इंडिया) प्रा. लि. |
| 36. | 36260 | वैजा इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि. |
| 37. | 36411 | जेमीनी काटन वीव् प्रा. लि. |
| 38. | 36533 | भाग्यलक्ष्मी टेक्सटाइल मिल्स प्रा. लि. |
| 39. | 37558 | के. एस. आर. एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. |
| 40. | 39322 | बरणी अग्रो प्रा. लि. |
| 41. | 39355 | पूरणी बेनिफिट फण्ड लि. |
| 42. | 39835 | सिवा विष्णु रिक्लूटमेंट सर्वीस प्रा. लि. |
| 43. | 40286 | जगराम टेक्नालजीस प्रा. लि. |
| 44. | 40311 | राजेश स्टेयिनलेस प्रा. लि. |
| 45. | 40584 | कस्टास फिनलीस प्रा. लि. |
| 46. | 41536 | युनेटेड रिक्टीलेशंस प्रा. लि. |

एम. चन्दनमुल्लु
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
चेन्नै

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

कलकत्ता-700020, दिनांक 26 मार्च 2001

सं. टी.एस./प्रा./560--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 3 (तीन) महीनों की समाप्ति तक किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी जाएंगी। यह अधिसूचना विभाग के परिपत्र सं. 1/5/2000-सी.एल.5 दिनांक 20 सितम्बर, 2000 के अनुसरण में जारी की गई :-

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम और पता |
|----------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 2760 | मैसर्स जैनती सेन्ट्रल कोलियरी लिमिटेड |
| 2. | 7217 | मैसर्स चंदूलाल बी. मोदी एण्ड कम्पनी प्रा. लि. |
| 3. | 7612 | मैसर्स सितारा आई हिंद प्रेस प्रा. लि. |
| 4. | 8098 | मैसर्स नटवर पॉल एण्ड ब्रदर्स कलकत्ता प्रा. लि. |
| 5. | 8897 | मैसर्स बी. के. दत्त एण्ड कम्पनी प्रा. लि. |
| 6. | 9638 | मैसर्स एम. धर कम्पनी प्रा. लि. |
| 7. | 10646 | मैसर्स कोल मार्केटिंग कम्पनी ऑफ इण्डिया प्रा. लि. |
| 8. | 10665 | मैसर्स मोहिन एण्ड कम्पनी प्रा. लि. |
| 9. | 11220 | मैसर्स दास एण्ड कम्पनी इण्डिया प्रा. लि. |
| 10. | 11293 | मैसर्स ओरियेंट इन्डस्ट्रीयल इंजी. कम्पनी प्रा. लि. |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|
| 11. | 11591 | मैसर्स तोदी प्रोपर्टीज लिमिटेड |
| 12. | 11629 | मैसर्स यूनाइटेड कॉमर्सियल प्रेस लिमिटेड |
| 13. | 11770 | मैसर्स विश्वेश्वरी इस्टेट प्रा. लि. |
| 14. | 11780 | मैसर्स बैंगाल वायर नेल्स कम्पनी प्रा. लि. |
| 15. | 12203 | मैसर्स दिसरगढ़ कोल कम्पनी लिमिटेड |
| 16. | 12217 | मैसर्स माधवपुर कोल कम्पनी लिमिटेड |
| 17. | 13067 | मैसर्स हिन्द टेक्सटाइल्स प्रा. लि. |
| 18. | 14130 | मैसर्स एलाइड कैरियर्स (इण्डिया) प्रा. लि. |
| 19. | 14660 | मैसर्स मुचुअल प्रोपर्टीज प्रा. लि. |
| 20. | 15290 | मैसर्स भगत प्रोपर्टीज प्रा. लि. |
| 21. | 15536 | मैसर्स तमलुक ट्रान्सपोर्ट एण्ड इन्डस्ट्रीज प्रा. लि. |
| 22. | 15881 | मैसर्स पी.आर. सरकार एण्ड कम्पनी प्रा. लि. |
| 23. | 18277 | मैसर्स झाझरिया ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि. |
| 24. | 18370 | मैसर्स निम्पोन स्टील प्रोडक्ट्स प्रा. लि. |
| 25. | 18580 | मैसर्स रायसाहिब चंदनमल इंदु कुमार प्रा. लि. |
| 26. | 19157 | मैसर्स स्वदेशी क्लोथ डीलर्स लिमिटेड |
| 27. | 19786 | मैसर्स एस. कर एण्ड कम्पनी प्रा. लि. |
| 28. | 20700 | मैसर्स रूपायन प्रोडक्शन प्रा. लि. |
| 29. | 21437 | मैसर्स कुंदन टेक्सटाइल्स प्रा. लि. |
| 30. | 22325 | मैसर्स फिगीस प्रा. लि. |
| 31. | 23971 | मैसर्स ओरियेनल प्रोडक्ट्स प्रा. लि. |
| 32. | 23991 | मैसर्स बनर्जी एण्ड चटर्जी स्टीवेडर्स प्रा. लि. |
| 33. | 24052 | मैसर्स बाईसाइकिल कॉम्पोनेंट्स प्रा. लि. |
| 34. | 24055 | मैसर्स डूम डूम ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि. |
| 35. | 24357 | मैसर्स प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि. |
| 36. | 24378 | मैसर्स मेहता सन्स प्रा. लि. |
| 37. | 24471 | मैसर्स रोला (इण्डिया) प्रा. लि. |
| 38. | 24667 | मैसर्स रायलित एण्ड कम्पनी प्रा. लि. |
| 39. | 24680 | मैसर्स मित्र मैनुफैक्चरिंग प्रा. लि. |
| 40. | 24682 | मैसर्स एशियाटिक मैनुफैक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि. |
| 41. | 24767 | मैसर्स इण्डियन मेकर्स प्रा. लि. |
| 42. | 24928 | मैसर्स रतनलाल मांथना एण्ड सन्स प्रा. लि. |
| 43. | 25091 | मैसर्स इलिनोओ प्रा. लि. |
| 44. | 25226 | मैसर्स अन्दूल फाउण्ड्री एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि. |
| 45. | 25253 | मैसर्स अशोक गैस प्रा. लि. |
| 46. | 25611 | मैसर्स जूपिटर वाणिज्य प्रा. लि. |
| 47. | 25837 | मैसर्स हार्टमेटल टूल्स एण्ड डायस प्रा. लि. |
| 48. | 25847 | मैसर्स अम्सेल (इण्डिया) प्रा. लि. |
| 49. | 25885 | मैसर्स चक्रवर्ती एण्ड थोष कंसल्टेशन प्रा. लि. |
| 50. | 26375 | मैसर्स एफ.एच. गुप्ता एण्ड कम्पनी प्रा. लि. |
| 51. | 26448 | मैसर्स प्रोग्रेसिव पोल्ट्री प्रा. लि. |
| 52. | 26558 | मैसर्स ओध प्रोपर्टीज एण्ड ट्रेडर्स प्रा. लि. |
| 53. | 26830 | मैसर्स बैंगाल शेफ एण्ड स्टील वर्क्स प्रा. लि. |
| 54. | 26856 | मैसर्स रामसरूप सामचांद (गन्नी डीलर्स) प्रा. लि. |
| 55. | 27056 | मैसर्स हेम कंसल्टेशन प्रा. लि. |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|
| 56. | 27226 | मैसर्स लक्ष्मी प्लास्टिक्स एण्ड पॉलीथिलीन प्रा.लि. |
| 57. | 27248 | मैसर्स बैंगाल एयर कंडीशनर्स प्रा.लि. |
| 58. | 27354 | मैसर्स त्रिपाठी पारीक (कंसल्टेंट्स) प्रा.लि. |
| 59. | 27537 | मैसर्स कोमैड कंसल्टेंट्स (इण्डिया) प्रा.लि. |
| 60. | 27740 | मैसर्स बेस्ट ग्रिनडींग चक्स प्रा.लि. |
| 61. | 28224 | मैसर्स सिन्हा एजेन्सी प्रा.लि. |
| 62. | 28323 | मैसर्स सान्वा फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड |
| 63. | 28347 | मैसर्स ग्लोब ऑयल कम्पनी लिमिटेड |
| 64. | 28458 | मैसर्स बैंगाल सेविंग फाइनेन्स प्रा.लि. |
| 65. | 28508 | मैसर्स सुगर एजेन्ट्स (कलकत्ता) प्रा.लि. |
| 66. | 28590 | मैसर्स एस.पी. मेनेरल्स प्रा.लि. |
| 67. | 28672 | मैसर्स माधव इंजीनियरिंग चक्स प्रा.लि. |
| 68. | 29048 | मैसर्स एम.पी. केशान प्रा.लि. |
| 69. | 29169 | मैसर्स सीलिड एलॉय ग्रिनडींग बिल्स लिमिटेड |
| 70. | 29248 | मैसर्स पॉलीसन इंजीनियर्स प्रा.लि. |
| 71. | 29313 | मैसर्स मिनेरल वूल मैनुफैक्चरिंग (इण्डिया) प्रा. लि. |
| 72. | 29467 | मैसर्स ब्रिक्वेड्स (इण्डिया) प्रा.लि. |
| 73. | 29619 | मैसर्स बी.एच. केमिकल इन्डस्ट्रीज प्रा.लि. |
| 74. | 29647 | मैसर्स आनंद सर्विस स्टेशन प्रा.लि. |
| 75. | 29701 | मैसर्स वेस्ट ब्रैंगल वूल्लेन होजियरी कम्पनी प्रा.लि. |
| 76. | 29780 | मैसर्स बाफना इन्वेस्टमेंट्स प्रा.लि. |
| 77. | 22910 | मैसर्स इंटरनेशनल स्टील्स प्रा.लि. |

कम्पनी अधिनियम 1956 और फास्ट ट्रेक स्कीम के अन्तर्गत लागू
मैसर्स सुरिंभि, रबर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी, दिनांक 28 मार्च 2001

सं. 24-01204/यू/एस 560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. सुरिंभि रबर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम.अहमद कुंजू
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम 1956 और फास्ट ट्रेक स्कीम के अन्तर्गत लागू
मैसर्स दिव्या मिनरल्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी, दिनांक 28 मार्च 2001

सं. 24-1657/यू/एस 560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. दिव्या मिनरल्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम.अहमद कुंजू
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम 1956 और फास्ट ट्रेक स्कीम के अन्तर्गत लागू
मैसर्स कोर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी, दिनांक 28 मार्च 2001

सं. 24-02134/यू/एस 560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. कोर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम.अहमद कुंजू
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम 1956 और फास्ट ट्रेक स्कीम के अन्तर्गत लागू
मैसर्स सम्पा फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी, दिनांक 28 मार्च 2001

सं. 24-02318/यू/एस 560(5)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. सम्पा फ्रेट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम.अहमद कुंजू
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

जम्मू (तबी), दिनांक 2001

सं. ओ.सी./जम्मू/2001/एफ.टी.स.-प/30--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि समाप्त पर निम्नलिखित कम्पनियों के नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो कम्पनियों के रजिस्टर से काट लिया जाएगा तथा निम्नलिखित कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी--

| क्र. सं. | कम्पनी सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|------------|--|
| 1. | 07-602 | अलसहर पिकचर स्टूडियो एण्ड सर्विसेज प्रा. लिमिटेड |
| 2. | 07-1771 | पाईनस एग्रो फारेस्ट्री प्रा. लि. |
| 3. | 07-1788 | आतमान एंजुकेशन प्रा. लिमिटेड |
| 4. | 07-1830 | बसन्तर फारेस्ट इंडिया प्रा. लिमिटेड |
| 5. | 07-1877 | एम.एफ. कन्सल्टेन्सी एण्ड ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड |

मनमोहन जुनेजा
कम्पनी रजिस्ट्रार
जम्मू एण्ड कश्मीर

उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

दे कु गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

दे. कु. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

सं. 560/3/37661/8054--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मै. सिस्टिक कम्प्यूटर सर्विस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दे.कु. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

सं. 560/3/35320/8020--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैं, एससेन्ट इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. अनुज सॉफ्टवियर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

दे. कु. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 फरवरी 2001

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. प्रीमियर एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

सं. 560/3/31537/8061--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैं, अनुज सोफ्टवियर प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 फरवरी 2001

दे.कु. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

सं. 560/3/34746/8032---कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैं, प्रीमियर एडवाइजर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. मनी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में।

दे. कु. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

नई दिल्ली 110003, दिनांक 20 फरवरी 2001

कम्पनी अधिनियम 1956 और मै. अग्नि कंसलटैन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

स. 560/3/35281/8062--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैं मनी एंजोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 फरवरी 2001

सं 560/3/39144/8046--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मै. अग्नि कंसलटैन्ट प्राइवेट लिमिटेड

दे कु गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

दे. कृ. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एल. एम. प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 फरवरी 2001

सं. 560/3/32529/8418--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एल. एम. प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. के. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नरेन्द्र पाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 फरवरी 2001

सं. 560/3/35520/8426--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नरेन्द्र पाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. के. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स निकोण इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 फरवरी 2001

सं. 560/3/37289/8427--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स निकोण इलैक्ट्रॉनिक्स सर्विस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण न दिया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डी. के. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 08/2001

दिनांक 14-04-2001

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2001

सं. फ. 7/2/2001-प. I (ख)--राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना और वायु सेना स्कंधों के लिए जुलाई, 2002 में शुरू होने वाले

108वें पाठ्यक्रम हेतु और नौ सेना अकादमी के 28वें पाठ्यक्रम 10+2 (कार्यपालक शाखा) में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 16 सितम्बर, 2001 को एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 370 होगी (जिसमें थल सेना के लिए 214, नौ सेना के लिए 55, वायु सेना के लिए 66 और नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा के लिए यह संख्या 35 होगी)।

रिक्तियां अनंतिम हैं तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स की प्रशिक्षण क्षमतानुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष ध्यान : (i) उम्मीदवार को आवेदन प्रपत्र के कालम 17(1) में यह स्पष्ट रूप से बतलाना होगा कि वह किन सेवाओं के लिए वरीयता क्रम में विचार किए जाने का इच्छुक है। उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करे ताकि योग्यता क्रम में उसके रैंक को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते समय उसकी वरीयताओं पर भली भांति विचार किया जा सके।

(ii) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं सेवाओं पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जिनके लिए वे अपनी वरीयता व्यक्त करते हैं, अन्य सेवा व सेवाओं पर नहीं। उम्मीदवार द्वारा अपने प्रपत्र में पहले निर्दिष्ट वरीयता में वृद्धि/परिवर्तन के अनुरोध को आयोग स्वीकार नहीं करेगा।

(iii) विभिन्न कोर्सों में अपनी वरीयताओं को निर्दिष्ट करने से पहले उम्मीदवार दोनों अकादमियों, अर्थात् राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) के लिए अपनी वरीयता सुनिश्चित कर लें। यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपने पहले विकल्प के रूप में चुनता है, तो उसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के विभिन्न स्कंधों अर्थात् थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना में अपनी पहली वरीयता निर्दिष्ट कर देनी चाहिए तथा नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को उसके बाद वरीयता देनी चाहिए। इसी प्रकार, यदि कोई उम्मीदवार नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को अपने पहले विकल्प के रूप में चुनता है तो उसे नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को अपनी पहली वरीयता निर्दिष्ट कर देनी चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के विभिन्न स्कंधों के लिए अपनी वरीयताएं देनी चाहिए। अतः जो उम्मीदवार नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) कोर्स के साथ-साथ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के अन्य कोर्सों का भी चयन करते हैं उन्हें नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को अपने पहले या अंतिम वरीयता के रूप में विकल्प देना चाहिए।

नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को दूसरी या तीसरी वरीयता नहीं दी जा सकती है। यदि उम्मीदवार द्वारा नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को दूसरी या तीसरी वरीयता भी दी गई तो उसे उम्मीदवार की अंतिम वरीयता समझा जाएगा।

(iv) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा।

2. परीक्षा के केन्द्र:

अगरतला, अहमदाबाद, एजल, इलाहाबाद, बंगलौर, बरेली, भोपाल, कलकत्ता, चंडीगढ़, चेन्नई (मद्रास), कटक, दिल्ली, धारवाड़, दिसपुर (गुवाहाटी), गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कवाराती (लक्षद्वीप), कोची (कोचीन), कोहिमा, लखनऊ, मदुरै, मुंबई (बंबई), नागपुर, पणजी (गोवा), पटना, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, सम्बलपुर, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंथापुरम (त्रिवेन्द्रम), तिरुपति, उदयपुर और विशाखापट्टनम।

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा नारीखों में परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास किए जाएंगे, तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विवक्षा पर अलग केन्द्र दे सकता है। जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा, किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है। ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा। किन्तु 14 जून, 2001 के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रीयता : उम्मीदवार या तो :--

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा, या
3. भूटान की प्रजा, या
4. भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो; या
5. भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कीनिया, उगाण्डा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य, जाम्बिया, मलावी, जैरे तथा इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो। पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति :

वे ही अधिवाहित पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं जिनका जन्म दो जुलाई, 1983 से पहले का तथा पहली जनवरी, 1986 के बाद का न हो।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय

द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुश्रुति मैट्रिकुलेटो के रजिस्ट्रारों में दर्ज की गई हो और यह उद्घरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली शपथ पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्घरण तथा अन्य गेमे ही प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए 'मैट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा' प्रमाण पत्र वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखे कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और उसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुबंध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देन और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के कॉलम 8 में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जाच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी-4 : उम्मीदवारों को इस बात का खचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा। चाहे वह उस परीक्षा में यहाँ अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वह सब उससे वसूल किया जाएगा।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना स्कंध के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायु सेना और नौ सेना स्कंधों तथा नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा 10+2 के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भौतिकी और गणित सहित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

जो उम्मीदवार स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 के अधीन 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 15 मई, 2002 तक अपने मैट्रिकुलेशन एवं 10+2 या समकक्ष प्रमाण पत्र मूल रूप से सेना मुख्यालय रिक्तिंग एनडीए (एंडी) वेस्ट ब्लाक 3, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 को तथा नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों को नौ सेना मुख्यालय, आर एण्ड आर सैक्शन, 206 सी विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ऐसे मामलों में जहाँ बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हैं, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा दिए गए मूल प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य होंगे, ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रमाणित मूल प्रतिलिपियाँ/फोटोस्टेट प्रतियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं में युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएँ हों, आयोग के विचार से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहरेगा।

टिप्पणी 1: वे उम्मीदवार जो 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी-2 : वे उम्मीदवार, जिन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अभी तक अर्हता प्राप्त करनी है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि उनको दी गई यह विशेष छूट है। उन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के ढेर से आयोजित किए जाने, परिणाम घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबंध किसी भी अनुगोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी 3: जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्गित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी 4: वे उम्मीदवार जो आई एन एस बी/पी ए स्की टी में पहले फेल हो चुके हैं, वायु सेना के लिए योग्य नहीं हैं।

(घ) शारीरिक मानक:

उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2001 हेतु परिशिष्ट-II में दिए गए शारीरिक मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

4. शुल्क:

(i) परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को आयोग को रु. 50/- (केवल पचास रुपये) के शुल्क का भुगतान करना होगा जो कि समुचित मूल्य की एक केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के रूप में हो। केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट (डाक टिकट नहीं) डाकघर से प्राप्त करें और आवेदन प्रपत्र पर इसके लिए निर्धारित स्थान पर चिपका दें। जारी करने वाले डाकघर की तारीख की मोहर सहित उस टिकट को इस तरह से रद्द किया जाए कि रद्द करने की मोहर की छाप आंशिक रूप से आवेदन प्रपत्र पर भी किंतु आवेदन प्रपत्र में दिए गए स्थान के अंदर, अपने आप आ जाए। रद्द किए गए टिकट की छाप स्पष्ट होनी चाहिए ताकि तारीख तथा जारी करने वाले डाकघर की पहचान स्पष्ट रूप से हो सके।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश में स्थित प्रतिनिधि के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो इस अनुगोध के साथ जमा करना होगा ताकि वह "051-लोक सेवा आयोग-परीक्षा शुल्क" के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और आवेदन प्रपत्र के साथ उसकी रसीद लगा कर भेजनी चाहिए।

जिन आवेदन प्रपत्रों में इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जो निम्नांकित पैराग्राफ के अंतर्गत निर्धारित शुल्क में छूट का दावा करते हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा।

किसी भी हालत में केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के स्थान पर डाक टिकट स्वीकार नहीं की जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय पास्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट, मनीआर्डर, रेखांकित चेक, चलमुद्रा नोट या ट्रेजरी चालान आदि आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन प्रपत्रों को शुल्क रहित माना जाएगा तथा उन्हें एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) थल सेना के जूनियर कमीशण्ड अफसरों, नान कमीशण्ड अफसरों तथा अन्य रैंकों और भारतीय नौ सेना तथा भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के बच्चों और थल सेना के भूतपूर्व जूनियर कमीशण्ड अफसरों, भूतपूर्व नान कमीशण्ड अफसरों तथा भूतपूर्व अन्य रैंकों और भारतीय नौ सेना तथा भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के बच्चों को उस स्थिति में निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी जब वे निम्नलिखित शर्तें पूरी कर देते हैं, अर्थात् :

(क) वे मिलिट्री स्कूल (पहले किंग जार्ज स्कूल के नाम से जाते)/सैनिक स्कूल सोमाइटी द्वारा चलाए जा रहे सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं और,

(ख) उनके आवेदन संबद्ध स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इस अनुसंधान के साथ अंग्रेपित कर दिए जाते हैं कि उनके लिखित प्रश्न पत्रों में कुल अंकों के कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आशा है।

टिप्पणी : मिलिट्री स्कूल/सैनिक स्कूलों के उम्मीदवारों के संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य द्वारा अपेक्षित आवेदन प्रपत्रों की संवीक्षा आयोग के कार्यालय में यह निश्चय करने के लिए की जाएगी कि क्या ऐसे उम्मीदवार उपर्युक्त, नोटिस के पैरा 4 (ii) के अंतर्गत शुल्क के छूट के हकदार हैं। किन्तु मिलिट्री स्कूलों/सैनिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को अपने स्कूल के विद्यार्थियों के आवेदन प्रपत्र आयोग को अंग्रेपित करने से पहले संतुष्ट होना चाहिए कि वे नोटिस की उक्त व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। अंग्रेपण पत्र भेजते समय आवेदक का नाम तथा आवेदन प्रपत्र क्रमांक (8 अंकीय) का उल्लेख भी करना चाहिए। अंग्रेपण पत्र को आवेदन प्रपत्र के साथ टैग अथवा पिन नहीं करना चाहिए। आयोग प्रधानाचार्य के कृताकृतों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदन के साथ आयोग को अदा किए गए शुल्क को वापस करने के किसी अनुगोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न उस किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आर्गुमेंट रखा जा सकता है।

5. आवेदन कैसे करें:

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी सभी परीक्षाओं के लिए सामान्यतः एक आवेदन प्रपत्र तैयार किया है जिसे कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा जांचा जा सकता है। आवेदन प्रपत्र के साथ सूचना विवरणिका जिसमें प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, पावती कार्ड एवं आवेदन प्रपत्र भेजने के लिए एक लिफाफा शामिल है, एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार दिनांक 14 अप्रैल, 2001 में प्रकाशित आयोग के नोटिस के परिशिष्ट-III में सूचीबद्ध देश भर के निर्दिष्ट किए प्रधान डाकघरों/डाकघरों से 20 रु. (केवल बीस रुपये) नकद भुगतान करके प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रपत्र केवल निर्दिष्ट किए डाकघरों से ही खरीदने चाहिए किसी अन्य एजेंसी से नहीं। यह प्रपत्र एक परीक्षा के लिए केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है। उम्मीदवार केवल सूचना विवरणिका के साथ दिए गए प्रपत्र का प्रयोग करें तथा उन्हें किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छायाप्रति/प्रतिलिपि/अप्राधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चूंकि इस प्रपत्र की इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा बारीकी से जांच की जाती है, आवेदन प्रपत्र को सही ढंग से भरने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र को भरते समय, कृपया एम्पलायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार दिनांक 14 अप्रैल, 2001 में प्रकाशित आयोग के नोटिस के परिशिष्ट-II में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को देखें। उम्मीदवार को पावती कार्ड के संगत स्थानों पर अपना आवेदन प्रपत्र संख्या (आठ अंकीय) और परीक्षा का नाम भी भरना चाहिए। पावती कार्ड पर दो रु. का डाक टिकट लगाएं। विधिवत भरा गया आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड तब सूचना विवरणिका के साथ दिए विशेष लिफाफे में भेजे जाने चाहिए। लिफाफा 'सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110 011' को भेजने से पहले आपको उसके ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात् 'राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी परीक्षा (II) 2001' भी लिखना चाहिए।

(ख) सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन प्रपत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैमियत में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं या जो लोक उद्यमों में सेवागत हैं, उनको यह परिचयन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत कर दिया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में सेवारत हैं उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र अपने कमांडिंग अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए, जिन्हें वे अग्रेषण

पत्र के साथ आवेदक का नाम तथा आवेदन प्रपत्र क्रमांक (8 अंकीय) का उल्लेख करने हुए आयोग को अग्रेषित करेंगे।

भारतीय नौ सेना में नौ सैनिकों (वाल एव परिशिल्प शिक्षार्थियों सहित) के आवेदन प्रपत्रों को, यदि उनके कमांडिंग अधिकारियों द्वारा विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाते हैं, केवल उन्हें ही को स्वीकार किया जाएगा। राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल कहा जाता था) देहरादून, मिलिटरी स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की मोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों को अपने आवेदन प्रपत्र संबद्ध कालेज/स्कूलों के प्रिंसिपल के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए, जिन्हें वह अग्रेषण पत्र पर आवेदन का नाम तथा उसका आवेदन प्रपत्र क्रमांक (8 अंकीय) का उल्लेख करने हुए आयोग को अग्रेषित करेंगे। अग्रेषण पत्र को आवेदन प्रपत्र के साथ टैग या पिन न किया जाये।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। एक ही उम्मीदवार के अलग-अलग केन्द्र देते हुए एक से अधिक आवेदन प्रपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पुरे भरे हुए आवेदन पत्र भेजे तो भी आयोग अपने विवेक से केवल एक ही आवेदन प्रपत्र स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी 2 : जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे या गलत भरे हुए हों, उनको एक दम अस्वीकृत कर दिया जायेगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृत के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी श्रेणियां और शुल्क में छूट आदि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। इसलिए वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने हैं या नहीं। अतः परीक्षा में उनका प्रवेश भी पूर्णतः अनन्तिम होगा। यदि किसी बाद को तार्किक या मत्वापन करने समय यह पता चलता है कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। परीक्षा के लिखित भाग का परिणाम के दिसंबर, 2001 में घोषित होने की संभावना है।

साक्षात्कार के लिये बुलाए गये सभी उम्मीदवारों का रक्त चयन जांच (एसएमबी) के समक्ष मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रमाणपत्र तथा मध्यम परीक्षा के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें साक्षात्कार के बाद मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। जांच पड़ताल के बाद मूल प्रमाणपत्र लौटा दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार पहले ही 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे सेवा चयन बोर्ड हनु अपना 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाण-पत्र या अंक सूची अवश्य लाएं। यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपकरणों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है:

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :

- (i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
- (iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या
- (iv) जाली प्रलेख या फंर-बदल किए गये प्रलेख प्रस्तुत करना, या
- (v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या
- (vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- (viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या
- (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्यवहार करना, या
- (x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या
- (xi) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी वि.सी. अनुदेश का उल्लंघन करना, या
- (xii) ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना।

जहाँ अपने को दण्ड-अभियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक्त

- (क) आयोग की जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है।

और/या

- (ख) स्थाई रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये अपवर्जित किया जा सकता है:

- (1) आयोग द्वारा उनकी किसी परीक्षा या चयन के लिए;

- (2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए; और

- (ग) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

- (i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

6. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख :

- (i) पूरी तरह से भरा हुआ आवेदनपत्र सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110011 को 14 मई, 2001 को अथवा इससे पहले पहुंच जाना चाहिए।
- (ii) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपमंडल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप और विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों के मामले केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 21 मई, 2001 है। उपर्युक्त क्षेत्रों/प्रदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए दिया गया अतिरिक्त समय-सीमा का लाभ केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त आवेदन प्रपत्रों के मामले में ही दिया जाएगा।

वैयक्तिक रूप से अथवा कूरियर सेवा से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों के मामलों में आवेदकों के निवास स्थान पर ध्यान में न रखते हुए अतिरिक्त समय सीमा का लाभ नहीं मिलेगा।

अतिरिक्त समय सीमा के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र में दिए गए कालम 13(II) में उस विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश, (अर्थात् असम, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर आदि) जहां उनका निवास हो, के एरिया कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-I : उम्मीदवार स्पष्ट रूप से यह समझ लें कि आयोग उसके आवेदन प्रपत्र के प्राप्त न होने अथवा किसी अन्य कारणों से विलम्ब से प्राप्त होने के लिए किसी भी परिस्थिति में उत्तरादायी नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन प्रपत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और विलम्ब से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन प्रपत्रों को तुरन्त अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अतः वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आवेदन प्रपत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग के कार्यालय में पहुंच जाए।

टिप्पणी-II : उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र आयोग के काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से भी जमा करके उसकी समुचित रसीद प्राप्त कर सकते हैं आयोग के अन्य किसी पदाधिकारी को जमा करने के लिए दिए गए आवेदन प्रपत्रों के संबंध में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी-III : : कूरियर सेवा अथवा कूरियर जैसी अन्य सेवा के माध्यम से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों को आयोग के काउन्टर पर "दस्ता रूप से" जमा किए गए आवेदन प्रपत्रों के रूप में माना जाएगा।

7. आवेदन प्रपत्रों की पावती :

उम्मीदवार से आवेदन प्रपत्र प्राप्त होते ही उसके द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ जमा कराए गए पावती कार्ड पर उसका आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के प्रमाण के तौर पर मुहर लगाकर आयोग के कार्यालय द्वारा उसे भेज दिया जाएगा यदि किसी उम्मीदवार को 30 दिन के भीतर पावती कार्ड नहीं प्राप्त होता है तो उसे आवेदन प्रपत्र सं. (8 अंकों में), नाम तथा परीक्षा का वर्ष दर्शाते हुए तत्काल आयोग से संपर्क करना चाहिए। आयोग के काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रपत्र जमा कराने वाले उम्मीदवारों को काउन्टर पर ही पावती कार्ड दे दिया जाएगा।

केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवार का आवेदन प्रपत्र आयोग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया गया है। उम्मीदवारों को उनके परीक्षा में प्रवेश अथवा उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किए जाने के बारे में शीघ्रतिशीघ्र सूचित कर दिया जाएगा।

8. आयोग/थल सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार:

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

(1) उन उम्मीदवारों को जिन्हें परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, अनुक्रमांक, केन्द्र तथा कोर्स जिसके लिये प्रवेश दिया गया है आदि दर्शाते हुए प्रवेश प्रमाणपत्र प्रेषित किया जायेगा। प्रवेश प्रमाणपत्र में उम्मीदवार के फोटोग्राफ का समावेश होगा। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व तक प्रवेश प्रमाणपत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबंध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। ऐसी किसी सूचना के प्राप्त होने पर प्रवेशित उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी अनुप्रति/अनुलिपि भेज दी जायेगी। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं 011-3385271/011-3381125 से प्राप्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाण पत्र न प्राप्त होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिये उम्मीदवार प्रवेश प्रमाण पत्र न होने के लिये स्वयं ही जिम्मेदार होगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश प्रमाणपत्र उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए पते की फोटो कापी करके, प्रेषित किये जायेंगे, अतः उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिया गया पता पिन कोड सहित पूर्ण होना चाहिए।

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाणपत्र के बिना बैठने नहीं दिया जाएगा। प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की त्रुटि/असंगति होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें। किसी कोर्स में प्रवेश विभिन्न कोर्सों की आयु तथा शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनकी पात्रता तथा उम्मीदवार द्वारा दिये गये वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर रहेगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन किए जाने पर आधारित होगा।

(ii) यदि किसी उम्मीदवार को आयोग से एक से अधिक प्रवेश प्रमाण-पत्र प्राप्त हों वह परीक्षा में बैठने के लिए उनमें से किसी एक प्रवेश प्रमाण-पत्र का ही प्रयोग करें तथा अन्य प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग के कार्यालय को वापिस कर दें।

(iii) यदि किसी उम्मीदवार को गलती से किसी अन्य उम्मीदवार का प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाये तो उसे तत्काल आयोग को वापिस कर दें तथा सही प्रवेश प्रमाण पत्र प्रेषित करने का अनुरोध करना चाहिए। उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य उम्मीदवार के प्रवेश प्रमाण पत्र के बलबूते पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(v) उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(vi) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करे। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा पूरा प्रयत्न करता है किन्तु इस विषय में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

महत्वपूर्ण : आवेदन के सम्बन्ध में सभी पत्र-व्यवहार सचिव, मंघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम तथा वर्ष
2. आवेदन प्रपत्र संख्या (8 अंकीय)
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)
5. पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन पत्र में दिया है।

विशेष ध्यान : (1) जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

विशेष ध्यान : (2) यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है या जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद, अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिए लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल, सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए--सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खंड III, स्कंध-1, आर. के.पुरम, नई दिल्ली-110066,

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए--नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, आर एण्ड आर अनुभाग, सी स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011,

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवार के लिए— वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक, (अधिकारी) निदेशालय, पी.ओ. 3-(ए), 'जे' ब्लाक, नई दिल्ली-110011 को सूचित कर देना चाहिए।

जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए अनुशंसित हैं उनको अपने साक्षात्कार के सम्बन्ध में सभी पृष्ठछा और अनुरोध सीधे-सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए--सेना मुख्यालय, ए.जी ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खण्ड पश्चिमी खंड III, स्कंध-(1), आर के पुरम, नई दिल्ली-110066;

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए--नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, आर एण्ड आर अनुभाग, सी स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011,

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवार के लिए--वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक, (अधिकारी) निदेशालय, पी.ओ. 3-(ए), 'जे' ब्लाक, नई दिल्ली-110011 के पते पर लिखने चाहिये।

उम्मीदवार को भेजे गए सम्मन-पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए पहुंचना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा। इस प्रकार के अनुरोध उस चयन केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी को संबोधित होने चाहिए जहां से साक्षात्कार हेतु आह्वान-पत्र (कॉल लेटर) प्राप्त हुआ है। सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय में प्राप्त पत्रों पर कोई कार्यवाई नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार मार्च-अप्रैल, 2002 में अथवा भर्ती निदेशालय की सुविधानुसार किए जाएंगे।

9. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अन्तिम परिणामों की घोषणा और अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा में आयोग के निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ये उम्मीदवार बौद्धिक तथा व्यक्तित्व परीक्षाओं के लिये सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे जहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना/नौ सेना अकादमी 10+2 (कार्यपालक शाखा) के उम्मीदवारों की अधिकारी क्षमता तथा वायु सेना के उम्मीदवारों का पाइलट एप्टीच्यूट परीक्षण तथा अधिकारी क्षमता का निर्धारण किया जाएगा।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपने ही जोखिम पर वहां के परीक्षाओं में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों के माता पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकार्यता हेतु थल सेना/नौ सेना और नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों को (1) लिखित परीक्षा तथा (2) अधिकारी क्षमता परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे और वायु सेना के उम्मीदवारों को (1) लिखित परीक्षा, (2) अधिकारी क्षमता परीक्षा (3) पायलट एप्टीच्यूट परीक्षण में अलग अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे।

इन शर्तों पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता के अन्तिम क्रम में तीन अलग-अलग सूचियों में एक थल सेना तथा नौ सेना के लिए, दूसरी वायु सेना के लिए और तीसरी नौ सेना के अकादमी कोर्स के लिए रखा जायेगा। जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सभी अंगों के लिए और नौ सेना अकादमी के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनका नाम तीनों योग्यता सूचियों में होगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना और नौ सेना विंगों में प्रवेश के लिए अन्तिम चयन थल सेना तथा नौ सेना की योग्यता सूची में से रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम में से किया जाएगा। वायु सेना विंग में प्रवेश के लिए अन्तिम चयन वायु सेना की योग्यता सूची में से रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा और नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा में प्रवेश के लिए अन्तिम चयन नौ सेना की योग्यता सूची में रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा। जो शारीरिक स्वस्थता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के आधार पर होगा। जिन उम्मीदवारों के नाम तीनों योग्यता सूचियों में हैं उन पर तीन सूचियों में चयन हेतु विचार उनके वरीयता क्रम को देखते हुए होगा और उनके एक सूची से अन्तिम रूप से चुन लिये जाने पर शेष सूचियों से उनका नाम रद्द कर दिया जाएगा।

विशेष ध्यान : वायु सेना के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीच्यूट परीक्षण केवल एक बार किया जाता है। अतः उसके द्वारा प्रथम परीक्षण में प्राप्त ग्रेड वायु सेना चयन बोर्ड के सामने बाद में होने वाले साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा। जो उम्मीदवार पायलट एप्टीच्यूट के प्रथम परीक्षण में असफल हो जाता है वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के वायु सेना विंग या जनरल ड्यूटी (पायलट) ब्रांच या नेवल एयर आर्म में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स में पायलट एप्टीच्यूट परीक्षण हो गया हो और उन्हें अर्हता प्राप्त कर लेने की सूचना मिल गई हो तो उन्हें इस परीक्षा के केवल वायु सेना विंग के लिये ही अपना आवेदन करना चाहिए।

अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जायें इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी को सतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

10. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अनर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा के किसी पहले कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी सुलभ विशेषताओं के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये थे उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

किन्तु जिन उम्मीदवारों को अस्थिरता के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नौ सेना अकादमी से वापस ले लिया गया था या जिन्होंने अपनी इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी हो उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते कि वे स्वास्थ्य तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

11. उम्मीदवार को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबंधित उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. (क) परीक्षा की प्रणाली, स्तर और पाठ्यक्रमों, (ख) अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता स्तर और (ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण आदि की विस्तृत जानकारी के संबंध में क्रमशः परिशिष्ट 1, 2 और 3 में विस्तार से समझाया गया है।

संजय श्रीवास्तव
उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-1

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) : परीक्षा की योजना :

1. लिखित परीक्षा के विषय, नियत समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :--

| विषय | कोड | अवधि | अधिकतम अंक |
|-----------------|-----|---------|------------|
| गणित | 01 | 2½ घंटे | 300 |
| सामान्य योग्यता | | | |
| परीक्षण | 02 | 2½ घंटे | 600 |
| | | कुल | 900 |

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे। प्रश्न-पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) केवल अंग्रेजी में तैयार किये जाएंगे।

3. प्रश्न पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी हालत में उन्हें प्रश्न-पत्र के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी।

5. परीक्षा के एक अथवा सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विवक्षा पर रहेगा।

6. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (प्रश्न-पुस्तिकाओं) के उत्तर लिखने के लिये केलकुलेटर अथवा गणितीय अथवा लघुगणकीय सारणियां

प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः ये उन्हें परीक्षा भवन में नहीं लानी चाहिए।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण (प्रश्न-पत्र 1)

गणित (कोड संख्या 01)

(अधिकतम अंक 300)

1. बीजगणित :

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों पर संक्रिया, वेन आरेख। द-माग्न नियम, कार्तीय गुणन, संबंध, तुल्यता-संबंध।

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण। संमिश्र संख्याएं--आधारभूत गुणधर्म, मापांक, कोणांक, इकाई का घनमूल। संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली। दशमलव प्रणाली की एक संख्या का द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन। अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा हरात्मक श्रेणी, वास्तविक गुणांकों सहित द्विघात समीकरण। ग्राफों द्वारा दो चरों वाले रेखिक अस्मिका का हल। क्रमचय तथा संचय। द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। लघुगणक तथा उनके अनुप्रयोग।

2. आव्यूह तथा सारणिक :

आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों पर संक्रिया। आव्यूह के सारणिक, सारणिकों के आधारभूत गुणधर्म, घर्ग आव्यूह के सहखंडन तथा व्युत्क्रम, अनुप्रयोग-दो या तीन अज्ञातों में रेखिक समीकरणों के तंत्र का क्रैमर के नियम तथा आव्यूह पद्धति द्वारा हल।

3. त्रिकोणमिति :

कोण तथा डिग्रियों तथा रेडियन में उनका मापन। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय सर्वसमिका योग तथा अंतर सूत्र। बहुल तथा अपवर्तक कोण। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। अनुप्रयोग-ऊंचाई तथा दूरी, त्रिकोणों के गुणधर्म।

4. दो तथा तीन बिंदुओं की विश्लेषिक ज्यामिति :

आयतीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दूरी सूत्र, एक रेखा का विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण। एक रेखा से एक बिन्दु की दूरी। मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत्त का समीकरण। परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानक प्रकार। एक शांकव की उत्केंद्रता तथा अक्ष। त्रिविम आकाश में बिन्दु, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी। दिक्-को साइन तथा दिक्-अनुपात। समतल तथा रेखा के विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण तथा दो तलों के मध्य कोण। गोले का समीकरण।

5. अवकल गणित :

वास्तविक मान फलन की अवधारणा-फलन का प्रांत, रेंज व ग्राफ। संयुक्त फलन, एकैकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, सीमांत की धारणा, मानक सीमांत-उदाहरण। फलनों के सांतत्य-उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीज गणितीय संक्रिया। एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलन। एक अवकलन के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रयोग। योग के अवकलज, गुणनफल और फलनों के भागफल, एक फलन का

दूसरे फलन के साथ अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज। द्वितीय श्रेणी अवकलज, वर्धमान तथा ह्रस्वमान फलन। उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग।

6. समाकलन गणित तथा अवकल समीकरण :

अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडशः समाकलन, बीजीय व्यंजकों सहित मानक समाकल, त्रिकोणमितीय, वरघातांकी तथा अतिपरवलयिक फलन। निश्चित समाकलों का मानांकन-वक्र रेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण-अनुप्रयोग।

अवकल समीकरण की डिग्री तथा कोटि की परिभाषा, उदाहरणों द्वारा अवकल समीकरण की रचना। अवकल समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल। विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकल समीकरणों का हल-उदाहरण। वृद्धि तथा क्षय की समस्याओं में अनुप्रयोग।

7. सदिश बीजगणित :

दो तथा तीन विभाओं में सदिश, सदिश का परिमाण तथा दिशा, इकाई तथा शून्य सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दुगुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल, अनुप्रयोग-बल तथा बल के आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य तथा ज्यामितीय समस्याओं में अनुप्रयोग।

8. सांख्यिकी तथा प्रायिकता :

सांख्यिकी : आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण। प्रांतीय निरूपण-आयत चित्र, पाई चार्ट, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण। केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। प्रसरण तथा मानक विचलन-निर्धारण तथा तुलना। सहसंबंध तथा समाश्रयण।

प्रायिकता : यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि, घटना, परस्पर अपवर्जित तथा निश्शेष घटनाएं-असंभव तथा निश्चित घटनाएं। घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ। पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं। प्रायिकता की परिभाषा : चिरसम्मत और सांख्यिकीय उदाहरण। प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय-साधारण प्रश्न। सहप्रतिबंध प्रायिकता, बेज़ प्रमेय-साधारण प्रश्न। प्रतिदर्श समष्टि पर फलन के रूप में यादृच्छिक चर। द्विआधारी बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण।

प्रश्न पत्र-(II)

सामान्य योग्यता परीक्षण

(कोड संख्या 02) अधिकतम अंक-600

भाग (क) अंग्रेजी (अधिकतम अंक 200)

अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग का परीक्षण हो सके। पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और प्रयोग विधि शब्दावली तथा अंग्रेजी में उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित परिच्छेद की बोधगम्यता तथा संबद्धता।

भाग (ख) सामान्य ज्ञान (अधिकतम अंक 400)

सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सामयिक विषय आर्येंगे। इस प्रश्न-पत्र में शामिल किए गए विषयों का क्षेत्र निम्न पाठ्य-विवरण पर आधारित होगा। उल्लिखित विषयों को सर्वांग पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के ऐसे विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका इस पाठ्य विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है। उम्मीदवार के उत्तरों में विषयों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेधा और ज्ञान का पता चलना चाहिए।

खंड-क (भौतिकी)

द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व, आर्कमिडिज का सिद्धांत, वायु दाब मापी, बिम्ब की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति नियम, बल और संवेग, बल समान्तर चतुर्भुज, पिण्ड का स्थायित्व और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान।

ऊष्मा का प्रभाव, तापमान का माप और ऊष्मा स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा अभिगमन की विधियां।

(ध्वनि तरंग और उनके गुण-धर्म, सरल वाद्य यंत्र प्रकाश का ऋतुखीय चरण, परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय दर्पण और लन्सज मानव नेत्र, प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक के गुण-धर्म। पृथ्वी चुम्बक के रूप में। स्थैतिक तथा धारा विद्युत। चालक और अचालक, ओहम नियम, साधारण विद्युत परिपथ। धारा के मापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव, विद्युत शक्ति का माप। प्राथमिक और गौण सेल। एक्स-रे के उपयोग। निम्नलिखित के कार्य के संचालन के सिद्धांत : सरल लोलक, सरल घिरनी, साइफन उत्तोलक, गुब्बारा, पंप, हाईड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेगिस्कोप, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्सूचक, तड़ित चालक, सुरक्षा प्यूज।

खंड-ख (रसायन शास्त्र) :

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण तथा यौगिक, प्रतीक सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण। रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर) वायु तथा जल के रासायनिक गुण-धर्म, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाई-आक्साइड की रचना और गुण-धर्म, आक्सीकरण और अपचयन।

अम्ल, क्षारक और लवण।

कार्बन-भिन्नरूप।

उर्वरक-प्राकृतिक और कृत्रिम।

साबुन, कांच, स्याही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपाउडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री।

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार, संयोजकता का प्रारंभिक ज्ञान।

खंड-ग (सामान्य विज्ञान) :

जड़ और चेतन में अंतर।

जीव कोशिकाओं, जीव द्रव्य और ऊतकों का आधार।

वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन।

मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान।

सामान्य महामारियां और उनके कारण तथा रोकने के उपाय।

खाद्य-मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत। खाद्य के अवयव, संतुलित आहार, सौ, परिवार, उल्का और भूमकेतु, ग्रहण।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को उपलब्धियां।

खंड-घ (इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि) :

भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर सर्वेक्षण तथा संस्कृति और सभ्यता की विशेष जानकारी।

भारत में स्वतंत्रता आंदोलन।

भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारंभिक अध्ययन।

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायती राज, सहकारी समितियों और सामुदायिक विकास की प्रारंभिक जानकारी।

भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य।

महात्मा गांधी के मूल उपदेश।

आधुनिक विश्व निर्माण करने वाली शक्तियां, पुनर्जागरण अन्वेषण और खोज, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और रूसी क्रांति, समाज पर विज्ञान और औद्योगिकी का प्रभाव।

एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र, पंचशील, लोकतंत्र, समाजवाद तथा साम्यवाद, वर्तमान विश्व में भारत का योगदान।

खंड-ङ (भूगोल) :

पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और रेखांश, समय संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा, पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव, पृथ्वी का उद्भव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण, अपक्षय-यांत्रिक और रसायनिक, भूक्षाल तथा ज्वालामुखी, महासागर धाराएं और ज्वार-भाटे।

वायुमण्डल और इसका संगठन, तापमान और वायुमण्डलीय दाब।

भूमण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, आर्द्रता, द्रव्यण और वर्षण,

जलवायु के प्रकार, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र। भारत का क्षेत्रीय भूगोल-जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण। भारत के महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन, मुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग, भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मदें।

खंड-च (सामयिक घटनाएं)

हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। सामयिक महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं।

महत्वपूर्ण व्यक्ति-भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, उनमें साम्प्रतिक कार्यकलापों और खेलकूद में संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल हैं।

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र के भाग (ख) में नियत अधिकतम अंकों में सामान्यतः खण्ड क, ख, ग, घ, ङ तथा च प्रश्नों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20%, 20% तथा 10% अंक होंगे।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण :

उम्मीदवार की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित परीक्षा ली जाएगी। उनके ग्रुप परीक्षण भी किए जाएंगे, जैसे ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना, बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा। ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेधाशक्ति की जांच के लिये हैं। मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए अपितु इनसे उसकी सामाजिक विरासतों तथा सामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

परिशिष्ट-II

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानक के मार्गदर्शक संकेत

टिप्पणी : उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। इस संबंध में मार्गदर्शक संकेत नीचे दिये गये हैं। बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को उनके अपने हित में रजिस्ट्रार दी जाती है कि वे अंतिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि सेवा चयन बोर्ड से अनुशंसा के बाद सैनिक अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा में शीघ्र निर्णय के लिए छोटी मोटी कमियाँ/बीमारियाँ को दूर कर लें।

नीचे दर्शायी गई बीमारियाँ सामान्य छुट-पुट बीमारियों के अंतर्गत आती हैं।

- (क) कान का मैल
- (ख) डीएनएस
- (ग) हाइड्रोसिल/फीमोसिस
- (घ) अधिक भार/कम भार
- (ङ) छाती कम होना
- (च) बवासीर
- (छ) गाहनी कामेस्टिया
- (ज) टॉसिल
- (झ) वेरिकोसिल

सशस्त्र सेना में सभी प्रकार के कमीशन के लिए प्रवेश पाने वाले असैनिक उम्मीदवार चयन बोर्ड द्वारा अपनी जांच के दौरान किसी क्षति या संक्रमित रोग होने पर सेना के स्त्रोतों से सरकारी खर्च पर बाध्य--रोगी चिकित्सा के हकदार होंगे--ये अस्पताल के अधिकारी-वार्ड में सरकारी खर्च पर अंतरोगी चिकित्सा के भी पात्र होंगे, बशर्ते कि

क) क्षति परीक्षण के दौरान हुई हो, अथवा

ग) चयन बोर्ड द्वारा परीक्षण के दौरान रोग का संक्रमण हुआ हो अथवा अस्थायी सिविल अस्पताल में उपयुक्त जगह नहीं हो या रोगी को सिविल अस्पताल में ले जाना अव्यवहारिक हो; अथवा

घ) चिकित्सा बोर्ड उम्मीदवार को प्रेक्षण हेतु दाखिल कराना न समझे।

न : वे विशेष सेवा के हकदार नहीं हैं।

वा) चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। अकादमी में न उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा घोषित कर दिये जाते हैं। चिकित्सा बोर्ड का कार्यवृत्त गोपनीय रहेगा, जिसे किसी को नहीं दिखाया जाएगा। किंतु अयोग्य/अस्थायी में अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड से अपील करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी। अपील चिकित्सा बोर्ड के दौरान अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड के प्रावधान के बारे में सूचित किया जायेगा।

फ) उम्मीदवारों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

ब) उनमें कमजोर शारीरिक गठन/दैहिक दोष या वजन की कमी होनी चाहिए। उम्मीदवार मोटा नहीं होना चाहिए।

ग) कद कम से कम 157.5 सेंमी. (वायु सेना के लिए 162.5 सेंमी.) का हो। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, नेपाल तथा कुमायूं के व्यक्तियों का 5 सेंमी. कम कद स्वीकार्य होगा। विशेष के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेंमी. की कमी स्वीकार्य की जा सकती है। कद और वजन मानक नीचे दिए जाते

कद और वजन के मानक—थल सेना/वायु सेना के लिए

सारणी-I

| कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता) | वजन किलोग्राम में | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|
| | 16-17 वर्ष | 17-18 वर्ष | 18-19 वर्ष |
| | वर्ष | वर्ष | वर्ष |
| | 2 | 3 | 4 |
| 43 | | 44 | 46 |
| 44 | | 45.5 | 47 |
| 45 | | 48 | 48 |
| 46 | | 48 | 49 |
| 48 | | 50 | 51 |
| 50 | | 52 | 53 |
| 51 | | 53 | 54 |
| 52.5 | | 55 | 56 |
| 54.5 | | 57 | 58 |
| 56 | | 59 | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------|----|------|
| 178 | 58 | 61 | 62 |
| 180 | 60 | 63 | 64.5 |
| 183 | 62.5 | 65 | 66.5 |

कद और वजन के मानक—नौसेना के लिए
सारणी-II

| कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता) | वजन किलोग्राम में | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|
| | 16 वर्ष | 18 वर्ष | 20 वर्ष |
| 152 | 44 | 45 | 46 |
| 155 | 45 | 46 | 47 |
| 157 | 46 | 47 | 49 |
| 160 | 47 | 48 | 50 |
| 162 | 48 | 50 | 52 |
| 165 | 50 | 52 | 53 |
| 168 | 52 | 53 | 55 |
| 170 | 53 | 55 | 57 |
| 173 | 55 | 57 | 59 |
| 175 | 57 | 59 | 61 |
| 178 | 59 | 61 | 62 |
| 180 | 61 | 63 | 64 |
| 183 | 63 | 65 | 67 |

उपर्युक्त सारणी-I में दिए गए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत (नौ सेना के लिए ± 6 किलोग्राम) कम ज्यादा वजन सामान्य सीमा के अंदर माना जाएगा। किन्तु भारी हड्डियों वाले लंबे-चौड़े व्यक्तियों तथा पतले पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-1 : ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित कर देता है कि उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा होने तक बढ़कर अपेक्षित मानक तक हो सकता है कद में 2.5 सेंमी. की (नौ सेना के लिए 5 सेंमी.) छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-2 : वायु सेना में पायलट के रूप में विशेष अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई तथा बैठे हुए लंबाई की स्वीकार्य माप निम्न प्रकार होगी।

| | न्यूनतम | अधिकतम |
|----------------|--------------|--------------|
| टांग की लंबाई | 99.00 सेंमी. | 120.00 सेंमी |
| जांघ की लंबाई | -- | 64.00 सेंमी |
| बैठे हुए लंबाई | 81.50 सेंमी. | 96.00 सेंमी |

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के उम्मीदवार की कम उम्र के कारण 5.0 सेंमी तक ऊंचाई में 2.5 सेंमी (न्यूनतम) एक टांग की लंबाई में और 1.0 सेंमी (न्यूनतम) तक बैठे हुए ऊंचाई में गुंजाइश दी जा सकती है बशर्ते कि चिकित्सा बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया हो कि उम्मीदवार में

बढ़ोतरी हो सकती है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने तक यह अपेक्षित स्तर प्राप्त कर सकता है।

(घ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए। पूर्ण रूप से फुलाया हुआ सीना 8। सें. मी. से कम नहीं होना चाहिए, पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फुलाव 5 सें.मी. होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीता का ऊपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए। छाती का एक्स-रे करना जरूरी है। इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है।

(ङ) शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए। वायु सेना के अतिरिक्त उम्मीदवारों की रीढ़ की हड्डी का एक्स-रे नेमी तौर पर नहीं किया जाएगा। किंतु नैदानिक संकेत मिलने पर सर्जरी विशेषज्ञ की सलाह पर किया जाएगा, ऐसे जन्मजात दोष गुणवत्ता पर स्वीकार किए जा सकते हैं जिनमें सेवा कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा पड़ने की संभावना न हो।

मेरुदण्ड की हालत

(च) नीचे लिखा पिछला स्वास्थ्य वृत्त वायुसेना के लिए अयोग्य ठहराने वाला है :

- (1) मेरुदण्ड या तिरछे जोड़ों की ऐसी बीमारी चाहे उसके वास्तविक लक्षण हों या न हों, जिसकी वजह से उम्मीदवार शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन सफलतापूर्वक न बिता सकता हो।
- (2) प्रौलेस अंतरा-कशेरुक बिंब तथा उस अवस्था के लिए शल्य चिकित्सा।

(छ) मेरुदण्ड की पूरी नैदानिक जांच की जानी है जिसमें उसकी आकृति स्थानिक कोमलता, यदि कोई है, मेरुदण्ड की हरकत आदि शामिल है। केवल हवाई कर्मी के कार्य के वास्ते उम्मीदवारों के लिए किटक्रिक कशेरुक का एक्स-रे (ए. पी.) तथा पार्श्विक दृश्यता किया जाना है।

(ज) हल्का काइफोसिस या लोडोसिस जहां विरूपता मुश्किल से दिखाई देती है जहां दर्द की या हरकत में रुकावट की शिकायत नहीं है, स्वीकृति में बाधा नहीं बनेगा।

(झ) दिखाई पड़ने वाले स्कोलिओसिस के या अन्य किसी तरह की असामान्यता या मेरुदण्ड की विरूपता का जो मामूली से अधिक हो, संदेह होने पर मेरुदण्ड का उपयुक्त एक्स-रे लिया जाना है और परीक्षार्थी को विशेषज्ञ की सलाह हेतु प्रस्तुत करना है।

(ञ) एक्स-रे परीक्षा के बाद पाई गई निम्नलिखित अवस्थाएं वायु सेना में प्रवेश हेतु अयोग्यता का कारण मानी जाएगी।

1. मेरुदण्ड की ग्रैन्यूलोमेट्स बीमारी
2. आर्थराइटिस/स्पोन्डिलोसिस
3. कावपद्धति से यथामापित स्कोलियोसिस जो 15° से अधिक हो।
(थल सेना के लिए 10 डिग्री)

4. मामूली से ज्यादा काइफोसिस/लोडोसिस

5. स्पेण्डिलोसथेसिस/स्पेण्डिलिसिस।

6. हरनिएटिड न्यूक्लिअस, पलपोसस

7. कशेरुक का संपीडन विभंग

8. श्वैरमेन की बीमारी

9. प्रदर्शनीय तंत्रकीय या परिमंचारी अभाव के साथ ग्रेव

10. एक से अधिक स्तर पर स्मोले के नोड की उपस्थिति

11. शीर्षधरानुकपाल (अटलांटे-आक्सीपीटल) तथा अटलांटे असंगतियां।

12. 'एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय अपूर्ण स्कारलाइजेशन'

13. एस.वी. 1 तथा एल.वी. 5 के इतर स्पाइनावाइफाइड।

14. विशेषज्ञ द्वारा मानी गई कोई अन्य अप्रामाण्यता।

(ट) उम्मीदवार मानसिक विकृति या दोरे पड़ने का पिछला नहीं होना चाहिए।

(ठ) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके। उम्मीदवार का सुन होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 सें.मी. की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके। कर्ण नासिका की पिछली या बाई की बीमारी का कोई प्रमाण न हो। वायु सेना के लिए श्रवणता परीक्षण किए जाएंगे। 250 एच. जैड, 4000 एच. जैड के बीच आवर्तियों में श्रवणतामितिक कमी +20 डेसिबल से अधिक न हो। वाणी में किसी प्रकार की हकलाहट नहीं होनी चाहिए।

(ड) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रिया-आंगिक रोग नहीं होना चाहिए। रक्त दाब मामान्य हो।

(ढ) उदरपेशियां सुविकसित हों तथा जिगर या तिल्ली बड़ा हो। उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ण) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया है और उसकी जांच की गई हो तो वह उम्मीदवार अनुपयुक्त होगा। यदि हर्निया चिकित्सा हो गई हो तो वह वर्तमान परीक्षा से कम से कम पहले हुई हो और उम्मीदवार जख्म भी पूरी तरह ठीक हो चुका हो।

(त) हाइड्रोसिल, बेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना

(थ) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कमी मिलती है तो इस पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा।

(द) अशक्तता लाने या आकृति बिगाड़ने वाले रोग होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ध) उम्मीदवार को दूर-दृष्टि चार्ट में प्रत्येक आंख से 6/6 या ऐनक बिना 6/6 पढ़ने में समर्थ होना चाहिए।

तथा हायपरमेट्रोपिया 3.5 डी. (एस्टिगमेटिज्म सहित) से अधिक नहीं होना चाहिए। यह जानने के लिए कि आंख में कोई रोग तो नहीं है आंख की आंतरिक परीक्षा औपथलमस्कॉप से की जाएगी। उम्मीदवार के दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। वर्ण दृष्टि का मानक सी. पी. स्थल सेना के लिए सीपी III होगा। उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि उसे या इसके परिवार के किसी सदस्य को जन्मजात रतौंधी आने का रोग नहीं हुआ है।

जिन उम्मीदवारों ने दृष्टि की तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए रेडियल केंरीटोमी करवाई हो या जिनके पास से इसे करवाने का प्रमाण मिलेगा उन्हें सभी तीनों सेवाओं से स्थाई रूप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों में वर्तन दोष (रिफ्रेक्टिव एरर) को ठीक करवाने के लिए लेसिक सर्जरी करवाई हुई है, वे रक्षा सेवाओं के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

नौसना उम्मीदवारों की दृष्टि मानक :

| | |
|---|------------------------------|
| दूर की दृष्टि | 6/6, 6/6 तक शोध 6/9 |
| निकट दृष्टि | प्रत्येक आंख की एन-5 |
| वर्ण दृष्टि (कलर विज़न) सीपीआई (एमएलटी) | |
| प्रत्यक्ष हाइपरमेट्रोपिया | +2.00 डीएसपीएच से अधिक न हो। |

किसी भी आंख में मायोपिया 0.75 डायोप्ट्रेस से बड़ें नहीं तथा अच्छी आंख से हाइपरमेट्रोपिया 1.5 डायोप्ट्रेस से अधिक न हो और खराब आंख में 2.5 डायोप्ट्रेस से अधिक न हो।

दृष्टि संबंधी पेशी संतुलन मेडाक्स रॉड टेस्ट के साथ हैट्रोफोरिया निम्न से अधिक बिल्कुल न हो :

(i) 6 मीटर पर

| | |
|-------------|-----------------------|
| एक्सोफोरिया | 8 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| एसोफोरिया | 8 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| हाइपरफोरिया | 1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |

(ii) 33 सें.मी. पर

| | |
|-------------|------------------------|
| एक्सोफोरिया | 16 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| एसोफोरिया | 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| हाइपरफोरिया | 1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |

वायु सेना के लिए निम्नलिखित मानदण्ड हैं : जो उम्मीदवार प्रायः चश्मा पहनते हैं वायु सेना हेतु योग्य नहीं हैं।

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| दूर की दृष्टि | 6/6, 6/6 तक सुधार योग्य 6/9 |
| पास की दृष्टि | प्रत्येक आंख की एन-5 |
| वर्ण दृष्टि | सीपीआई (एमएलटी) |
| मनीफैस्ट हायपरमेट्रोपिया | +2.00 डीसी से अधिक नहीं |

| | |
|---------------|------------|
| एस्टिगमेटिज्म | +0.75 डीसी |
| मायोपिया | कुछ नहीं |

मेडोक्स रॉड टेस्ट के साथ हैट्रोफोरिया निम्नलिखित से अधिक न हो :

(1) 6 मीटर पर

| | |
|-------------------|-----------------------|
| एक्सोफोरिया | 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| एसोफोरिया | 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| हाइपर/हाइपोफोरिया | 1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |

(2) 33 सेमी पर

| | |
|-------------------|------------------------|
| एक्सोफोरिया | 16 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| एसोफोरिया | 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| हायपर/हाइपोफोरिया | 1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |

(3) द्विनेत्री दृष्टि अच्छी द्विनेत्री दृष्टि का होना अनिवार्य है (प्युजन तथा स्टिरयोपिस) तथा साथ में अच्छा आयाग व गहनता।

(न) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए। कम से कम 14 दांत बिन्दु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य है। जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत बिन्दु होते हैं।

उम्मीदवार को तीव्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए।

(प) वायु सेना के उम्मीदवारों के लिए रुटीन ईसीजी तथा ईईजी सामान्य सीमा में होने जरूरी हैं।

(फ) 'शारीरिक उपयुक्तता' प्रतिशत उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नीचे दी गई क्रियाओं के दैनिक पालन के द्वारा वे अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें :

(क) बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी दूरी की तेज दौड़ के साथ 3 से 5 कि. मी. की जॉगिंग।

(ख) उछल-कूद :

(ग) दण्ड-बैठक (प्रत्येक कम से कम बीस-बीस बार)

(घ) ठोड़ी को ऊंचाई तक झूना (कम से कम आठ बार)

(ङ) यदि उम्मीदवार तैराकी की बुनियादी जानकारी हासिल कर सकें, तो यह उनके लिए अत्यधिक लाभकारी होगा तथापि, तैराकी न जानने वालों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तैरना सिखाया जाएगा।

परिशिष्ट-III

(सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण)

1. अकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता-पिता या संरक्षक को निम्नलिखित प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

(क) इस आशय का प्रमाणपत्र कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाये या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक

अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) इस आशय का बंधपत्र कि, यदि उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इस आधार पर बर्खास्त या निकाला या वापस किया गया कि उसने उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने के लिए अपने आवेदन-पत्र में जानबूझ कर गलत विवरण दिया अथवा महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया अथवा उसे उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अनुशासनिक आधार पर बर्खास्त या निकाला अथवा वापस किया गया अथवा उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान विवाह के कारण अथवा किसी ऐसे कारण से जो कैडेट के नियंत्रण में है, वह अपने प्रशिक्षण की अवधि पूरी नहीं करता अथवा वह कैडेट, ऊपर बताए गए के अनुसार किसी कमीशन को स्वीकार नहीं करता तो गारंटीकर्ता तथा कैडेट अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से तत्काल सरकार को वह रोकड़ राशि देने के लिए बाध्य होंगे जो सरकार नियत करेगी। किन्तु यह राशि उस व्यय से अधिक नहीं होगी जो सरकार ने कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान उस पर खर्च की है तथा कैडेट द्वारा सरकार से प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्ते सहित सारी राशि पर ब्याज भी लगेगा जिसकी दर सरकार द्वारा दिये गये ऋण पर लगने वाली ब्याज दर, जो उस समय लागू है, के समान होंगी।

2. आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी, उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक से यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार का जेब खर्च वे खुद वहन करेंगे--सामान्यतया इन खर्चों के 175.00 रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को पूरा या आंशिक रूप से बर्दाश्त करने में असमर्थ हो तो पहले और दूसरे वर्ष के लिए रु. 175.00 तक और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीसरे वर्ष के प्रशिक्षण के लिये रु. 175.00 और थल सेना/नौ सेना/वायु सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आगे के वरिष्ठ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के लिए रु. 175.00 तक सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा सकती है। ऐसा कोई कैडेट वित्तीय सहायता लेने का हकदार नहीं होगा जिसके माता-पिता अथवा अभिभावक की आय 1500/- रुपये प्रति माह से अधिक तथा 2000/- रुपये प्रति माह है और यदि उनका एक से अधिक लड़का/आश्रित नौ सेना और वायु सेना में स्थापित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी तथा इनके सदृश प्रशिक्षण में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहा है।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक सरकार से किसी प्रकार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो अपने पुत्र/संरक्षित के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन-पत्र देना चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे (411023) के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा।

3. अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये, उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी।

रु. पैसे

| | |
|--|---------|
| (क) प्रतिमास रु. 175.00 के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च | 875.00 |
| (ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए | 3200.00 |
| (ग) 1 सेमिस्टर के दौरान प्रासंगिक व्यय | 425.00 |
| योग | 4500.00 |

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में से नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी।

रु. पैसे

| | |
|--|--------|
| (क) 175.00 रु. प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च | 875.00 |
| (ख) वस्त्र तथा उपस्करों की मदों के लिए लगभग | 475.00 |

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां/वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं :

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है। जिनके माता-पिता की आय सभी साधनों से रु. 350.00 तथा रु. 500.00 प्र.मा. के बीच हो। छात्रवृत्ति की राशि सरकारी वित्तीय सहायता के बराबर होगी। जब तक कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या अन्य कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में रहेगा तब तक के लिए वह प्राप्त होगी किन्तु शर्त यह है कि कैडेट का व्यवहार अच्छा रहे और वह संतोषजनक प्रगति करता रहे और उसकी माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से कम रहे। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी उन्हें सरकार में अन्य वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(2) कर्नल कौंडिल फेंक मेमोरियल छात्रवृत्ति : यह 360.00 रुपये प्रति वर्ष का छात्रवृत्ति उस मराठा कैडेट को दी जाएगी जो भूतपूर्व मेनिक का पुत्र हो। यह छात्रवृत्ति सरकार में प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

(3) कौर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियां उन दो कैडेटों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतर स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक छात्रवृत्ति 37.00 रु. प्रति मास की होगी तथा अधिकतम 4 वर्ष के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी, देहरादून तथा वायु सेना फ्लाईंग कालिज तथा नौ सेना अकादमी, कोचीन में जहां कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, दी जाती रहेगी। छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जब कैडेट उपर्युक्त संस्थाओं में अच्छी प्रगति करता रहे।

(4) असम सरकार छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियां असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति 30.00 रु. प्रति मास की रहेगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिये बिना प्रदान की जाएगी। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, उन्हें सरकार की ओर से अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(5) उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियां : दो छात्रवृत्तियां 30.00 रु. प्रति मास की तथा 400.00 रु. की परिधान वृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैडेटों की योग्यता तथा आय के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में

संतोषजनक प्रगति करने पर 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। जिन कैडेटों को ये छात्रवृत्तियां मिलेंगी उन्हें अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार से नहीं मिलेगी।

(6) केरल सरकार छात्रवृत्ति : पूरे वर्ष के लिए 480 रु. की एक योग्यता छात्रवृत्ति रा.र. अकादमी में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए केरल राज्य द्वारा उस कैडेट को दी जाती है जो केरल राज्य का अधिवासी निवासी हो और जो रा.र. अकादमी हेतु अखिल भारतीय सं.लो.से.आ. की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है भले ही उसने वह परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सेना कालिज से या भारत भर में किसी सैनिक स्कूल से उत्तीर्ण की हो। ऐसा करते समय कैडेट के पिता/संरक्षक की आर्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(7) बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार : यह 500.00 रुपये का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी से प्रत्येक कोर्स के लिए मिलता है, आवेदनपत्र कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलते हैं।

(8) उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियां : तीन छात्रवृत्तियां—एक थल सेना, एक नौ सेना तथा एक वायु सेना के कैडेट के लिए प्रत्येक 80.00 रु. प्रति मास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियां कैडेटों की योग्यता तथा आय साधन के आधार पर दी जाएंगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय रु. 5000 प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा तीसरी छात्रवृत्ति बिना उसके माता-पिता या अभिभावकों की आय को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैडेट को दी जाएगी।

(9) पश्चिम बंगाल सरकार छात्रवृत्तियां : निम्नलिखित वर्गों की छात्रवृत्तियां पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो पश्चिमी बंगाल के स्थायी निवासी हैं :

(क) वर्ग I : ये छात्रवृत्तियां—(थलसेना, नौ सेना तथा वायुसेना के लिये एक-एक) 360.00 रुपये प्रति वर्ष पहले और दूसरे वर्ष के लिए और अकादमी के तीसरे वर्ष के लिए विशेष प्रशिक्षण संस्था में चौथे वर्ष के लिए 480.00 रु. तथा इसके अतिरिक्त 400.00 रु. परिधान वृत्ति, यह उन कैडेटों को दी जाएगी जो अकादमी में कोई छात्रवृत्ति पाने के पात्र नहीं हैं।

(ख) वर्ग II : तीन छात्रवृत्तियां 100 रुपये प्रति वर्ष एक मुश्त सरकारी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त दी जाएंगी।

(10) पाइलट अफसर गुरमीत सिंह बेदी मेमोरियल छात्रवृत्ति : रु. 420 प्रतिमाह की एक छात्रवृत्ति ऐसे कैडेट को दी जाती है जो वायुसेना कैडेटों के चौथे सत्र के अंत में योग्यता में सर्वोत्तम होगा। यह एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। पांचवें और छठे सत्र के दौरान यह छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी। यदि प्राप्तकर्ता रेलीगेट कर दिया गया हो या इसके प्राप्त करने की अवधि में छोड़कर चला गया हो। जो कैडेट इस प्रकार की पहले से ही कोई योग्यता छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता ले रहा है, उसे छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।

(11) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति : हिमाचल प्रदेश के कैडेटों को 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए छात्रवृत्तियां 30.00 रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 40.00 रुपये प्रतिमास मिलेंगी। यह छात्रवृत्ति उन कैडेटों को मिलेगी जिनके

माता-पिता की मासिक आय 500.00 रुपये प्रतिमास से कम होगी, जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा हो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

(12) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति : तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स रु. 30 प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में रु. 400 सप्ताह भत्ता (कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक/संरक्षक की मासिक आय रु. 500 से अधिक न हो। पात्र कैडेट अपना आवेदन कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

(13) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां : कर्नाटक सरकार ने प्रति वर्ष 18 (अठारह) छात्रवृत्तियां 9 जनवरी से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए और 9 जुलाई से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए कर्नाटक राज्य के उन कैडेटों को दी है जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज, देहरादून में अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं। इन छात्रवृत्तियों की राशि 480.00 रुपये प्रति वर्ष है।

रु. 480.00 प्रति वर्ष की चार (4) और छात्रवृत्तियां (दो प्रतिसत्र) कर्नाटक राज्य के उन छात्रों को दी गई हैं जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कालेज, देहरादून के अलावा अन्य संस्थानों पर अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं।

(14) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति : बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रु. 50/- प्रतिमास की 25 योग्यता छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छः समयावधि के पूरे समय के वास्ते एक बार और रु. 650/- वस्त्र तथा उपस्कर के वास्ते देना शुरू किया है। जिस कैडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा। पात्र कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमांडेंट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(15) फ्लाईंग आफिसर डीबी पिंटू स्मारक छात्रवृत्ति : ग्रुप कैप्टन एम. वशिष्ठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में वरीयताक्रम में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कैडेटों को पहला सेमेस्टर पूरा करने पर दूसरे सत्र के समाप्त होने तक, एक सत्र के लिए 125/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं। सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैडेट उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। पात्र कैडेट प्रशिक्षण पर पहुंचने के बाद कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

(16) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता—महाराष्ट्र राज्य।

महाराष्ट्र के भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के उन आश्रितों को, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/भारतीय सैनिक अकादमी/वायु सेना अकादमी/नौ सेना अकादमी में कैडेट के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित जेब खर्च निम्नलिखित दरों पर दिया जाएगा :

| | |
|---------------------------------------|---|
| भूतपूर्व अधिकारी | : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल जेब खर्च का 50 प्रतिशत। |
| भूतपूर्व जूनियर कमोशन प्राप्त अधिकारी | : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल जेब खर्च का 75 प्रतिशत। |
| अन्य रैंकों के भूतपूर्व सैन्य कर्मी | : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल जेब खर्च का 100 प्रतिशत। |

आश्रितों के माता-पिता/अभिभावकों को अपने आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करने चाहिए और इसके साथ उन्हें अकादमी से प्राप्त प्रमाण-पत्र भी भेजने चाहिए जिनमें जेब खर्च की दरें दर्शाई गई हों, जिनके आधार पर आवेदकों के माता-पिता को इस राशि का भुगतान किया जाएगा।

इन छात्रवृत्तियों की शर्तें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कुवासला। पुणे (411023) से प्राप्त की जा सकती है।

5. चुने हुए उम्मीदवारों के अकादमी में आने के बाद तत्काल उनके लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी:

- (क) अंग्रेजी
- (ख) गणित
- (ग) विज्ञान
- (घ) हिन्दी

(क), (ख) तथा (ग) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की हायर सेकेंडरी परीक्षा के स्तर से ऊंचा नहीं होगा।

(घ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह जांचा जायेगा कि उम्मीदवार को अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का कितना ज्ञान है। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त अध्ययन के लिए उदासीन न हो जाए।

प्रशिक्षण :

6. तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 3 वर्ष के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दिया जाता है जो एक सर्व सेना संस्था है। पहले ढाई वर्ष का प्रशिक्षण तीनों सेनाओं के लिए समान है। सफल होने पर कैंडेटों को अवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा बीएससी/बीए डिग्री प्रदान की जाएगी।

7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने के बाद थल सेना कैंडेट भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में नौ सेना कैंडेट, कैंडेटों के प्रशिक्षण पोत में और वायु सेना कैंडेट, ए.एफ.ए. हैदराबाद/बीएफटीएस इलाहाबाद जाएंगे।

8. भारतीय सेना अकादमी में सेना कैंडेटों को 'जेन्टलमेन कैंडेट' कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे इन्फेन्ट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सकें। प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने के बाद जेन्टलमेन कैंडेटों को उनके शेष वन (SHAPE-एक) शारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन दिया जाता है।

9. नौ सेना कैंडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौ सेना का कार्यपालक इंजीनियरी और बिजली शाखाओं के लिए चुना जाता है, उन्हें छः महीने के लिए कैंडेट प्रशिक्षण पोत पर समुद्री प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें मिडशिपमैन रैंक में पदोन्नत किया जाता है। संबद्ध शाखा में 6 महीने तक आगे प्रशिक्षण पाने के बाद उन्हें कार्यकारी लेफ्टिनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

10. वायु सेना कैंडेटों को हवाई उड़ान का ढेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर अनन्तिम रूप में फ्लाईंग अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है। उनके बाद छः महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थायी रूप से कमीशन अफसर के रूप में समाहत कर दिया जाता है।

सेवा की शर्तें :

11. सेना अधिकारी एवं वायु सेना व नौ सेना के समकक्ष रैंक

(i) कैंडेट प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति

जेन्टलमेन कैंडेट सैन्य अकादमियां, अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, की पूरी प्रशिक्षण अवधि के दौरान 8000/- रु. प्रतिमाह की वृत्तिका पाने के हकदार होंगे। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् भुगतान की गई वृत्तिका को सभी उद्देश्यों हेतु वेतन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तथापि प्रशिक्षण की अवधि को कमीशन प्राप्त सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा।

(i) वेतन

| (क) रैंक | वेतनमान |
|------------|----------------------|
| लैफ्टिनेंट | रु. 8250-300-10050/- |
| कैप्टेन | रु. 9600-300-11400/- |
| मेजर | रु. 11600-325-14850* |

*मेजर को उनके अधिकतम वेतनमान के बाद एक वर्ष तक वेतन वृद्धि में गतिरोध आ जाने की स्थिति में मेजर के रैंक वेतन के साथ-साथ ऊपर दर्शाया गया लैफ्टिनेंट कर्नल का वेतनमान दिया गया है।

| | |
|------------------|-----------------------|
| लैफ्टिनेंट कर्नल | रु. 13500-400-17100/- |
| कर्नल | रु. 15100-450-17350/- |
| ब्रिगेडियर | रु. 16700-450-18050/- |

(ख) वेतन के अतिरिक्त नीचे दिए गए अनुसार रैंक वेतन भी दिया जाएगा:

| | |
|-----------------------|------------|
| कैप्टेन | रु. 400/- |
| मेजर | रु. 1200/- |
| लैफ्टिनेंट कर्नल/टीएस | रु. 1600/- |
| कर्नल | रु. 2000/- |
| ब्रिगेडियर | रु. 2400/- |

| (ग) रैंक | वेतनमान |
|---------------------------------------|-----------------------|
| मेजर जनरल | रु. 18400-500-22400/- |
| लैफ्टिनेंट जनरल | रु. 22400-525-24500/- |
| सेना स्टाफ व सेना संवर्ग के उप प्रमुख | रु. 26,000/- (नियत) |
| सेना स्टाफ के प्रमुख | रु. 30,000/- (नियत) |

(ii) योग्यता वेतन तथा अनुदान

लेफ्टिनेंट कर्नल या उनके नीचे के रैंक के अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर विशेष निर्धारित योग्यता होने पर रु. 3000/-, 4500/-, 7500/- या 10,000/- रु. का एकमुश्त योग्यता अनुदान देय है सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नीचे दिए अनुसार योग्यता वेतन देय है :

- (i) मास्टर उड़ान अनुदेशक--रु. 250/- प्रतिमाह
- (ii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I--रु. 200/- प्रतिमाह
- (iii) वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-II--रु. 140/- प्रतिमाह
- (iv) मास्टर ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक--रु. 200/- प्रतिमाह
- (v) ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक --रु. 140/- प्रतिमाह

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को नीचे दिए गए अनुसार उड़ान भत्ता देय है:

- (क) ब्रिगेडियर तथा ऊपर रु. 5200/-
- (ख) मेजर से कर्नल रु. 7000/-
- (ग) कैप्टेन रु. 5500/-
- (घ) लेफ्टिनेंट रु. 4500/-

(iv) भत्ते : इस समय एक अधिकारी वेतन के अलावा निम्नलिखित भत्ते प्राप्त करता है :

(क) प्रतिपूरक (नगर) भत्ता तथा मंहगाई भत्ता सिविल राजपत्रित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होने वाली समान दरों से और उन्हीं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा।

(ख) रु. 200/- प्रति माह की दर से फिट रखरखाव भत्ता।

(ग) रैंक तथा तैनाती के इलाके को आधार मानकर फील्ड एरिया में तैनात किए गए अधिकारी रु. 2100/- से 2600/- रु. प्रति माह की दर पर प्रतिपूरक फील्ड एरिया भत्ता तथा 800/- रु. से 1000/- रु. प्रति माह की दर पर प्रतिपूरक आशोधित फील्ड एरिया भत्ता पाने के हकदार होंगे।

(घ) 9000 फुट से 15000 फुट की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों तथा 15000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों की फील्ड एरिया भत्ते के साथ-साथ अधिक ऊंचाई/प्रतिकूल जलवायु भत्ता क्रमशः रु. 530/- से 1060 तथा रु. 800/- से 1600/- रु. प्रतिमाह की दर से दिया जाएगा।

(ङ) सभी रैंकों के अधिकारियों को प्रतिपूरक फील्ड एरिया भत्ते के अतिरिक्त रु. 7000/- प्रतिमाह की दर से सियाचीन भत्ता देय होगा। तथापि

यह भत्ता अधिक ऊंचाई/प्रतिकूल जलवायु भत्ते के साथ संयुक्त रूप में देय नहीं होगा।

(च) परिधान भत्ता : प्रारंभिक परिधान भत्ता रु. 6000/- तथा प्रत्येक 7 वर्ष की कारगर सेवा के बाद नवीकरण परिधान भत्ता 6000/- रु. है।

(छ) सभी अधिकारियों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा।

(ज) परिवहन भत्ता : उन अधिकारियों को, जिन्हें कार्य स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर सरकारी आवास अथवा सरकारी परिवहन की सुविधा अथवा कार्य स्थल के कैम्पस हाउसिंग तथा आवास में रहने की सुविधा नहीं दी गई है उन्हें रु. 800/- प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता देय होगा।

12. (क) आर्मी ग्रुप बीमा, कैंडेटों को जिसमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नौ सेना तथा वायुसेना कैंडेट भी सम्मिलित हैं उनके कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ करने की तारीख से प्रशिक्षण समाप्त होने की तारीख तक एक बार की सांकेतिक बीमा-फिस्त पर 4 लाख रु. की बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। यह योजना अक्षमता (डिसएबिलिटी) सुरक्षा भी प्रदान करती है। 100% अक्षमता (डिसएबिलिटी) हेतु आनुपातिक रूप से यह सुरक्षा 1 लाख रु. है। यह योजना 01 जनवरी, 99 से लागू कर दी गई है।

(ख) भारतीय सेना अकादमी में 8000/- रु. प्रतिमाह की वृत्तिका (स्टाईपेंड) प्राप्त करने वाले और तदुपरांत कमीशन प्राप्त करने वाले कैंडेटों और अधिकारियों को नियमित सेना अधिकारियों को लागू मुख्य आर्मी ग्रुप बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया जाता है। उपलब्ध बीमा सुरक्षा 8 लाख रु. की है। जो भारतीय सेना अकादमी अथवा सेना से अक्षमता (डिसएबिलिटी) के आधार पर बाहर हो गये हैं उनके लिए अक्षमता (डिसएबिलिटी) सुरक्षा 100% अक्षमता (डिसएबिलिटी) हेतु बीमाकृत राशि का 50% है अर्थात् 100% अक्षमता (डिसएबिलिटी) हेतु 4 लाख रु. की राशि 20% या कम अक्षमता (डिसएबिलिटी) हेतु आनुपातिक रूप से घटा कर 80,000/- रु. है।

13. सेवा निवृत्ति लाभ

पेंशन, उपदान और ग्रेज्युटी अवाइड समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

14. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार होगी।

संजय श्रीवास्तव

उप-सचिव

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 12th March 2001

No. A-19014/18/2001-Admn.I.—Consequent on his transfer from Ministry of Water Resources to the Union Public Service Commission in pursuance of the Rotation Policy of the Government vide Department of Personnel & Training, Office of the Establishment Officer, OM No. 31/28/2000-EO(MM.I) dated 13th December 2000, Sh. V. K. Trikha, an officer of CSS, has been appointed as Deputy Secretary (personal/in-situ), UPSC w.e.f. the forenoon of 1st March 2001 until further orders.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)

No. A-19014/19/2001-Admn.I.—Consequent on her transfer from Department of Agriculture and Co-operation to the Union Public Service Commission in pursuance of the Rotation Policy of the Government vide Department of Personnel & Training, Office of the Establishment Officer, OM No. 31/17/2000-EO(MM.I) dated 14th November 2000, Ms. Rani Makhijani, an officer of CSS, has been appointed as Under Secretary, UPSC w.e.f. the forenoon of 5th March 2001 until further orders.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)

The 14th March 2001

No. A-19014/20/2001-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri B. B. Dave, IPoS (86), as Deputy Secretary in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 in the Office of the Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 13th March 2001 until further orders.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)

No. A.35014/7/94-Admn.II.—Hon'ble Chairman, Union Public Service Commission, hereby appoints Shri Vijay Kumar Sharma, Private Secretary (Group "A" & "B" merged) of CSSS cadre of Union Public Service Commission to the post of Staff Officer (Group "A" Gazetted) in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- on adhoc deputation basis in the Commission's office for a further period w.e.f. 2-3-2001 to 1-6-2001 or until further orders, whichever is earlier.

2. During his appointment as Staff Officer on ad-hoc deputation basis, the pay of Shri Vijay Kumar Sharma will continue to be regulated in accordance with the provisions contained in D/o Per. & Trg. O.M. No. 2/29/91-Estt. (Pay.II) dated 5-1-94 as amended from time to time.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)
for Chairman

The 22nd March 2001

No. A-32013/5/96-Admn.II.—In pursuance of Department of Official Language O.M. No. 5/7/96-OL(S) dated 8-3-2001, Dr. (Smt.) Kanchan Saxena, Assistant Director (O.L.) and officiating as Deputy Director (OL) on ad-hoc basis, is appointed to the post of Deputy Director (Official Language) (Grade-II of the CSOLS) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- in the office of Union Public Service Commission on regular promotion basis w.e.f. 1-3-2001, until further orders.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110 003, the 26th March 2001

No. E-31013(2)/1/2000/Pers.II/Vol.2/135.—Shri K. Chandra Kumar, Assistant Commandant (Exe) of CISF who is presently on deputation with IOCL, Haldia Refinery, is hereby granted proforma promotion under 'Next Below' Rule' in the officiating capacity to the rank of Deputy Commandant in CISF with effect from the forenoon of 26th February, 2001 in the pay scale of Rs. 10000-325-15,200/-.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT), J & K

Srinagar, the 20th February 2001

No. Admn.I/Audit/1(2)/2000-01/2120-21—The Accountant General J&K has been pleased to order the promotion of the following Section Officers as Assistant Audit Officers (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in an officiating capacity with immediate effect i.e. from the date they take over charge as Assistant Audit Officer at Head Office, Srinagar till further orders.

| Sl. No. | Name | Date of Birth |
|---------|-------------------------|---------------|
| 1. | Shri Rattan Lal Raina | 27-4-1953 |
| 2. | Shri Jewan Kumar Handoo | 10-3-1957 |

In the case of Shri Rattan Lal Raina who is presently on temporary adjustment with Accountant General (Audit), M.P., Gwalior, this office has no objection if his employer is willing to retain him against the post of higher responsibilities viz. Assistant Audit Officer.

The promotees may exercise their option for fixation of pay in terms of Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O M No 1/2/87-Estt Pay I dated 9-11-1987 within one month of the date of their promotion

Sd/ ILLEGIBLE
Dy Accountant General (A)

The 1st March 2001

No Admn-I/Audit/1 (2)/2000-01/2189-90 Office Order No Admn-I/Audit/225 —The Accountant General J&K has been pleased to order the promotion of the following Section Officers as Assistant Audit Officers (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs 6500-200-10500 in an officiating capacity with immediate effect or from the date they take over charge as Assistant Audit Officer whichever is later till further orders. Posting orders will be issued separately

| Sl No | Name | Date of Birth |
|-------|--------------------------|---------------|
| 1 | Shri Chander Mohan Saraf | 28-2-1957 |
| 2 | Shri Nazir Ahmad Dar | 20-6-1960 |

The promotees may exercise their option for fixation of pay in terms of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel, and Training) O M No 1/2/87-Estt Pay I dated 9-11-1987 within one month of the date of their promotion

Sd/- ILLEGIBLE
Dy Accountant General (A)

No Admn I/Audit/1(2)/2000-01/2177-78 Office Order No Admn-I/Audit/224—The Accountant General (Audit), J&K has been pleased to appoint the following Asstt Audit Officer as Audit Officers (Group 'B') in an officiating capacity in the pay scale of Rs 7500-250-12000 with immediate effect or from the date they take over charge as Audit Officer till further orders

| Sl No | Name | Date of Birth |
|-------|----------------------------|---------------|
| 1 | Shri Ashok Kumar Malla | 1-5-1948 |
| 2 | Shri Shiban Kishan Khabroo | 30-5-1952 |

The promotees may exercise option for fixation of pay in terms of Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O M No 1/2/87-Estt Pay I dated 9-11-1987 within one month of the date of their promotion

Sd/- ILLEGIBLE
Dy Accountant General (A)

MINISTRY OF LABOUR
(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004 the 30th March 2001

No 5/1/2001 CPI —The All India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base 1982=100 has decreased by 2 points to stand at 443 (four hundred & fortythree) for the month of February, 2001

I S NEGI
Dy Director

MINISTRY OF MINES
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Calcutta 16, the 19th March 2001

No 931A/A-32013/4-DDG(DE)/90-198 —The President is pleased to appoint the following Director (Drilling) (Sel Grade) on promotion as Dy Director General (Drilling) in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs 18,400-500-22,400/- in an officiating capacity with effect from the dates mentioned against each until further orders

| Sl No | Name | Date of Assuming Charges |
|-------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Shri S C. Chopra | 28-2-2001 (FN) |
| 2 | Shri R. Sundararajan | 28-2-2001 (FN) |

R N DATTA
Director (Personnel) for Director General

The 27th March 2001

No 877/B/A-32013/1-Geol(Sr)/2001/19A —The President is pleased to appoint the following Geologist (Jr) Geological Survey of India, on promotion as Geologist (Sr) in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs 10,000-325-15,200/- in an officiating capacity with effect from the date mentioned against each, until further orders

| Sl No | Name | Date of Appointment |
|--------|--------------------------|---------------------|
| S/Shri | | |
| 1 | Nirdosh Kumar Punj | 22-2-2001 (FN) |
| 2 | K. Vasudevan Nambiar | 22-2-2001 (FN) |
| 3 | Kamal Kumar Gangapadhyay | 20-2-2001 (AN) |
| 4 | Chander Shakher Jamwal | 22-2-2001 (FN) |
| 5 | Dhruva Ganguly | 20-2-2001 (AN) |
| 6 | Smt Mita Ganguly (Das) | 20-2-2001 (AN) |
| 7 | R. Madhusadan | 20-2-2001 (AN) |
| 8 | V. Srinivasamurthy | 20-2-2001 (AN) |
| 9 | D. K. Mukhopadhyay | 22-2-2001 (FN) |
| 10 | Saush Kumar Jadia | 21-2-2001 (FN) |
| 11 | Mukul Kishore | 20-2-2001 (AN) |

R N DATTA
Director (Personnel) for Director General

**DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY)**

Indore-452 013, the 26th March 2001

No. CAT/2001-Adm/R-902(1)/415—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers in a substantive capacity to the grade and with effect from the date indicated against each in Centre for Advanced Technology, Indore.

| Sl. No. | Name | Design. | w.e.f. |
|---------|-----------------------|---------|-----------|
| 01 | Shri Jai Khare | SO/C | 1-4-1999 |
| 02 | Dr. A. K. Shrivastava | SO/D | 1-10-2000 |
| 03 | Dr. Kawaljeet Singh | SO/D | -do- |
| 04 | Dr. S. Ganesa Moorthy | SO/D | -do- |
| 05 | Dr. Gautam Sinha | SO/D | -do- |
| 06 | Shri M. S. Bhagat | SO/C | -do- |
| 07 | Shri Maheswar Nayak | SO/C | -do- |
| 08 | Shri S Satapathy | SO/C | -do- |
| 09 | Ku. Preeti Khare | SO/C | -do- |
| 10 | Shri Tirumala Rao | SO/C | -do- |
| 11 | Shri M. J. Joshi | SO/C | -do- |

R. K. SAINI
Chief Administrative Officer

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-94, the 22nd March 2001

No. Ref.:HWB/R/1/2(38)/2001/186—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers/Engineers of Heavy Water Plants to the posts as indicated in Column 4 below with effect from the forenoon of August 1st, 2000 in the same Office/Plant in a temporary capacity until further orders.

| Sr. No. | Name | Present Grade | Promoted to Grade | Unit |
|---------|-----------------------|---------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | S/Shri | | | |
| 1. | Om Prakash Singh | SO/D | SO/E | HWP (Kota) |
| 2. | Prashant Roy | SO/D | SO/E | HWP (Kota) |
| 3. | Ram Briksh Prasad | SO/C | SO/D | HWP (Kota) |
| 4. | Devendra Kumar Kalkal | SO/C | SO/D | HWP (Kota) |
| 5. | Hanuman Singh Yadav | SO/C | SO/D | HWP (Kota) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------------------|-------|------|----------------|
| | S/Shri | | | |
| 6. | Chandra Kumar Yadav | SO/C | SO/D | HWP (Kota) |
| 7. | Sunil Kumar Srivastava | SO/SB | SO/C | HWP (Kota) |
| 8. | Gopal Singh | SO/SB | SO/C | HWP (Kota) |
| 9. | Jashvantlal Shivlal Parmar | SO/D | SO/E | HWP (Baroda) |
| 10. | Prithwidev Roy | SO/D | SO/E | HWP (Baroda) |
| 11. | Brahm Swaroop | SO/D | SO/E | HWP (Baroda) |
| 12. | Barister Kanwar | SO/D | SO/E | HWP (Baroda) |
| 13. | Parameswaran Pillai Surendran | SO/D | SO/E | HWP (Baroda) |
| 14. | Dharma Narain Singh | SO/D | SO/E | HWP (Baroda) |
| 15. | Vijay Kumar Bhatt | SO/C | SO/D | HWP (Baroda) |
| 16. | Yogendra Dwivedi | SO/C | SO/D | HWP (Baroda) |
| 17. | Arcot Dhanakoty Chandra Sekaran | SO/D | SO/E | HWP (Tuticorm) |
| 18. | Palaniandy Kumaravelu | SO/D | SO/E | HWP (Tuticorm) |
| 19. | Krishnasamy Vijayaragavan | SO/SB | SO/C | HWP (Tuticorm) |
| 20. | Annamalai Meryazhagan | SA/D | SO/C | HWP (Tuticorm) |

The above Officers relinquished charge of the post held by them as mentioned in the column No. 3 on the forenoon of August 1, 2000.

Scale of pay :—

1. Scientific Officer/Engineer Grade 'E'—12000-375-16500
2. Scientific Officer/Engineer Grade 'D'—10000-325-15200
3. Scientific Officer/Engineer Grade 'C'—8000-275-13500

C. G. SUKUMARAN
Director (Personnel & Administration)

**MINISTRY OF LAW, JUSTICE, & COMPANY
AFFAIRS
DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES**

In the matter of the Companies Act 1956 and in the
matter of following companies

Cuttack-753 001, the 26th March 2001

No. ROC-O-FTS-560/3905—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of the section 560 of the Companies Act, the name of the following companies has

this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved

| Sl No | Co No | Name of the Company |
|-------|----------|--|
| 1 | 15-01545 | M/s Trans Orissa Media Pvt Ltd |
| 2 | 15 03522 | M/s Ganapati Rice Mills Pvt Ltd |
| 3 | 15-04271 | M/s Tecmark Cables Pvt Ltd |
| 4 | 15-02345 | M/s Gopal Carbide Pvt Ltd |
| 5 | 15 05672 | M/s Hightech Consultants Pvt Ltd |
| 6 | 15-03683 | M/s Chariot Asbestors Products Pvt Ltd |
| 7 | 15-04451 | M/s Chariot Cement Ltd |
| 8 | 15-01155 | M/s Yayati Hoteliers Pvt Ltd |
| 9 | 15-02697 | M/s Media Print Pvt Ltd |
| 10 | 15-02696 | M/s Media Link Pvt Ltd |
| 11 | 15 03289 | M/s Vigro Management Consultancy Pvt Ltd |

BIBEKANANDA MOHANTY
Registrar of Companies, Orissa

In the matter of Companies Act, 1956 and in the matter of following companies

Cuttack-753 001, the 27th March 2001

No ROC O-FTS 560/3906—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of the section 560 of the Companies Act, 1956 the name of following companies has this day been struck off from the Register of Companies and are dissolved

| Sl No | Co No | Name of the Company |
|-------|----------|---|
| 1 | 15 02406 | M/s Neelachal Technical Pvt Ltd |
| 2 | 15 02316 | M/s Suburban Farms Pvt Ltd |
| 3 | 15-01719 | M/s Routray Construction Pvt Ltd |
| 4 | 15-01720 | M/s Sharma Udyog Pvt Ltd |
| 5 | 15 01471 | M/s Esquire Rubber Pvt Ltd |
| 6 | 15 03431 | M/s Shree Lord Jagannath Teak Tree Plantation Pvt Ltd |
| 7 | 15 02989 | M/s Easter Slug Industries Pvt Ltd |
| 8 | 15-04082 | M/s Shree Maa Denteswari Integretes Paddy Complex Pvt Ltd |
| 9 | 15-03998 | M/s Hariram Paddy Parboiling & Drying Industries Pvt Ltd |
| 10 | 15 01216 | M/s Sahoo Exporters Pvt, Ltd |

BIBEKANANDA MOHANTY
Registrar of Companies, Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and in the matter of following Companies

Calcutta-700 020 the 21st March 2001

No TS/PVT/37447—Notice is hereby given pursuant to Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration

of 90 (Ninety) days from the date hereof, the name of the following companies unless any objection is received from any person will be struck off the Register and the said companies will be dissolved This notification is issued pursuant to Department's circular no 1/5/2000 CL V dated 20th September 2000

| Sl No | Company No | Name of the Company |
|-------|------------|--|
| 1 | 41977 | M/s Steelman Equipments Pvt Ltd |
| 2 | 41978 | M/s Steelman Exports Pvt Ltd |
| 3 | 37301 | M/s Grescent Wire Industries Pvt Ltd |
| 4 | 50390 | M/s Essen Fabricators Pvt Ltd |
| 5 | 44414 | M/s Stanmore Builders Pvt Ltd |
| 6 | 46951 | M/s Creation Marketing Pvt Ltd |
| 7 | 45304 | M/s Everest Liason Company Pvt Ltd |
| 8 | 53742 | M/s Sita Investment Pvt Ltd |
| 9 | 32311 | M/s Madan Development Pvt Ltd |
| 10 | 43900 | M/s M G D Techno Pvt Ltd |
| 11 | 34217 | M/s Florence Pvt Ltd |
| 12 | 43572 | M/s Charu Exports Pvt Ltd |
| 13 | 57560 | M/s Ratna Sales and Exports Pvt Ltd |
| 14 | 36177 | M/s Civitech Numan Pvt Ltd |
| 15 | 39077 | M/s Shining Projects Pvt Ltd |
| 16 | 58168 | M/s S K B Credit & Investment Co Pvt Ltd |
| 17 | 52707 | M/s Rirch Investment and holding Pvt Ltd |
| 18 | 46118 | M/s Neha Land Developers Pvt Ltd |
| 19 | 58796 | M/s Bum Productive Consultants Pvt Ltd |

S KARMAKAR
Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chennai 600 034, the 26th March 2001

No 1980 to 41536/560 (3)/99—Notice is hereby given pursuant to sub-Section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and said companies will be dissolved

| Sl No | Regn No | Name of the Company |
|-------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1980 | The Presidency Talkies Pvt Ltd |
| 2 | 11875 | Standard Business software India Pvt Ltd |
| 3 | 15873 | Shyam Hire Purchase & Finance Ltd |
| 4 | 16487 | Shurishah Construction Pvt Ltd |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|
| 5. | 17006 | Elimatronik Finance & Investments Pvt. Ltd |
| 6. | 17693 | Shyam Adhesives & Levelling Products Ltd. |
| 7. | 17734 | Surgi Latex India Pvt. Ltd. |
| 8. | 18233 | Multi Impressions Pvt. Ltd. |
| 9. | 18462 | Vigneswara Investments & Consultancy Services Pvt. Ltd. |
| 10. | 20372 | Hot 'N' Spicy Caterers Pvt. Ltd. |
| 11. | 21706 | Claswin Finance & Investments Pvt. Ltd. |
| 12. | 26126 | Royal Advertising Pvt. Ltd. |
| 13. | 26813 | Tara Oriental Foods Pvt. Ltd. |
| 14. | 27615 | Altrans Impex (Madras) Pvt. Ltd. |
| 15. | 27680 | Emerald Hill Resorts Pvt. Ltd. |
| 16. | 28211 | Manayan Builders Pvt. Ltd. |
| 17. | 28367 | Anchor Securities Pvt. Ltd. |
| 18. | 28990 | Meera Financial Services Pvt. Ltd. |
| 19. | 29834 | Shireen Cargo & Travel Services Pvt. Ltd. |
| 20. | 31401 | K. L. M. Royal Securities & Investment Ltd |
| 21. | 31484 | Madras Pro Mas Consultants Pvt. Ltd. |
| 22. | 32176 | Agarwal Stock & Consultancy Pvt. Ltd. |
| 23. | 32243 | Green Park Hotels & Resorts Ltd. |
| 24. | 32829 | Naina Stock & Investments Pvt. Ltd. |
| 25. | 32886 | Amaravathi Resorts & Hotels Pvt. Ltd. |
| 26. | 33527 | Maxwealth Benefit Fund Ltd. |
| 27. | 34162 | P. M. M. Housing Development & Finance Ltd. |
| 28. | 35630 | Batra Housing & Development Pvt. Ltd. |
| 29. | 35775 | Kala Mandheer Builders Pvt. Ltd. |
| 30. | 35787 | Sri Gowri Vinayagar Finance Investments Pvt. Ltd. |
| 31. | 35858 | Akkarai Hotels & Enterprises Pvt. Ltd. |
| 32. | 35892 | P. A. Advertising Pvt. Ltd. |
| 33. | 35931 | P. A. Chit Funds Pvt. Ltd. |
| 34. | 35953 | Viswanath Bros Impex Pvt. Ltd. |
| 35. | 36155 | Vignesh Karthick Consultants & Trading (India) Pvt. Ltd. |
| 36. | 36260 | Vaija Investments Pvt. Ltd. |
| 37. | 36411 | Gemini Cotton Weave Pvt. Ltd. |
| 38. | 36533 | Bhagya Lakshmi Textile Mills Pvt. Ltd. |
| 39. | 37558 | K. S. R. Exports Pvt. Ltd. |
| 40. | 39322 | Bharani Agro Pvt. Ltd. |
| 41. | 39355 | Purni Benefit Fund Ltd. |
| 42. | 39835 | Siva Vishnu Recruitment Services Pvt. Ltd. |
| 43. | 40286 | Jagaran Technologies Pvt. Ltd. |
| 44. | 40311 | Rajesh Stainless Pvt. Ltd. |
| 45. | 40584 | Custoss Finlease Pvt. Ltd. |
| 46. | 41536 | United Recreations Pvt. Ltd. |

M. CHANDANAMUTHU
Dy. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and in the matter of following Companies

Kolkata, the 27th March 2001

No. TS/PVT/PUB/560/2760/246, 7217/205, 7612/206, 8098/138, 8897/207, 9638/208, 10646/258, 10665/209, 11220/200, 11293/210, 11591/232, 11629/211, 11770/241, 11780/235, 12203/259, 12217/260, 13067/261, 14130/242, 14660/243, 15290/234, 15536/212, 15881/213, 18277/262, 18370/236, 18580/263, 19157/214, 19786/230, 20700/215, 21437/132, 22325/231, 22910/247, 23971/248, 23991/264, 24052/237, 24055/238, 24357/249, 24378/250, 24471/131, 24667/251, 24680/265, 24682/216, 24767/129, 24928/244, 25091/239, 25226/252, 25253/217, 25611/197, 25837/201, 25847/128, 25885/218, 26375/245, 26448/266, 26558/240, 26830/233, 26865/219, 27056/267, 27226/220, 27248/221, 27354/264, 27537/222, 27740/223, 28224/224, 28323/225, 28347/253, 28458/202, 28508/226, 28590/203, 28672/227, 29048/228, 29169/269, 29248/270, 29313/254, 29467/204, 29619/255, 29647/256, 29701/229, 29780/257

Notice is hereby given pursuant to section 560 of the Companies Act 1956 that at the expiration of 3 (three) months from the date hereof, the name of the following company unless any objection is received from any person will be struck off the Register and the said company will be dissolved. This notification is issued pursuant to Department's Circular No 1/5/2000-CL V dated 20th September, 2000

Sl. Company Name of the Company
No. No.

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 1. | 2760 | M/s. Janty Central Colliery Ltd |
| 2. | 7217 | M/s. Chandoolal B. Modi & Company Pvt Ltd. |
| 3. | 7612 | M/s. Sitara I Hind Press Pvt. Ltd |
| 4. | 8098 | M/s. Natbar Paul & Brothers Calcutta Pvt Ltd. |
| 5. | 8897 | M/s. B. K. Dutt & Company Pvt. Ltd |
| 6. | 9638 | M/s. M. Dhar Company Pvt. Ltd |
| 7. | 10646 | M/s. Coal Marketing Company of India Pvt. Ltd |
| 8. | 10665 | M/s. Mohin & Company Pvt. Ltd. |
| 9. | 11220 | M/s. Dass & Company India Pvt. Ltd |
| 10. | 11293 | M/s. Orient Industrial Engg. Company Pvt Ltd |
| 11. | 11591 | M/s. Todi Properties Limited |
| 12. | 11629 | M/s. United Commercial Press Limited |
| 13. | 11770 | M/s. Bisweswari Estate Pvt. Ltd |
| 14. | 11780 | M/s. Bengal Wire Nails Company Pvt. Ltd |
| 15. | 12203 | M/s. Disergarh Coal Company Limited |
| 16. | 12217 | M/s. Madhabpur Coal Company Limited |
| 17. | 13067 | M/s. Hind Textiles Pvt. Ltd |
| 18. | 14130 | M/s. Allied Carriers (India) Pvt. Ltd |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|
| 19. | 14660 | M/s. Mutual Properties Pvt. Ltd. |
| 20. | 15290 | M/s. Bhagat Properties Pvt. Ltd. |
| 21. | 15536 | M/s. Tamluk Transport & Industries Pvt. Ltd. |
| 22. | 15881 | M/s. P. R. Sarker & Company Pvt. Ltd. |
| 23. | 18277 | M/s. Jhajharia Trading Company Pvt. Ltd. |
| 24. | 18370 | M/s. Nippon Steel Products Pvt. Ltd. |
| 25. | 18580 | M/s. Raisahib Chandunmull Indrakumar Pvt. Ltd. |
| 26. | 19157 | M/s. Swadeshi Cloth Dealers Limited. |
| 27. | 19786 | M/s. S. Karr & Company Pvt. Ltd. |
| 28. | 20700 | M/s. Rupayan Production Pvt. Ltd. |
| 29. | 21437 | M/s. Kundan Textiles Pvt. Ltd. |
| 30. | 22325 | M/s. Figgis Pvt. Ltd. |
| 31. | 23971 | M/s. Orienway Products Pvt. Ltd. |
| 32. | 23991 | M/s. Banerjee & Chatterjee Stevedars Pvt. Ltd. |
| 33. | 24052 | M/s. Bucycle Components Pvt. Ltd. |
| 34. | 24055 | M/s. Doom Dooma Automobiles Pvt. Ltd. |
| 35. | 24357 | M/s. Production Engineering Works Pvt. Ltd. |
| 36. | 24378 | M/s. Mehta Sons Pvt. Ltd. |
| 37. | 24471 | M/s. Rola (India) Pvt. Ltd. |
| 38. | 24667 | M/s. Roylit and Company Pvt. Ltd. |
| 39. | 24680 | M/s. Mitter Manufacturing Pvt. Ltd. |
| 40. | 24682 | M/s. Asiatic Manufacturing & Trading Company Pvt. Ltd. |
| 41. | 24767 | M/s. Indian makers Pvt. Ltd. |
| 42. | 24928 | M/s. Ratanlal Mandhana & Sons Pvt. Ltd. |
| 43. | 25091 | M/s. Elinio Pvt. Ltd. |
| 44. | 25226 | M/s. Andul Foundry & Engineering Works Pvt. Ltd. |
| 45. | 25253 | M/s. Ashok Gass Pvt. Ltd. |
| 46. | 25611 | M/s. Jupiter Vanijya Pvt. Ltd. |
| 47. | 25837 | M/s. Hartmetal Tools & Dies Pvt. Ltd. |
| 48. | 25847 | M/s. Amcel (India) Pvt. Ltd. |
| 49. | 25885 | M/s. Chakrabarty & Ghosh Construction Pvt. Ltd. |
| 50. | 26375 | M/s. F. N. Gooptu & Company Pvt. Ltd. |
| 51. | 26448 | M/s. Progressive Poultry Pvt. Ltd. |
| 52. | 26558 | M/s. Oudh Properties & Traders Pvt. Ltd. |
| 53. | 26830 | M/s. Bengal Safe & Steel Works Pvt. Ltd. |
| 54. | 26856 | M/s. Ramsarup Mamchand (Gunny Dealers) Pvt. Ltd. |
| 55. | 27056 | M/s. Hem Construction Pvt. Ltd. |
| 56. | 27226 | M/s. Lakshmi Plastics & Polyethylene Pvt. Ltd. |
| 57. | 27248 | M/s. Bengal Air Conditioners Pvt. Ltd. |
| 58. | 27354 | M/s. Tripathi Pareek (Consultants) Pvt. Ltd. |
| 59. | 27537 | M/s. Commaide Consultants (India) Pvt. Ltd. |
| 60. | 27740 | M/s. Best Grinding Works Pvt. Ltd. |
| 61. | 28224 | M/s. Sinha Agency Pvt. Ltd. |
| 62. | 28323 | M/s. Sanwa Pharmaceuticals Ltd. |
| 63. | 28347 | M/s. Globe Oil Company Ltd. |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|
| 64. | 28458 | M/s. Bengal Saving Finance Pvt. Ltd. |
| 65. | 28508 | M/s. Sugar Agents (Calcutta) Pvt. Ltd. |
| 66. | 28590 | M/s. S. P. Minerals Pvt. Ltd. |
| 67. | 28672 | M/s. Madhav Engineering Works Pvt. Ltd. |
| 68. | 29048 | M/s. M. P. Keshan Pvt. Ltd. |
| 69. | 29169 | M/s. Solid Alloy Grinding Mills Ltd. |
| 70. | 29248 | M/s. Polyson Engineers Pvt. Ltd. |
| 71. | 29313 | M/s. Mineral Wool Manufacturing (India) Pvt. Ltd. |
| 72. | 29467 | M/s. Briquets (India) Pvt. Ltd. |
| 73. | 29619 | M/s. B. H. Chemical Industries Pvt. Ltd. |
| 74. | 29647 | M/s. Ananda Service Station Pvt. Ltd. |
| 75. | 29701 | M/s. West Bengal Woollen Hosiery Company Pvt. Ltd. |
| 76. | 29780 | M/s. Bafna Investments Pvt. Ltd. |
| 77. | 22910 | M/s. International Steels Pvt. Ltd. |

In the matter of the Companies Act, 1956 and application
Under Fast Track Scheme and of M/s. Suringi Rubbers
Private Limited

Panaji-Goa, the 28th March 2001

No. 24-01204/u/s560(5)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Suringi Rubbers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

M. AHMED KUNJU
Registrar of Companies,
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and application
under Fast Track Scheme and of M/s. Divya Minerals
Company Private Limited.

Panaji-Goa, the 28th March 2001

No. 24-01657/u/s560(5)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Divya Minerals Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

M. AHMED KUNJU
Registrar of Companies,
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and application
under Fast Track Scheme and of M/s. Core Hospitality
Services Private Limited.

Panaji, the 28th March 2001

No. 24-02134/u/s 560(5)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

and the name of M/s. Core Hospitality Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

M. AHMED KUNJU
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and application
under Fast Track Scheme and of M/s. Samsha Freight
Private Limited

Panaji, the 28th March 2001

No. 24-02318/u/s 560(5)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Samsha Freight Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

M. AHMED KUNJU
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Jammu (Tawi), the 26th March 2001

No. ROC/JMU/2001/FTS-P/30.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the names of the following companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the companies mentioned below will be dissolved :

| Sl. No. | Company No. | Name of the Company |
|---------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 07-602 | Alsair Motion Picture Studio and Services Private Limited. |
| 2. | 07-1771 | Pinus Agro Forestry Pvt. Ltd. |
| 3. | 07-1788 | Atman Education Pvt. Ltd |
| 4. | 07-1830 | Basantar Forests India Pvt. Ltd. |
| 5. | 07-1877 | N. F. Consultancy and Trading Pvt. Ltd. |

MANMOHAN JUNEJA
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kay Tee Chits Private Limited

New Delhi-110003, the 5th January 2001

No. 560/3/24937/3002—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date

hereof the name of M/s. Kay Tee Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Globefern (India) Private Limited

New Delhi-110003, the 23rd January 2001

No. 560/3/28357/3601—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Globefern (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sapra Woollen Mills Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/37493/7049—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sapra Woollen Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Topline Security Management Consultants
Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/32679/7075—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Topline Security Management Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s D S Tower Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/35594/7095—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s D S Tower Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Ratawal Chit Fund Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/39985/7101—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Ratawal Chit Fund Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Trishna Advertising Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/32916/7133—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Trishna Advertising Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Dot Exe Systems Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/32998/7137—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Dot Exe Systems Private Limited

unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Amalgamated Auto Agency Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/37299/7139—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Amalgamated Auto Agency Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Gyro Engineers Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/38797/7148—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Gyro Engineers Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Casind Plastics Private Limited

New Delhi 110003, the 19th February 2001

No 560/3/35306/7167—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Casind Plastics Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s N. G Video India Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/33001/7196—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. N. G. Video India Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D K GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Oasis Seeds Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/30968/7193—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Oasis Seeds Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D K GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lal Chits Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/36795/7214—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lal Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D K GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aay Cee Overseas Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/32772/7217—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aay Cee Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off

from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Ascent Engineering Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/35320/7222—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Ascent Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Premier Advisors Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/34746/7234—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Premier Advisors Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s Agni Consultants Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/39144/7248—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Agni Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Systech Computer Services Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/37661/7256—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Systech Computer Services Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Anuj Software Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/31537/7263—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Anuj Software Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Mani Associates Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/35281/7264—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Mani Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Damyanti Chit Fund Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/35154/7278—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date

hereof the name of M/s Damyanti Chit Fund Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s Sparrow Farms Private Limited

New Delhi 110003 the 19th February 2001

No 560/3/33064/7282—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Sparrow Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s Countryside Estates Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/33874/7297—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Countryside Estates Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Halwasiya Petro Chemicals Private Limited

New Delhi 110003, the 19th February 2001

No 560/3/13509/7310—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Halwasiya Petro Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s SM Multirod Electrodes Private Limited

New Delhi 110003 the 19th February 2001

No 560/3/35616/7320—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s SM Multirod Electrodes Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Chitra Films Private Limited

New Delhi 110003, the 19th February 2001

No 560/3/30302/7321—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Chitra Films Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Rastogi Chit Fund Private Limited

New Delhi 110003, the 19th February 2001

No 560/3/35840/7324—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Rastogi Chit Fund Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Shaheen Exports Private Limited

New Delhi 110003 the 19th February 2001

No 560/3/36756/7328—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Shaheen Exports Private Limited

unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s Thukral Leasing Private Limited

New Delhi 110003 the 19th February 2001

No 560/3/36914/7340—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Thukral Leasing Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Dreamland Leasing Private Limited

New Delhi 110003, the 19th February 2001

No 560/3/32607/7341—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Dreamland Leasing Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Bhrihu Chits and Finance Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/13717/7346—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Bhrihu Chits and Finance Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Indra Metals Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/34819/7349—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Indra Metals Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Reel Time Video Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/38871/7350—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Reel Time Video Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s JMK Techcon Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/36875/7351—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s JMK Techcon Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Mela Properties and Holdings Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/31579/7354—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Mela Properties and Holdings

Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Madhu Associates Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/11666/7361—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Madhu Associates Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Deven Synthetics (India) Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/31501/7364—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Deven Synthetics (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s Franklin Trading & Chits Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/16379/7377—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Franklin Trading & Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Marg Darshak Builders Private Limited
New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/37263/7384—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Marg Darshak Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cyton Pharmaceuticals Private Limited
New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/39988/7398—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Cyton Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. V. Hotels Private Limited
New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/32390/7420—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. S. V. Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adaiya Plastics Private Limited
New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/39921/7461—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Adaiya Plastics Private Limited

unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. KDS Oil Mills Private Limited
New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/34296/7463—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of KDS Oil Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fluid Head Films Private Limited
New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/30379/7465—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Fluid Head Films Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tari Star Finance & Chit Private Limited
New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/15718/7470—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tari Star Finance & Chit Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Castwel Metal Industries Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/36445/7477—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Castwel Metal Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krishna Coated Wears Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/31028/7478—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Krishna Coated Wears Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Amar Khadi Udyog Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/33577/7533—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Amar Khadi Udyog Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gaghu Tubes Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/32639/7560—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date

hereof the name of M/s. Gaghu Tubes Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kailash Exports Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/38837/7564—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kailash Exports Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shakti Sagar Credits Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/38047/7590—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shakti Sagar Credits Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved.

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tina Credit & Leasing Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No. 560/3/34688/7592—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tina Credit & Leasing Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D. K. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Chanda Printing Udyog Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/31044/7604—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Chanda Printing Udyog Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Shree Govind Dairy Private Limited

New Delhi 110003, the 19th February 2001

No 560/3/37553/7612—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Shree Govind Dairy Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s M I Chits Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/33047/7615—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s M I Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Prakash Motor Aids Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/32283/7619—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Prakash Motor Aids Private Limited

unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s L M Properties Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/32529/7620—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s L M Properties Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Narinder Pal & Company Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/35520/7628—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Narinder Pal & Company Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Nikon Electronics & Services Private Limited

New Delhi-110003, the 19th February 2001

No 560/3/37289/7629—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Nikon Electronics & Services Private Limited unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register of Companies and said company shall be dissolved

D K GUPTA
Dy Registrar of Companies
NCT of Delhi & Haryana

**UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
EXAMINATION NOTICE NO. 00/2001 DATED 14-4-2001
NATIONAL DEFENCE ACADEMY AND NAVAL
ACADEMY EXAMINATION (II), 2001**

No. F-712/2001-El(B)—An Examination will be held by the Union Public Service Commission on 16-9-2001, for admission to the Army, Navy and Air Force wings of the NDA for the 108th Course and Naval Academy for the 28th 10+2 (Executive Branch) Course commencing from July 2002. The approximate number of vacancies to be filled on the results of this examination will be 370 (214 for the Army, 55 for Navy, 66 for the Air Force and 35 for the Executive Branch of Naval Academy).

Vacancies are provisional and may be changed depending on the availability of training capacity of National Defence Academy.

N.B. (i) A candidate is required to specify clearly in col. 17(1) of the Application Form the Services for which he wishes to be considered in the order of his preference. He is also advised to indicate as many preferences as he wishes to opt so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to his preferences when making appointments.

(ii) Candidates should note that they will be considered for appointment to those services only for which they express their preferences and for no other service(s). No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his application will be entertained by the Commission.

(iii) Before indicating their preferences for different courses, the candidates should first decide their preference for the two Academies viz. National Defence Academy and Naval Academy (Executive Branch). If a candidate opts for National Defence Academy as his first choice, he must first indicate his preferences for different wings of National Defence Academy viz. Army, Navy and Air Force followed by his preferences for Naval Academy (Executive Branch). Alternatively, if a candidate opts for Naval Academy (Executive Branch) as his first choice, he must first indicate his preference for Naval Academy (Executive Branch) as his first choice, followed by his preferences for different wings of National Defence Academy. Thus candidates opting for Naval Academy (Executive Branch) Course as well as other courses of National Defence Academy must give Naval Academy (Executive Branch) as their first preference or the last preference. Naval Academy (Executive Branch) can not be given as 2nd or 3rd preference. Even if Naval Academy (Executive Branch) is given as 2nd or 3rd preference by the candidate, it will be deemed to be the last preference.

(iv) Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by the Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination.

2 CENTRES OF EXAMINATION

Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Allahabad, Bangalore, Bareilly, Bhopal, Calcutta, Chandigarh, Chennai (Madras), Cuttack, Delhi, Dharwar, Dispur (Guwahati), Gangtok, Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Jammu, Jorhat, Kavaratti (Lakshadweep), Kochi (Cochin), Kohima, Lucknow, Madurai, Mumbai (Bombay), Nagpur, Panaji (Goa), Patna, Port Blair, Raipur, Sambalpur, Shillong, Shimla, Srinagar, Thiruvananthapuram (Trivandrum), Tirupati, Udaipur and Vishakhapatnam

The centres and the date of holding the examination as mentioned above are liable to be changed at the discretion of the Commission. While every effort will be made to allot the candidates to the centre of their choice for examination the Commission may, at their discretion, allot a different centre to a candidate, when circumstances so warrant. Candidates admitted to the examination will be informed of the time table and place or places of examination.

Candidates should note that no request for change of centre will normally be granted. When a candidate, however, desires a change in centre from the one he had indicated in his application form for the Examination, he must send a letter addressed to the Secretary, Union Public Service Commission, giving full justification as to why he desires a change in centre. Such requests will be considered on merits but requests received after 14th June, 2001 will not be entertained under any circumstances.

3. CONDITIONS OF ELIGIBILITY

(a) Nationality : A candidate must either be—

- (i) a citizen of India, or
- (ii) a subject of Bhutan, or
- (iii) a subject of Nepal, or
- (iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

(b) Age Limits, Sex and Marital Status : Only unmarried male candidates born not earlier than 2nd July, 1983 and not later than 1st January, 1986 are eligible.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian Univer-

sity as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificates. These certificates are required to be submitted only after the declaration of the result of the written part of the examination. No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted. The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

NOTE 1 CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONLY THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE MATRICULATION/HIGHER SECONDARY EXAMINATION CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFICATE ON THE DATE OF SUBMISSION OF APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION AND NO SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE WILL BE CONSIDERED OR GRANTED.

NOTE 2 CANDIDATES SHOULD ALSO NOTE THAT ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED BY THEM AND ENTERED IN THE RECORDS OF THE COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION, NO CHANGE WILL BE ALLOWED SUBSEQUENTLY OR AT A SUBSEQUENT EXAMINATION ON ANY GROUND WHATSOEVER.

NOTE 3 : THE CANDIDATES SHOULD EXERCISE DUE CARE WHILE ENTERING THEIR DATE OF BIRTH IN COLUMN 8 OF THE APPLICATION FORM FOR THE EXAMINATION. IF ON VERIFICATION AT ANY SUBSEQUENT STAGE ANY VARIATION IS FOUND IN THEIR DATE OF BIRTH FROM THE ONE ENTERED IN THEIR MATRICULATION OR EQUIVALENT EXAMINATION CERTIFICATE, DISCIPLINARY ACTION WILL BE TAKEN AGAINST THEM BY THE COMMISSION UNDER THE RULES.

NOTE 4 : CANDIDATES MUST UNDERTAKE NOT TO MARRY UNTIL THEY COMPLETE THEIR FULL TRAINING. A CANDIDATE WHO MARRIES SUBSEQUENT TO THE DATE OF HIS APPLICATION THOUGH SUCCESSFUL AT THIS OR ANY SUBSEQUENT EXAMINATION WILL NOT BE SELECTED FOR TRAINING. A CANDIDATE WHO MARRIES DURING TRAINING SHALL BE DISCHARGED AND WILL BE LIABLE TO REFUND ALL EXPENDITURE INCURRED ON HIM BY THE GOVERNMENT.

(c) Educational Qualifications

(i) For Army wing of National Defence Academy
12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination conducted by a State Education Board or a University.

(ii) For Air Force and Naval Wings of National Defence Academy and for the 10+2 (Executive Branch) Course at the

Naval Academy : 12th Class Pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent with Physics and Mathematics conducted by a State Education Board or a University.

Candidates who are appearing in the 12th Class under the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination can also apply for this examination.

Candidates who qualify in the SSB interview will be required to submit Matriculation and/or 10+2 or equivalent certificate in original to Army HQ Rtg (NDA Entry) West Block III, R. K. Puram, New Delhi-110066 and for Naval Academy Candidates to Naval Headquarters, R & R Section, 206 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011 by 15th May 2002 failing which their candidature will be cancelled. Certificates in original issued by the Principals of the institutions are also acceptable in cases where Boards/Universities have not yet issued certificates. Certified true copies/photostat copies of such certificates will not be accepted.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

NOTE 1 Candidates appearing in the 11th class exam are not eligible for this examination.

NOTE 2: Those candidates who have yet to qualify in the 12th class or equivalent examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the 12th class or equivalent examination by the prescribed date and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of Board/University Examination, delay in declaration of results or any other ground whatsoever.

NOTE 3: Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

NOTE 4: Those candidates who have failed INSB/PAB I earlier are not eligible for Air Force.

(d) Physical Standards

Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to National Defence Academy and Naval Academy Examination (II), 2001 as given in Appendix II.

4 Fee

(i) A candidate seeking admission to examination must pay to the Commission a fee of Rs 50/- (Rupees Fifty only).

through a single Central Recruitment Fee Stamp. Central Recruitment Fee Stamp (NOT postage stamp) of the requisite denomination may be obtained from the post office and affixed on the application form in the space provided therein. The stamp must be got cancelled from the issuing Post Office with the date stamp of the post office in such a manner that the impression of the cancellation mark partially overflows on the application form itself but within the space provided on the Application form itself. The impression of the cancellation mark should be clear and distinct to facilitate the identification of date and the Post Office of issue.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or representative abroad as the case may be for credit to account head '051-Public Service Commission-Examination Fees' and attach the receipt with the application.

APPLICATION NOT COMPLYING WITH THIS REQUIREMENT WILL BE SUMMARILY REJECTED. THIS DOES NOT APPLY TO THE CANDIDATES WHO ARE SEEKING REMISSION OF THE PRESCRIBED FEE UNDER THE FOLLOWING PARAGRAPH.

CANDIDATES BELONGING TO SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES ARE NOT REQUIRED TO PAY ANY FEE. NO FEE EXEMPTION IS, HOWEVER AVAILABLE TO OBC CANDIDATES AND THEY ARE REQUIRED TO PAY THE FULL PRESCRIBED FEE.

'Postage Stamp' will in no case be accepted in lieu of Central Recruitment Fee Stamp.

Candidates should note that the Fee sent through Indian Postal Orders, Bank Draft, Money Orders, Crossed Cheque, Currency Notes or Treasury Challan etc. will not be accepted by the Commission and such applications will be treated as without fee and will be summarily rejected.

(ii) The children of Junior Commissioned Officers, Non-commissioned Officers and Other Ranks of the Army and equivalent ranks in the Indian Navy and the Indian Air Force and children of Ex-Junior Commissioned Officers, Ex-Non Commissioned Officers and Ex-Other Ranks of the Army and equivalent ranks in the Indian Navy and the Indian Air Force are not required to pay the prescribed fee if they satisfy the following conditions, viz.

(a) they are studying in the Military Schools (formerly known as King George's Schools), Sainik Schools run by the Sainik Schools Society, and

(b) their applications are forwarded by the Principal of the concerned School, with the recommendation that they are expected to secure at least 30 per cent of the aggregate marks in the written papers.

NOTE: Applications of candidates from the Military Schools/Sainik Schools forwarded by the Principals of the concerned schools will be scrutinised in the Commission's Office to determine whether such candidates are entitled to

remission of fee in terms of para 4 (ii) of the Notice above. The Principals of the Military Schools/Sainik Schools should however, satisfy themselves that students of their schools fulfil the requirements of the aforesaid provision of the Notice. While forwarding the application, the name of the applicant and his application form No. (8 digit) should be indicated in the forwarding letter. The forwarding letter should not be tagged or pinned with the application form. The Commission will not take any responsibility for any acts of omission or commission committed by the Principals.

No claim for a refund of fee once paid to the Commission will be entertained nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

5 HOW TO APPLY

(a) The UPSC have developed an application form common for all their examinations which can be processed on computerised machines. This application form along with an Information Brochure containing general instructions for filling up the form, an acknowledgement card and an envelope for sending the application will be obtainable from the designated Head Post Offices/Post Offices throughout the country as listed in Appendix-III of Notice published in the Employment News (Rozgar Samachar dt. 14th April, 2001) against cash payment of Rs. 20/- (Rupees twenty only). Form should be purchased from the designated Head Post Offices/Post Offices only and not from any other agency. This form can be used only once and for only one examination. Candidates must use the form supplied with the Information Brochure only and they should in no case use photocopy/reproduction/unauthorisedly printed copy of the Form. Since this form is electronically scannable, due care should be taken to fill up the application form, correctly. While filling up the application form, please refer to detailed instructions given in Appendix-II of the Notice. The candidates should also fill up in the relevant places of the Acknowledgement Card, published in the Employment News/Rozgar Samachar dt. 14th April, 2001) their application Form Number (8-digit) and the name of the examination. Affix postage stamp of Rs. Two on the Acknowledgement Card. The duly filled in application form and the acknowledgement card should then be mailed in the special envelope supplied with the Information Brochure. You should also write the name of examination viz. "National Defence Academy and Naval Academy Examination (II), 2001" on the envelope before despatching it to "Secretary Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi 110011".

(b) All candidates whether already in Govt. service, Government owned industrial undertakings or other similar organisations or private employment should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application even if submitted to the employer before the closing date will not be considered. Persons already in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as

work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under the Public Enterprises are however, required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for this Examination

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/ appearing at the examination, their application will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled

Candidates serving in the Armed Forces must submit their application through their Commanding Officer who will forward it to the Commission indicating in the forwarding letter the name of the applicant and his application form number (8 digit)

The applications of Sailors (including boys and artificers apprentices) of the Indian Navy will be entertained only if these have been duly recommended by their Commanding Officer

Cadets of Rastriya Indian Military College (previously known as Samik School, Dehradun), Students of Military Schools (formerly known as King George's School) and Samik Schools run by Samik Schools Society should submit their applications through Principal of College/School concerned who will forward it to the Commission indicating in the forwarding letter the name of the applicant and his application form Number (8 digit). The forwarding letter should not be tagged or pinned with the application form

NOTE 1 WHILE FILLING IN HIS APPLICATION FORM, THE CANDIDATE SHOULD CAREFULLY DECIDE ABOUT HIS CHOICE FOR THE CENTRE FOR THE EXAMINATION. MORE THAN ONE APPLICATION FROM A CANDIDATE GIVING DIFFERENT CENTRES WILL NOT BE ACCEPTED IN ANY CASE. EVEN IF A CANDIDATE SENDS MORE THAN ONE COMPLETED APPLICATION, THE COMMISSION WILL ACCEPT ONLY ONE APPLICATION AT THEIR DISCRETION AND THE COMMISSION'S DECISION IN THE MATTER SHALL BE FINAL.

IF ANY CANDIDATE APPEARS AT A CENTRE OTHER THAN THE ONE INDICATED BY THE COMMISSION IN HIS ADMISSION CERTIFICATE, THE PAPERS OF SUCH A CANDIDATE WILL NOT BE VALUED AND HIS CANDIDATURE WILL BE LIABLE TO CANCELLATION.

NOTE 2 APPLICATIONS NOT ACCOMPANIED BY THE PRESCRIBED FEE (UNLESS REMISSION OF FEE IS CLAIMED AS IN PARA 4 ABOVE) OR INCOMPLETE OR DEFECTIVE APPLICATIONS SHALL BE SUMMARILY REJECTED. NO REPRESENTATION OR CORRESPONDENCE REGARDING SUCH REJECTION SHALL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES. CANDIDATES ARE NOT

REQUIRED TO SUBMIT ALONGWITH THEIR APPLICATIONS ANY CERTIFICATE IN SUPPORT OF THEIR CLAIMS REGARDING AGE, EDUCATIONAL QUALIFICATIONS, SCHEDULED CASTE/SCHEDULED TRIBE/OTHER BACKWARD CLASSES AND FEE REMISSION ETC. THEY SHOULD THEMSELVES ENSURE THAT THEY FULFIL ALL THE ELIGIBILITY CONDITIONS FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION. THEIR ADMISSION TO THE EXAMINATION WILL ALSO THEREFORE BE PURELY PROVISIONAL. IF ON VERIFICATION AT ANY LATER DATE IT IS FOUND THAT THEY DO NOT FULFIL ALL ELIGIBILITY CONDITIONS, THEIR CANDIDATURE WILL BE CANCELLED. THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION IS LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF DECEMBER, 2001.

ALL CANDIDATES CALLED FOR INTERVIEW MUST CARRY THEIR ORIGINAL MATRICULATION CERTIFICATE OR EQUIVALENT EXAMINATION CERTIFICATE TO THE SERVICES SELECTION BOARD (SSB). ORIGINALS WILL HAVE TO BE PRODUCED BY THE CANDIDATES WHO QUALIFY AT THE SSB INTERVIEW SOON AFTER THE INTERVIEW. THE ORIGINALS WILL BE RETURNED AFTER VERIFICATION. THOSE CANDIDATES WHO HAVE ALREADY PASSED 10+2 EXAMINATION MUST CARRY THEIR ORIGINAL 10+2 PASS CERTIFICATE OR MARKS SHEET FOR THE SSB. IF ANY OF THEIR CLAIMS IS FOUND TO BE INCORRECT THEY MAY RENDER THEMSELVES LIABLE TO DISCIPLINARY ACTION BY THE COMMISSION IN TERMS OF THE FOLLOWING PROVISIONS.

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of

- (i) obtaining support for his candidature by any means, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means during the examination, or
- (viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s) or
- (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

- (x) harassing or doing bodily harm to the Staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or
- (xi) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
- (xii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable
 - (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate and/or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period
 - (i) by the Commission from any examination or selection held by them,
 - (ii) by the Central Government from any employment under them, and
 - (c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after —

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation, in writing as he may wish to make in that behalf, and
- (ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration

6 LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS

- (i) The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011 on or before 14th May, 2001
- (ii) In respect of applications received only by post (by post/speed post) from the candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu & Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangt Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad, the last date for receipt of applications is 21st May, 2001

The benefit of extended time will be available only in respect of applications received by post/speed post from the above mentioned areas/regions. In the case of applications received by hand or through courier service, benefit of extended time will not be available regardless of the place of residence of the applicant

Candidates who are claiming the benefit of extended time should clearly indicate in column 13 (ii) of the application form, the area code of region (e.g. Assam, Meghalaya, J & K etc.) where they are residing. In case they fail to do so the benefit of extended time will not be allowed to them

NOTE I Candidates should clearly note that the Commission will in no case be responsible for non-receipt of their application or any delay in receipt thereof on any account whatsoever. No application received after the prescribed last date will be entertained under any circumstances and all the late applications will be summarily rejected. They should, therefore, ensure that their applications reach the Commission's Office on or before the prescribed last date

NOTE II Candidates can also deliver their applications personally at the Commission's counter against proper acknowledgement. The Commission will not be responsible for the applications delivered to any other functionary of the Commission

NOTE III Applications received through Couriers or Courier Services of any type shall be treated as having been received 'By hand' at the Commission's Counter

7 ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS

Immediately on receipt of an application from a candidate the Acknowledgement Card submitted by him along with the application form will be despatched to him by the Commission's office duly stamped in token of receipt of his Application. If a candidate does not receive the Acknowledgement Card within 30 days he should at once contact the Commission by quoting his Application Form No. (8-digit) and name & year of examination. Candidates delivering the application form in person at the Commission's Counter will be issued Acknowledgement Card at the Counter itself

The mere fact that a candidate's application has been acknowledged by the Commission does not mean that his candidature for the examination has been accepted by the Commission. Candidates will be informed at the earliest possible about their admission to the examination or rejection of their application

8 CORRESPONDENCE WITH THE COMMISSION/ ARMY/NAVAL/AIR HEAD QUARTERS

The Commission will not enter into any correspondence with the candidates about their candidature except in the following cases

- (i) Admission certificates, indicating the Roll Nos., Centre and the Courses to which admitted will be issued to the candidates who are admitted to the examination. The Admission Certificate will bear the photograph of the candidate. If a candidate does not receive his Admission Certificate or any other communication regarding his candidature for the examination three weeks before the

commencement of the examination, he should at once contact the Commission. On receipt of such a communication, Admission Certificate or a duplicate copy thereto will be issued to the admitted candidate. Information in this regard can also be obtained from the Facilitation Counter located in the Commission's office either in person or over phone Nos. 011 3385271/011 3381125. In case no communication is received in the Commission's office from the candidate regarding non receipt of his admission certificate at least three weeks before the examination, he himself will be solely responsible for non receipt of his Admission Certificate. It may be noted that the Admission Certificate will be issued at the address as photo-copied from the application form filled in by the candidate. The candidate should, therefore, ensure that the address given by him in the application form is correct and complete with pin code.

No candidate will ordinarily be allowed to take the examination unless he holds a certificate of admission for the examination. On receipt of Admission Certificate, check it carefully and bring discrepancies/errors, if any, to the notice of the UPSC immediately. The courses to which the candidates are admitted will be according to their eligibility as per educational qualifications for different courses and the preferences given by the candidates.

The candidates should note that their admission to the examination will be purely provisional based on the information given by them in the application form. This will be subject to verification of all the eligibility conditions by the UPSC.

- (ii) In the event of a candidate receiving more than one admission certificate from the Commission, he should use only one of these admission certificates for appearing in the examination and return the other(s) to the Commission's Office.
- (iii) If a candidate receives an admission certificate in respect of some other candidate on account of processing error, the same should be immediately returned to the Commission with a request to issue the correct Admission Certificate. Candidates may note that they will not be allowed to take the examination on the strength of an admission certificate issued in respect of another candidate.
- (iv) The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the Examination shall be final.
- (v) Candidates should note that the name in the Admission Certificate in some cases, may be abbreviated due to technical reasons.
- (vi) A candidate must see that communications sent to him at the address stated in his application are

redirected, if necessary. Change in address should be communicated to the Commission at the earliest opportunity. Although the Commission make every effort to take account of such changes they cannot accept any responsibility in the matter.

IMPORTANT ALL COMMUNICATIONS TO THE COMMISSION SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS —

- 1 NAME AND YEAR OF THE EXAMINATION
- 2 APPLICATION FORM NO. (8 DIGIT)
- 3 ROLL NO. (IF RECEIVED)
- 4 NAME OF CANDIDATE IN FULL AND IN BLOCK LETTERS
- 5 POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN THE APPLICATION

N.B. (I) COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO

N.B. (II) IF A LETTER/COMMUNICATION IS RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN EXAMINATION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS FULL NAME AND ROLL NUMBER, IT WILL BE IGNORED AND NO ACTION WILL BE TAKEN THEREON

CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMISSION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLICATION FOR THE EXAMINATION SHOULD IMMEDIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO — For candidates Army as First Choice—Army Headquarters, AG's Branch RTG (NDA Entry), West Block III, Wing-1, R K Puram, New Delhi-110066. For candidates Navy/Naval Academy as first choice—Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment, R & R Section, 'C' Wing, Sena Bhavan, New Delhi-110011. For candidates Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), 'J' Block, New Delhi 110011.

FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTER FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD

Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board should address enquiries or requests, if any, relating to their interview direct to — For candidates Army as First Choice—Army Headquarters, AG's Branch, RTG (NDA Entry), West Block III, Wing-1, R K Puram, New Delhi-110066. For candidates Navy/Naval Academy as first choice—Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment,

R & R Section, 'C' Wing, Sena Bhavan, New Delhi-110011. For candidates Air Force as first choice-Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), 'J' Block, New Delhi-110011.

Candidates are required to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Requests for postponing interview will only be considered in exceptional circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army Headquarters will be the sole deciding authority. Such requests should be addressed to the Administrative Officer of the Selection Centre from where the call letter for interview has been received. No action will be taken on letters received by Army/Navy/Air HQs. SSB interview for the candidates qualified in the written examination will be held during the month of March-April, 2002 or as suitable to Recruiting Directorate.

9. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSES OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES:

The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission in their discretion. Such candidates shall appear before a Services Selection Board for intelligence and Personality Test where candidates for the Army/Navy wings of the NDA and 10+2 Executive Branch of Naval Academy will be assessed on officers potentiality and those for the Air Force in Pilot Aptitude Test and for officer potentiality.

Candidates will appear before the Services Selection Board and undergo the test there at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Parents or guardians of the candidates will be required to sign a certificate to this effect.

To be acceptable, candidates for the Army/Navy and Naval Academy should secure the minimum qualifying marks separately in (i) Written examination and (ii) Officer potentiality test, as fixed by the Commission in their discretion, and candidates for the Air Force should secure the minimum qualifying marks separately in (i) Written examination (ii) Officer potentiality test, and (iii) Pilot Aptitude Test as fixed by the Commission in their discretion.

Subject to these conditions the qualified candidates will then be placed in the final order of merit on the basis of total marks secured by them in the Written examination, and the Services Selection Board Tests in three separate lists—one for the Army and the Navy, the second one for the Air Force and the third for the Course at the Naval Academy. The

names of candidates who qualify for all the Services of NDA and the Naval Academy will appear in all the three Merit Lists. The final selection for admission to the Army and Naval Wings of the National Defence Academy will be made in order of merit upto the number of vacancies available from the merit list for the Army and Naval Wings, for the Air Force Wing from the merit list for the Air Force; and for the Executive Branch of Naval Academy upto the number of vacancies available from the merit list for the Naval Academy, subject to medical fitness and suitability in all other respects. The candidates who are common to all the three merit lists will be considered for selection from all the three lists with reference to their order of preferences and in the event of their final selection from one list, names will be cancelled from the other lists.

N.B. : EVERY CANDIDATE FOR THE AIR FORCE IS GIVEN PILOT APTITUDE TEST ONLY ONCE. THE GRADE SECURED BY HIM AT THE FIRST TEST WILL THEREFORE HOLD GOOD FOR EVERY SUBSEQUENT INTERVIEW HE HAS WITH THE AIR FORCE SELECTION BOARD. A CANDIDATE WHO FAILS IN THE FIRST PILOT APTITUDE TEST CANNOT APPLY FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY EXAMINATION FOR THE AIR FORCE WING OR GENERAL DUTIES (PILOT) BRANCH OR NAVAL AIR ARM.

Candidates who have been given the Pilot Aptitude Test for any previous N. D. A. course should submit their application for this examination for the Air Force Wing only if they have been notified as having qualified in the Pilot Aptitude Test.

The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success in the examination confers no right of admission to the Academy, A candidate must satisfy the appointing authority that he is suitable in all respects for admission to the Academy.

10. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE :

Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, or to the Executive Branch of Naval Academy, but were removed therefrom for lack of officer-like qualities or on disciplinary grounds will not be admitted to the Academy.

Candidates who were previously withdrawn from the National Defence Academy or Naval Academy on medical grounds or left the above Academy voluntarily are however, eligible for admission to the Academy provided they satisfy the medical and other prescribed conditions.

11 NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES

12 The details regarding the (a) scheme and syllabus of the examination, (b) Physical standards for admission to the National Defence Academy and Naval Academy and (c) brief particulars of the service etc., for candidates joining the National Defence Academy and Naval Academy are given in Appendices I, II and III, respectively

SANJAY SRIVASTAVA
Dy Secretary

APPENDIX-I

(The scheme and syllabus of examination)

A. SCHEME OF EXAMINATION

1 The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows —

| Subject | Code | Duration | Maximum Marks |
|----------------------|------|-------------|---------------|
| Mathematics | 01 | 2-1/2 Hours | 300 |
| General Ability Test | 02 | 2-1/2 hours | 600 |
| Total | | | 900 |

2 THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. THE QUESTION PAPERS (TEST BOOKLETS) WILL BE SET IN ENGLISH ONLY

3. In the question papers, wherever necessary, questions involving the metric system of Weights and Measures only will be set.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them

5 The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination

6 The candidates are not permitted to use calculator or Mathematical or logarithmic table for answering objective type papers (Test Booklets). They should not therefore, bring the same inside the Examination Hall

B SYLLABUS OF THE EXAMINATION PAPER-I (CODE NO. 01) Mathematics-Maximum Marks 300

1. Algebra

Concept of a set, operations on sets, Venn diagrams De Morgan laws, Cartesian product, relation, equivalence relation

Representation of real numbers on a line Complex numbers basic properties, modulus, argument, cube roots of unity Binary system of numbers Conversion of a number in decimal system to binary system and vice versa Arithmetic, Geometric and Harmonic progressions Quadratic equations with real coefficients Solution of linear inequations of two variables by graphs Permutation and Combination Binomial theorem and its applications Logarithms and their applications

2 Matrices and Determinants

Types of matrices, operations on matrices Determinant of a matrix, basic properties of determinants Adjoint and inverse of a square matrix Applications—Solution of a system of linear equations in two or three unknowns by Cramer's rule and by Matrix Method

3 Trigonometri

Angles and their measures in degrees and in radians Trigonometrical ratios Trigonometric identities Sum and difference formulae Multiple and Sub-multiple angles Inverse trigonometric functions Applications—Height and distance, properties of triangles

4 Analytical Geometry of two and three dimensions

Rectangular Cartesian Coordinate system Distance formula Equation of a line in various forms Angles between two lines Distance of a point from a line Equation of a circle in standard and in general form Standard forms of parabola, ellipse and hyperbola Eccentricity and axis of a conic

Point in a three dimensional space, distance between two points Direction Cosines and direction ratios Equation of a plane and a line in various forms Angle between two lines and angle between two planes Equation of a sphere

5 Differential Calculus

Concept of a real valued function—domain, range and graph of a function Composite functions, one to one, onto and inverse functions Notion of limit, Standard limits—examples Continuity of functions—examples, algebraic operations on continuous functions Derivative of a function at a point, geometrical and physical interpretation of a derivative—applications

Derivatives of sum, product and quotient of functions, derivative of a function with respect to another function, derivative of a composite function Second order derivatives Increasing and decreasing functions Application of derivatives in problems of maxima and minima

6 Integral Calculus and Differential equations

Integration as inverse of differentiation, integration by substitution and by parts, standard integrals involving algebraic expressions, trigonometric, exponential and hyperbolic functions Evaluation of definite integrals—determination of areas of plane regions bounded by curves—applications

Definition of order and degree of a differential equation, formation of a differential equation by examples. General and particular solution of a differential equation, solution of first order and first degree differential equations of various types—examples. Application in problems of growth and decay.

7. Vector Algebra :

Vectors in two and three dimensions, magnitude and direction of a vector. Unit and null vectors, addition of vectors, scalar multiplication of a vector, scalar product or dot product of two vectors. Vector product or cross product of two vectors. Applications—work done by a force and moment of a force, and in geometrical problems.

8. Statistics and Probability

Statistics : Classification of data, Frequency distribution, cumulative frequency distribution—examples. graphical representation—Histogram, Pie Chart, frequency polygon—examples. Measure of Central tendency—Mean, median and mode. Variance and standard deviation—determination and comparison. Correlation and regression.

Probability : Random experiment, outcomes and associated sample space, events, mutually exclusive and exhaustive events, impossible and certain events. Union and Intersection of events. Complementary, elementary and composite events. Definition of probability—classical and statistical—examples. Elementary theorems on probability—simple problems. Conditional probability, Bayes' theorem—simple problems. Random variable as function on a sample space. Binomial distribution, examples of random experiments giving rise to Binominal distribution.

PAPER-II GENERAL ABILITY TEST

-(Code No. 02)

(Maximum Marks-600)

Part 'A'—ENGLISH (Maximum marks 200). The question paper in English will be designed to test the candidate's understanding of English and workman like use of words. The syllabus covers various aspects-like : Grammar and usage, vocabulary, comprehension and cohesion in extended text to test the candidate's proficiency in English.

Part 'B'—GENERAL KNOWLEDGE

(Maximum marks-400)

The question paper on General Knowledge will broadly cover the subjects : Physics, Chemistry, General Science, Social Studies, Geography and Current Events.

The syllabus given below is designed to indicate the scope of these subjects included in this paper. The topics mentioned are not to be regarded as exhaustive and questions on topics of similar nature not specifically mentioned in the syllabus may also be asked. Candidate's answers are expected to show their knowledge and intelligent understanding of the subject.

Section 'A' (Physics)

Physical Properties and States of Matter, Mass, Weight, Volume, Density and Specific Gravity, Principle of Archimedes, Pressure Barometer

Motion of objects, Velocity and Acceleration, Newton's Laws of Motion, Force and Momentum, Parallelogram of Forces, Stability and Equilibrium of bodies, Gravitation, elementary ideas of work, Power and Energy.

Effects of Heat, Measurement of Temperature and heat, change of State and Latent Heat, modes of transference of Heat.

Sound waves and their properties, Simple musical instruments.

Rectilinear propagation of Light, Reflection and refraction. Spherical mirrors and Lenses, Human Eye.

Natural and Artificial Magnets, Properties of a Magnet, Earth as a Magnet.

Static and Current Electricity, conductors and Non-conductors, Ohm's Law, Simple Electrical Circuits, Heating, Lighting and Magnetic effects of Current, Measurement of Electrical Power, Primary and Secondary Cells, use of X-Rays.

General Principles in the working of the following :

Simple Pendulum, Simple Pulleys, Siphon, Levers, Balloon, Pumps, Hydrometer, Pressure Cooker, Thermos Flask, Gramophone, Telegraphs, Telephone, Periscope, Telescope, Microscope, Mariner's Compass; Lightning Conductors, Safety Fuses.

Section 'B' (Chemistry)

Physical and Chemical changes, Elements, Mixtures and Compounds, Symbols, Formulae and simple Chemical (Equations, Law of Chemical Combination (excluding problems). Properties of Air and Water.

Preparation and Properties of Hydrogen, Oxygen, Nitrogen and Carbon dioxide, Oxidation and Reduction.

Acids, bases and salts.

Carbon—different forms.

Material used in the preparation of substances like soap, Glass, Ink, Paper, Cement, Paints, Safety Matches, and Gun-Powder.

Elementary ideas about the Structure of Atom, Atomic Equivalent and Molecular Weights, Valency.

Section 'C' (General Science)

Difference between the living and non-living.

Bases of Life—Cells, Protoplasm and tissues.

Growth and Reproduction in Plants and Animals.

Elementary knowledge of human body and its important

Common Epidemics, their causes and prevention.

Food—Source of Energy for man. Constituents of food, Balanced Diet.

The Solar System—Meteors and Comets, Eclipses.

Achievements of Eminent Scientists.

Section 'D' (History, Freedom Movement etc.)

A broad survey of Indian History, with emphasis on Culture and Civilisation.

Freedom Movement in India.

Elementary study of Indian Constitution and Administration.

Elementary knowledge of Five Year Plans of India.

Panchayati Raj, Co-operatives and Community Development.

Bhoodan, Sarvodaya, National Integration and Welfare State, Basic Teachings of Mahatma Gandhi.

Forces shaping the modern world; Renaissance, Exploration and Discovery; War of American Independence. French Revolution, Industrial Revolution and Russian Revolution. Impact of Science and Technology on Society. Concept of one World, United Nations, Panchsheel, Democracy. Socialism and Communism. Role of India in the present world.

SECTION 'E' (GEOGRAPHY)

The Earth, its shape and size. Latitudes and Longitudes, Concept of time. International Date Line. Movements of Earth and their effects.

Origin of Earth, Rocks and their classification: Weathering—Mechanical and Chemical, Earthquakes and volcanoes.

Ocean Currents and Tides

Atmosphere and its composition; Temperature and Atmospheric Pressure, Planetary Winds, cyclones and Anti-cyclones; Humidity; Condensation and Precipitation; Types of Climate. Major Natural regions of the World.

Regional Geography of India—Climate, Natural vegetation. Mineral and Power resources; location and distribution of agricultural and industrial activities.

Important Sea ports and main sea, land and air routes of India. Main items of Imports and Exports of India.

SECTION 'F' (CURRENT EVENTS)

Knowledge of Important events that have happened in India in the recent years.

Current important world events.

Prominent personalities—both Indian and International including those connected with cultural activities and sports.

NOTE :

Out of maximum marks assigned to part 'B' of this paper, questions on Sections 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' and 'F' will carry

approximately 25%, 15%, 10%, 20%, 20% and 10% weightages respectively.

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST

In addition to the interview the candidates will be put to Intelligence Tests both verbal and non-verbal, designed to assess their basic intelligence. They will also be put to Group Tests such as group discussions, group planning, outdoor group tasks, and asked to give brief lectures on specified subjects. All these tests are intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also his social traits and interests in current affairs.

APPENDIX-II

GUIDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY

NOTE : CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARDS. THE GUIDELINES FOR THE SAME ARE GIVEN BELOW :

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE, THEREFORE, ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

Candidates are also advised to rectify minor defects/ailments in order to speed up finalisation of medical examination conducted at the Military Hospital after being recommended at the SSB.

The undermentioned ailments are considered, common minor ailments :

- (a) Wax (Ears)
- (b) DNS
- (c) Hydrocele/Phimosis
- (d) Overweight/Underweight
- (e) Under Chest
- (f) Piles
- (g) Gynaecomastia
- (h) Tonsillitis
- (i) Varicocoele

Civilian candidates appearing for all types of commission in the Armed Forces will be entitled to out-patients treatment from service sources at public expense for injuries sustained or diseases contracted during the course of their examination by the Selection Board. They will also be entitled to in-patient treatment at public expense in the Officer's ward of a hospital provided—

(a) the injury thus sustained during the tests or,

(b) the disease is contacted during the course of the examination by selection board and there is no suitable accommodation in local civil hospital or it is impracticable to remove the patient to the civil hospital; or,

(c) the medical board requires the candidates's admission for observation.

NOTE : They are not entitled to special nursing.

A candidate recommended by the Services Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. Only those candidates will be admitted to the academy who are declared fit by the Medical Board. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. However the candidates declared unfit/temporarily unfit will be intimated by the President of the Medical Board and the procedure for request for an Appeal Medical Board will also be intimated to the candidate.

Candidates declared unfit during Appeal Medical Board will be intimated about the provision of Review Medical Board.

(a) The candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/disability which is likely to interfere with the efficient performance of duties.

(b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or under weight. The candidate should not be obese.

(c) The minimum acceptable height is 157.5 cms. (162.5 cms. for Air Force). For Gorkhas and individuals belonging to hills of North Eastern regions of India, Garhwal and Kumaon, the minimum acceptable heights will be 5 cms. less. In case of candidates from Lakshadweep the minimum acceptable height can be reduced by 2 cms. Height and weight standards are given below :

HEIGHT/WEIGHT STANDARDS FOR ARMY/AIR FORCE

TABLE-I

| Height in Centimetres (Without Shoes) | Weight in Kgs. | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | 16-17 Years | 17-18 Years | 18-19 Years |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 152 | 43 | 44 | 45 |
| 155 | 44 | 45.5 | 47 |
| 157 | 45 | 47 | 48 |
| 160 | 46 | 48 | 49 |
| 162 | 48 | 50 | 51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|------|----|------|
| 165 | 50 | 52 | 53 |
| 167 | 51 | 53 | 54 |
| 170 | 52.5 | 55 | 56 |
| 173 | 54.5 | 57 | 58 |
| 175 | 56 | 59 | 60 |
| 178 | 58 | 61 | 62 |
| 180 | 60 | 63 | 64.5 |
| 183 | 62.5 | 65 | 66.5 |

HEIGHT/WEIGHT STANDARDS FOR NAVY

TABLE-II

| Height in Centimetres (Without Shoes) | Weight in Kgs. | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| | 16 Years | 18 Years | 20 Years |
| 152 | 44 | 45 | 46 |
| 155 | 45 | 46 | 47 |
| 157 | 46 | 47 | 49 |
| 160 | 47 | 48 | 50 |
| 162 | 48 | 50 | 52 |
| 165 | 50 | 52 | 53 |
| 168 | 52 | 53 | 55 |
| 170 | 53 | 55 | 57 |
| 173 | 55 | 57 | 59 |
| 175 | 57 | 59 | 61 |
| 178 | 59 | 61 | 62 |
| 180 | 61 | 63 | 64 |
| 183 | 63 | 65 | 67 |

A \pm 10% (A \pm 6 Kg. for Navy) departure from the average weight given in the table I above is to be considered within normal limit. However, in individuals with heavy bones and broad built as well as individuals with thin but otherwise healthy this may be relaxed to some extent on merit.

NOTE 1 : Height relaxable upto 2.5 cm. (5 cm. for Navy) may be allowed where the Medical Board certifies that the candidate is likely to grow and come up to the required standard on completion of his training.

NOTE 2 : To meet special requirement as a pilot in the Air Force the acceptable measurements of leg length, thigh length and sitting height will be as under :—

| | Minimum | Maximum |
|----------------|------------|-------------|
| Leg length | 99.00 cms. | 120.00 cms. |
| Thigh Length | — | 64.00 cms. |
| Sitting Height | 81.50 cms. | 96.00 cms. |

On account of lower age of NDA candidates, a margin of upto 5.0 cm. in height, 2.5 cm. in leg length (Minimum) and 1.0 cm. sitting height (minimum) may be given provided it is certified by the Medical Board that the candidate is likely to grow and come upto the required standard on completion of his training in NDA.

(d) Chest should be well developed fully expanded chest should not be less than 81 cms. The minimum range of expansion after full inspiration should be 5 cms. The measurement will be taken with a tape so adjusted that its lower edge should touch the nipple in front and the upper part of the tape should touch the lower angle of the shoulder blades behind. X-ray of the chest is compulsory and will be taken to rule out any disease of the chest.

(e) There should be no disease of bones and joints of the body. X-ray of spine of candidates will not be carried out as a routine except for Air Force. It will, however, be done on the advice of surgical specialist wherever clinically indicated. Minor congenital defects which are not likely to interfere in the performance of military duties may be acceptable on merit.

SPINAL CONDITIONS

(f) The following past medical history is disqualifying for Air Force duties :

- (i) Disease or injury of the spine or sacroiliac joint either with or without objective sign which has prevented the candidate from successfully following a physically active life.
- (ii) Prolapse intervertebral disc and surgery for the condition.

(g) Thorough Clinical examination of the spine including its shape, local tenderness if any, spinal movements etc. is to be carried out. For candidates for aircrew duties only. X-ray of lumbosacral cervical spine (AP and Lateral views) is to be carried out.

(h) Mild Kyphosis or Lordosis where deformity is barely noticeable and there is no pain or restriction of movement will not preclude acceptance.

(i) In case of noticeable Scoliosis or suspicion of any other abnormality or spinal deformity, more than mild, appropriate X-rays of the spine are to be taken and the Examinee referred for specialist's advice.

(j) The following conditions detected on X-ray examination will be disqualifying for entry to Air Force

- (i) Granulomatous disease of spine.
- (ii) Arthritis/spondylosis.
- (iii) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's Method (10 degree for Army).
- (iv) More than mild Kyphosis/Lordosis.
- (v) Spondylosis/Spondylosis.
- (vi) Hemiated nucleus pulposus.
- (vii) Compression fracture of Vertebra.
- (viii) Scheurman's Disease.
- (ix) Cervical ribs with demonstrable neurological or Circulatory deficit.
- (x) Presence of Schmorl's node at more than one level.
- (xi) Atlanto-occipital, and atlanto-axial anomalies.
- (xii) "Incomplete Sacralisation Unilateral or Bilateral"
- (xiii) Spina bifida other than SV 1 and LV 5.
- (xiv) Any other abnormality, if so considered by specialist.

(k) A candidate should have not past history of mental breakdown or fits.

(l) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms. in a quiet room. There should be no evidence of present or past disease of the ear, nose and throat. Audiometric test will be done for AF. Audiometric loss should not exceed +20 db in frequencies between 250Hz and 4000 Hz. There is no impediment of speech.

(m) There should no signs of functional or organic disease of the heart and blood vessels. Blood pressure should be normal.

(n) The muscles of abdomen should be well developed and there should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen will be a cause for rejection

(o) Un-operated hernias will make a candidate unfit. If operated this should have been done at least a year prior to the present examination and the healing is complete

(p) There should be no hydrocele, varicocele or piles

(q) Urine examination will be done and any abnormal detected will be a cause for rejection

(r) Any disease of skin which is likely to cause disability or disfigurement will also be a cause for rejection

(s) A Candidate should be able to read 6/6 in a distant vision chart with each eye, with or without glasses. Myopia should not be more than 2.5 D and hypermetropia not more than 3.5 D including Astigmatism. Internal examination of the eye will be done by means of ophthalmoscope to rule out any disease of the eye. A candidate must have good binocular vision. The colour vision standard, will be (CPIII) for Army. A candidate should be able to recognise red and green colours. Candidates will be required to give certificates that neither he nor any member of his family has suffered from congenital night blindness. Candidates who have undergone or have the evidence of having undergone Radial Keratotomy to improve the visual acuity will be permanently rejected for all the Services. Candidates who have undergone Lasik Surgery for correction of refractive error are also not acceptable to defence services.

VISION STANDARD FOR NAVAL CANDIDATES

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Distant vision | 6/6, 6/9 correctable to 6/6 |
| Near Vision | N 5 each eye |
| Colour Vision | CPI (MLT) |
| Manifest | Must not exceed |
| Hypermetropia | +2.00 DSph |

Myopia is not to exceed 0.75 dioptres in either eye and Hypermetropia not more than +1.5 dioptres in the better eye and 2.5 dioptres in the worse eye.

Ocular Muscle Balance Heterophoria with the Maddox Rod Test must not exceed

| | |
|------------------|--|
| (i) at 6 metres— | Exophoria 8 prism dioptres, Esophoria 8 prism dioptres Hyperphoria 1 prism dioptres |
| (ii) at 33 cms— | Exophoria, 16 prism dioptres Esophoria 6 prism dioptres Hyperphoria 1 prism dioptres |

For Air Force, the criteria are —

Candidates who habitually wear spectacles are not eligible for selection.

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Distant Vision | 6/6, 6/9 correctable to 6/6 |
| Near Vision | N 5 each eye |
| Colour Vision | CPI (MLT) |
| Manifest | Must not exceed |
| Hypermetropia | +2.00 Sph |
| Myopia | Nil |
| Astigmatism | +0.75 CVI |

Heterophoria with the Maddox Rod must not exceed—

| | |
|------------------------|--|
| (i) at 6 metres | Exophoria 6 prism dioptres Esophoria 6 prism dioptres Hyper/Hypophoria 1 prism dioptre |
| (ii) at 33 cms | Exophoria 16 prism dioptres Esophoria 6 prism dioptres Hyper/Hypophoria 1 prism dioptres |
| (iii) Binocular Vision | Must possess good binocular vision (fusion and Stereopsis with good amplitude and depth) |

(i) The candidates should have sufficient number of natural and sound teeth. A minimum of 14 dental points will be acceptable. When 32 teeth are present, the total dental points are 22. A candidate should not be suffering from severe pyorrhoea.

(u) Routine ECG and EEG for Air Force candidates must be within normal limits.

(v) "Physical conditioning" Prospective candidates are advised to keep themselves in good physical condition, by following the undermentioned regimen daily —

- Jogging 3 to 5 Kms interspersed with short sprints
- Skipping
- Pushups and sit ups (minimum 20 each)
- Chin ups (minimum 08)
- It would be of immense benefit if the candidates could learn the basics of swimming. However, non-swimmers will be taught swimming at the NDA.

APPENDIX III

(BRIEF PARTICULARS OF THE SERVICE ETC.)

1. Before a candidate joins the Academy, the parent or guardian will be required to sign —

(a) a certificate to the effect that he fully understands that he or his son or ward shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which his son or ward may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) A bond to the effect that if, on account of his dismissal or discharge or withdrawal from National Defence Academy for knowingly furnishing false particulars or suppressing material information in his application for admission to the said National Defence Academy or in the event of his being dismissed or discharged or withdrawn on disciplinary grounds from the said National Defence Academy or for any reason not beyond the control of the cadet, he does not complete the prescribed period of training or he the cadet does not accept a Commission if offered as conventated above, then the Guarantors and the cadet shall jointly and severally be liable to pay forthwith to Government in cash

sums as the Government shall fix but not exceeding such expenses as shall have been incurred by the Government on account of the Cadet on his training and all the money received by the Cadets as pay and allowance from the Government together with interest on the said money calculated at the rate in force for Government loans

2 The cost of training including accommodation, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets will, however, be required to meet their pocket and other private expenses. Normally, these expenses are not likely to exceed Rs 175 00 p.m. If in any case a cadet's parents or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance upto Rs 175 00 p.m. for the 1st and 2nd years Rs 175 00 p.m. for the 3rd year training at NDA and Rs 175 00 p.m. for the further specialised training in Army/Navy/Air Force Training Establishments may be granted by the Government. No cadet whose parents' or guardians' income exceeds Rs 1500/- per month and Rs 2000/- per month if more than one son/ward simultaneously undergoing training at NDA, IMA, OTA and corresponding training establishment in the Navy and Air Force would be eligible for the grant of financial assistance.

The parent/guardian of a candidate desirous of having financial assistance from the Government should immediately after his son/ward having been finally selected for training at the National Defence Academy submit an application through the District Magistrate of his District who will forward the application with his recommendation to the Commandant, National Defence Academy, KHADAKWASLA, PUNE (411023).

3 Candidates finally selected for training at the Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant, National Defence Academy, on arrival there

| | | |
|-------|---|------------|
| (a) | Pocket allowance for five months at Rs 175 00 per month | Rs 875 00 |
| (b) | For items of clothing and equipment | Rs 3200 00 |
| (c) | Incidental Expenditure during 1st Semester | Rs 425 00 |
| Total | | Rs 4500 00 |

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the candidate in the event of financial aid being sanctioned to them

| | | |
|-----|---|-----------|
| (a) | Pocket allowance for five months at Rs 175 00 per month | Rs 875 00 |
| (b) | For items of clothing and equipment approximately | Rs 475 00 |

4 The following scholarships/Financial Assistance are tenable at the National Defence Academy

(1) PARASHURAM BHAU PATWARDHAN SCHOLARSHIP—This scholarship is granted to boys who belong to MAHARASHTRA AND KARNATAKA and whose parents income is between Rs 350 00 and 500 00 per month from all sources. The value of the scholarship is equal to the Government financial assistance. It is admissible for the duration of a Cadet's stay in the National Defence Academy and other Pre commission training establishment subject to the Cadet's good conduct and satisfactory progress in the training and his parents income remaining below the prescribed limit. Cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(2) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL SCHOLARSHIP—This scholarship is of the value of Rs 360 00 per annum and awarded to a MARATHI cadet who should be the son of an ex-serviceman. The scholarship is in addition to any financial assistance from the Government.

(3) KAUR SINGH MEMORIAL SCHOLARSHIP—Two scholarships are awarded to cadets who obtain the highest position amongst candidates from BIHAR. The value of each scholarship is Rs 37 00 per mensem tenable for a maximum period of 4 years during the training at the National Defence Academy Khadakwasla and thereafter at the Indian Military Academy, Dehra Dun and the Air Force Flying College, and Naval Academy Cochin where the cadets may be sent for training on completion of their training at the National Defence Academy. The scholarship will, however, be continued subject to maintaining good progress at the above institution.

(4) ASSAM GOVERNMENT SCHOLARSHIP—Two scholarships will be awarded to the cadets from ASSAM. The value of each scholarship is Rs 30 00 per mensem and is tenable for the duration of a cadet's stay at the National Defence Academy. The scholarships will be awarded to the two best cadets from ASSAM without any reference to the income of their parents. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(5) UTTAR PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS—Two scholarships each of the value of Rs 30 00 per month and an outfit stipend of Rs 400 00 are awarded to two cadets who belong to UTTAR PRADESH on merit-cum-means basis and are tenable for a period of three years subject to satisfactory performance by the cadets at National Defence Academy. Cadets who are granted these Scholarships are not entitled to any other financial assistance from Government.

(6) KERALA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS—One merit scholarship of the value of Rs 480/- per annum for the entire period of training at NDA, will be awarded by the State Government of Kerala to a Cadet who is domiciled resident of the State of KERALA and who secures the first position in the all India UPSC Entrance Examination to

NDA irrespective of the fact whether he has passed out from RIMC or from any of the Sainik Schools in India. The financial position of a Cadet's father/guardian is not taken into consideration

(7) BIHARI LAL MANDAKINI PRIZE—This is cash prize of Rs. 500.00 available for the best BENGALI boy in each Course of the Academy. Application forms are available with the Commandant, National Defence Academy.

(8) ORISSA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS—These scholarships, one for the Army, one for the Navy and the other for the Air Force of the value of Rs. 80.00 each per month will be awarded by the Government of Orissa to the cadets who are permanent residents of the State of ORISSA. Two of these scholarships will be awarded on the basis of merit-cum-means of the cadets whose parents' or guardians' income does not exceed Rs. 5,000/- per annum and the other one will be given to the best cadet irrespective of his parent's or guardian's income.

(9) WEST BENGAL GOVERNMENT SCHOLARSHIPS—Following categories of scholarships are awarded by the West Bengal Government to those cadets who are permanent residents of WEST BENGAL :—

(a) Category 1—These scholarships, one each of Army, Navy and Air Force at the rate of Rs. 360 per annum during 1st and 2nd years & at the rate of Rs. 480 per annum during the 3rd year at the Academy and 4th year at the specialised training institution, with an initial outfit stipend of Rs. 400 in addition for those cadets who are not eligible for any other scholarship at the Academy.

(b) Category 2—The scholarship of a lumpsum grant of Rs. 100 per annum in addition to Government financial assistance.

(10) PILOT OFFICER GURMEET SINGH BEDI MEMORIAL SCHOLARSHIP—One Scholarship of Rs. 420.00 per annum is granted to the cadet who stands highest in the overall order of merit amongst Air Force Cadets at the end of the 4th term. It is for the duration of one year (during 5th and 6th terms). This scholarship will be withdrawn if the recipient is relegated or withdrawn during the period of its receipts. The Cadet who is already in receipt of any such merit scholarship or financial assistance is not entitled to this scholarship.

(11) HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIP—Four scholarships will be awarded to cadets from HIMACHAL PRADESH. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per month during the first two years of training and Rs. 48.00 per month during the third year of training. These scholarships will be available to those cadets whose parents' income is below Rs. 500.00 per month. No cadet in receipt of financial assistance from the Government will be eligible for this scholarship.

(12) TAMIL NADU GOVERNMENT SCHOLARSHIP—The Government of Tamil Nadu has instituted at NDA one scholarship per course of the value of Rs. 30/- per month plus an outfit allowance of Rs. 400/- (one only during the entire period of cadet's training) to be awarded to a cadet belonging to the State of TAMIL NADU whose parents'/guardians' monthly income does not exceed Rs. 500/- The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

(13) KARNATAKA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS—The Government of Karnataka has awarded 18 scholarships (Eighteen Scholarships) 9 in respect of course commencing from January and 9 in respect of course commencing from July every year for award to cadets from Karnataka State who join the National Defence Academy after completion of their education at the Sainik School, Bijapur or at the Rashtriya Indian Military College, Dehra Dun. The value of the scholarship shall be Rs. 480/- (Rupees Four hundred and eighty) each per annum. Four more scholarships (two per term) at the rate of Rs. 480/- per annum for the cadets of Karnataka State who join NDA after completion of education other than at Sainik School, Bijapur/ RIM College, Dehra Dun have been awarded.

(14) ALBERT EKKA SCHOLARSHIP—The Government of Bihar has instituted at NDA 25 Merit Scholarships at Rs. 50/- per month for entire period of six terms at the NDA and Rs. 650/- one time towards clothing and equipment. The cadet awarded the above merit scholarship would not be eligible for any other scholarship or financial assistance from the Government. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant National Defence Academy on their arrival.

(15) FG OFFICER DV PINTOO MEMORIAL SCHOLARSHIP—GP Capt M Vashishta has instituted 3 scholarships of Rs. 125/- each per month at NDA for one term to be awarded to the first three cadets in the order of merit on completion of their first semester till end of second term. The cadets in receipt of Govt. Financial Assistance will not be eligible for the above scholarships. The application for eligible cadets can be made to the Commandant, NDA on arrival.

(16) FINANCIAL ASSISTANCE TO WARDS OF EX-SERVICEMEN—MAHARASHTRA STATE—The wards of Maharashtra ex-service officers/men who are undergoing training as Cadets at NDA/IMA/Air Force Academy and Naval Academy will be given pocket expenses prescribed by the Training Establishment at the following rates

| | | |
|-------------|------|--|
| Ex-Officers | 50% | of total pocket expenses for entire duration of training |
| Ex-JCOs | 75% | -do- |
| Ex-ORs | 100% | -do- |

The parents/guardians of the wards should submit their applications to their respective Zila Sainik Welfare Office alongwith the certificates obtained from the academy showing the rates of pocket money based on which the amount will be remitted to the applicant's parents

Terms and conditions governing these scholarships are obtainable from the Commandant, National Defence Academy KHADAKWASLA, PUNE (411023)

5 Immediately after the selected candidates join the Academy, a preliminary examination will be held in the following subjects

- (a) English,
- (b) Mathematics,
- (c) Science,
- (d) Hindi

The standard of the examination in the subjects, at (a), (b) and (c) will not be higher than that of the Higher Secondary Examination of an Indian University or Board of Higher Secondary Education. The paper in the subject at (d) is intended to test the standard attained by the candidate in Hindi at the time of joining the Academy

Candidates are, therefore, advised not to neglect their studies after the competitive examination

TRAINING

6 The selected candidates for the three services, viz., Army, Navy and Air Force are given preliminary training both academic and physical for a period of 3 years at the National Defence Academy which is an Inter-Service Institution. The training during the first two and half years is common to the cadets of three wings. The cadets on passing out will be awarded B Sc /B A degree from Jawaharlal Nehru University, Delhi

7 On passing out from the National Defence Academy, Army Cadets go to the Indian Military Academy, Dehra Dun, Naval Cadets to the Cadets Trainingship and Air Force cadets to AFA, HYDERABAD/BFTS, ALLAHABAD

8 At the IMA Army Cadets are known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military training for a period of one year aimed at turning officer capable to leading infantry Sub-units. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lt subject to being medically fit in "SHAPE" one

9 The Naval cadets are selected for the Executive, Engineering and Electrical Branches of the Navy, on passing out from the National Defence Academy and are given sea training on the Cadet Trainingship for a period of six months on successful completion of which they are promoted to the rank of Midshipmen. After a further training of 6 months in the respective branches to which they are allocated they are promoted to the rank of acting Lieutenants

10 Air Force Cadets receive flying training for a period of 1½ years. However at the end of 1 year of training they are given provisional commission in the rank of Flying Officer after successful completion of further training of six months they are absorbed as permanent commissioned officers on probation for a period of one year

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES

11 Army Officers and equivalent ranks in Air Force and Navy

(I) Stipend for Cadet Training

Gentlemen cadets during the entire duration of training in Service academies i.e. during training period at IMA and OTA shall be entitled to stipend of Rs 8000/- p.m. On successful completion of training the stipend admitted will be converted as pay for all purposes. However the period of training shall not be treated as commissioned service

(II) Pay

| (a) Rank | Pay Scale |
|----------|---------------------|
| Lt | Rs 8250-300 10050 |
| Capt | Rs 9600-300 11400 |
| Major | Rs 11600 325 14850* |

* Majors on their stagnating for one year at the maximum scale of Major, are granted the pay scale of Lt Col as shown below along with rank pay of Major"

| | |
|--------|--------------------|
| Lt Col | Rs 13500-400-17100 |
| Col | Rs 15100-450-17350 |
| Brig | Rs 16700-450-18050 |

(b) In addition to pay, Rank pay will also be given as under –

| | |
|--------------|---------|
| Capt | Rs 400 |
| Major/Lt Col | Rs 1200 |
| Lt Col | Rs 1600 |
| Col | Rs 2000 |
| Brig | Rs 2400 |

| (c) Rank | Pay Scale |
|--|--------------------|
| Maj Gen | Rs 18400-500-22400 |
| Lt Gen | Rs 22400-525 24500 |
| Vice Chief of the Army Staff and Army Cdrs | Rs 2600 (Fixed) |
| Chief of the Army Staff | Rs 30,000 (Fixed) |

(III) QUALIFICATION PAY AND GRANT

Officers of the rank of Lt Col and below possessing certain prescribed qualification are entitled to lumpsum

Qualification Grant of Rs 3000/-, 4500/-, 7500/- or 10 000/- based on the qualification held by them

The Army Aviators (Pilots) serving in Army Aviation Corps are entitled to the Qualification Pay, based on the Qualification held by them, as under –

- (i) Master Aviation instructor-Rs 250/- p m
- (ii) Senior Aviation Instructor Class I- Rs 200/- p m
- (iii) Senior Aviation Instructor Class II - Rs 140/- p m
- (iv) Aviators holding Master Green Card - Rs 200/- p m
- (v) Aviators holding Green Card Rs 140/- p m

The Army Aviators (Pilots) serving in the Army Aviation Corps are entitled to flying allowance as under –

- (a) Brig & above Rs 5200/-
- (b) Maj to Col Rs 7000/-
- (c) Capt Rs 5500/-
- (d) Lt Rs 4500/-

(IV) ALLOWANCES

In addition to pay, an officer at present receives the following allowances

(a) Compensatory (City) and Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time

(b) A kit maintenance allowances of Rs 200/- p m

(c) Depending upon rank and area of posting, officer posted to Field Areas will be eligible for compensatory Field Area Allowance at the rate of Rs 2100/- to Rs 2600/- p m and Compensatory Modified Field Area Allowance at the rate of Rs 800/- to Rs 1000/- p m

(d) In addition to the Compensatory Field Area Allowance, officers posted to areas situated at a height of 9000 ft to 15000 ft and areas above 15000 ft High Altitude/ Uncongenial Climate allowance would be admissible at the rate of Rs 530/- to Rs 1060/- and Rs 800/- to Rs 600/- p m respectively

(e) Siachen Allowance at the rate of Rs 7000/- per month, will be admissible in addition to Compensatory Field Area Allowance to officers of all ranks. This allowance is however, not admissible in conjunction with High Altitude/ uncongenial climate allowance

(f) Outfit Allowance Initial Outfit allowance is Rs 6000/- Renewal outfit allowance Rs 6000/- after seven years of effective service

(g) Free rations are provided to all officers

(h) Transport Allowance Transport allowance @ Rs 800/- p m to officers not provided with Government accommodation within a distance of 1 KM from the place of duty or facility of government transport or not residing in a campus housing the place of work and the residence

12 (a) Army Group Insurance provides Insurance cover on nominal one time premium, of Rs 4 Lac to the cadets including Naval and Air Cadets of NDA from the date of joining for pre-commission training till completion of training. The scheme also provides disability cover. For 100% disability, the cover is Rs 1 lac, proportionately. This scheme has been made applicable with effect from 01 Jan 99

(b) At IMA when in receipt of stipend of Rs 8,000/- per month and subsequently on commissioning the Gentlemen Cadets and Officers are covered under the Main Army Group Insurance Scheme applicable to Regular Army Officers. The Insurance cover available is Rs 8 lacs. Those who are boarded out of IMA or the Army on account of disability, the disability cover is 50% of the insured amount for 100% disability, i.e. Rs 4 lacs for 100% disability proportionately reduced to Rs 8000/- for 20% or less disability

13 RETIREMENT BENEFITS

Pension, gratuity and casually pensionary award will be admissible in accordance with the rules in force from time to time

14 LEAVE

Leave will be admissible in accordance with the rules in force from time to time

SANJAY SRIVASTAVA
Dy Secy